कोयलांचल संवाद

हिंदी दैनिक

www.ksnewsupdates.com

धनबाद, शनिवार 02 नवंबर, 2024, वर्ष : 33 अंक : 209, मूल्य : 2 रूपए

धनबाद एवं रांची से एक साथ प्रकाशित

YouTube Subscribe

Koylanchal sambad news

संक्षिप्त खबरें

विधानसभा चुनाव के दिन हाईकोर्ट में छुट्टी की घोषणा

रांची : झारखंड हाईकोर्ट में 20 नवंबर को अवकाश रहेगा. हाईकोर्ट की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है. हाईकोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 20 नवंबर (बुधवार) को खिजरी विधानसभा सीट पर चुनाव होने हैं और हाईकोर्ट का इलाका इसी विधानसभा सीट के अंतर्गत में आता है. इसलिए 20 नवंबर को अवकाश दी गयी है. हालांकि रांची में विधानसभा चुनाव 13 नवंब को होना है, लेकिन उस दिन अनकाश नहीं है. वोटिंग के दिन अवकाश इसलिए रखा गया है, ताकि हाईकोर्ट के न्यायाधीश, रजिस्ट्री से जुड़े कर्मचारी और हाईकोर्ट के अधिवक्ता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित न हों. 20 नवंबर को घोषित अवकाश की जानकारी हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन को भी दी गयी है.

अलका तिवारी बनी झारखंड की नई मुख्य सचिव, के रवि कुमार ने की पुष्टि

रांची : अलका तिवारी झारखंड की नयी चीफ सेक्रेटरी बनायी गयी हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इसकी पुष्टि की है. वहीं कार्मिक विभाग की ओर से इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है. अलका तिवारी 988 बैच की आईएएस हैं. उनके रिटायरमेंट की तिथि 30 सितंबर 2025 है. यहां बता दें कि 31 अक्टूबर को एल खियांग्ते रिटायर हो गये. राज्य सरकार ने एल खियांग्ते के तीन महीने के एक्सटेंशन के लिए चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा था. लेकिन इस पर कोई आदेश नहीं आया. बताते चलें कि 1988 बैच के आईएएस एल खियांग्ते लगभग 11 महीने चीफ सेक्रटरी के पद पर रहे.

प्रथम चरण के 43 विस क्षेत्रों के लिए कुल 683 उम्मीदवार : के रवि कुमार

रांची : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शुक्रवार को निर्वाचन सदन में प्रेस वार्ता किया. सीईओ ने कहा कि दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. वहीं प्रथम चरण के 43 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 683 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. उसमें पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 609 है. महिला उम्मीदवार 73 हैं और एक प्रत्याशी ट्रासजेंडर हैं. उन्होंने बताया कि कुल 683 प्रत्याशियों में से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी से 87 उम्मीदवार हैं, जिनमें 75 पुरुष और 12 महिला हैं. रवि ने कहा कि उसी तरह मान्यता प्राप्त राज्यस्तरीय झारखंड की पार्टियों ने कुल 32 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है. जिनमें 28 पुरुष और 4 महिलाएं हैं. दूसरे राज्यों की मान्यता प्राप्त राज्यस्तरीय पार्टियों ने 42 लोगों को प्रत्याशी बनाया है. उनमें 39 पुरुष और 3 महिलाएं हैं. वहीं पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने कुल 188 प्रत्याशी दिये हैं. जिनमें 168 पुरुष और 20 महिलाएं हैं. प्रथम चरण के चुनाव में कुल 334 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं. उनमें 299 पुरुष, 34 महिलाएं एवं 01 ट्रासजेंडर प्रत्याशी शामिल है.

निर्वाचन आयोग लगातार चौकसी बरत रहा है

सीईओ ने कहा कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयरहित मतदान को लेकर लगातार चौकसी बरत रहा है. इसी के तहत राज्य से जुड़ती दूसरे राज्यों की सीमा पर चेकपोस्ट बनाकर लगातार चेकिंग की जा रही है. राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक कुल 135.70 करोड़ की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गयी है. वहीं आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अब तक कुल 24 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं. उन पर नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है.

'जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में कोई गुप्त कक्ष नहीं, खजाने में दरारें', मंत्री हरिचंदन ने दी जानकारी

भुवनेश्वर : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) सर्वे के प्रारंभिक नतीजों से पता चला है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भडार में कोई गोपनीय सुरंग या कक्ष नहीं है। हालांकि, इसकी पुष्टि अंतिम रिपोर्ट के बाद ही की जा सकेगी। ओडिशा के कानून, निर्माण और आबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि कोई गोपनीय रास्ता नहीं मिला। हालांकि सर्वेक्षण में मंदिर के खजाने में दरारें पाई गईं। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने खजाने में मूल्यवान वस्तुओं और गहनों की अटकलों के बीच जीपीआर सर्वे की मांग की थी। हरिचंदन ने कहा कि भगवान जगन्नाथ के गहनों और कीमती सामान की सूची तब बनाई जाएगी, जब एएसआई रत्न भंडार की मरम्मत पूरी कर लेगी। उन्होंने कहा, अभी मरम्मत करना संभव नहीं है, क्योंकि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और यह कार्तिक का पवित्र महीना है। मरम्मत का काम एक महीने से अधिक समय लेगा और एएसआई कार्तिक पूर्णिमा के बाद दरारों को ठीक करने का कार्यक्रम बनाएगी। उन्होंने कहा, एक बार मरम्मत पूरी हो जाने के बात खजाने में कीमती सामान की सूची बनाई जाएगी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरा के साथ चुनाव आयोग को भी घेरा, कहा

पीएम के दौरे को लेकर नहीं दी जा रही किसी प्रकार की छुट्टी

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरा के साथ चुनाव आयोग को भी घेरा है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि 31 अक्टूबर को दीपावली थी, अब भैया दूज, सोहराय, गोहाल पूजा, बांधना पर्व और चित्रगुप्त पूजा है. 4 नवंबर से 8 नवंबर तक छठ महापर्व है. ये पर्व झारखंड के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. इसमें सभी आमजन, सरकारी कर्मी, पुलिस कर्मी छुट्टी लेकर अपने घर जाते हैं. लेकिन सूचना मिली है कि जिला प्रशासन चुनाव एवं प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित दौरे को लेकर किसी प्रकार की छुट्टी नहीं दे रहे हैं.

चुनाव आयोग से आग्रह कर्मियों की छुट्टी न करें रद्द

सीएम ने चुनाव आयोग से अनुरोध है कि स्पष्ट निर्देश जिले के डीसी, एसपी को दें कि पूजा के लिए इन कर्मियों को छुट्टियां दें, छुट्टियों को रद्द न करें. साथ ही बड़ी संख्या में बस व अन्य वाहनों को जिला प्रशासन ने चुनाव कार्य के लिए जब्त कर रखा है. वे इन वाहनों को 02 नवंबर से 08 नवंबर तक अस्थायी रूप से छोड़ें, ताकि आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर घर पहुंचने में लोगों को असुविधा न हो.

हर वादे को निभाने का ईमानदार प्रयास किया

सीएम ने लिखा है कि आपकी अबुआ सरकार ने तमाम झंझावतों के बावजूद अपने किए हर वादे को पूरी निष्ठा से निभाने का ईमानदार प्रयास किया है. पर मुझे मालूम है कि अभी बहुत से कार्य करने है, तेजी से करने हैं और समय पर करने हैं. इस कार्यकाल में सीखने को बहुत मिला है, जिससे हम सीख लेते हुए आगे और भी तेजी से कार्य करने के लिए कृतसंकल्पित हैं.

राजनीतिक सितारों के आगमन से गुलजार होगा झारखंड, मोदी, शाह, राहुल व खरगे का दौरा

रांची : झारखंड में सियासी पारा हाई है. सभी दलों ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. अब राजनीतिक सितारों के आगमन से झारखंड गुलजार होगा.

तीन नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड आएंगे. इस दौरान वे धालधूमगढ़, बरकट्ठा और सिमरिया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे. इसके ठीक अगले दिन चार नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आएंगे. पीएम मोदी गढ़वा और चाईबासा में जनसभा को संबोधित करेंगे.

दो दिनी दौरे पर आएंगे राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दो दिनी दौरे पर रांची आएंगे. आठ और नौ नवंबर को राहुल गांधी सिमडेगा, लोहरदगा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे. वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पांच नवंबर को रांची आएंगे और वे कांके विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे.

बॉलीवुड स्टार भाग्यश्री तीन को हजारीबाग में

बॉलीवुड स्टार भाग्यश्री तीन नवंबर को हजारीबाग आएंगी. वहां वे निर्दलीय उम्मीदवार अविनाश कुमार के पक्ष में रोड शो और जनसभा करेंगी. उनका रोड शो बरही में होगा. जदयू नेता ललन सिंह और संजय झा की सभा दो नवंबर को होगी. दोनों नेता तमाड़ में राजा पीटर और जमशेदपुर में सरयू राय के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे. नौ और 10 नवंबर को केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर भी दो-दो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे.

जेएमएम ने देवघर एसपी को हटाने पर की आपत्ति, चुनाव आयोग में की शिकायत

रांची : देवघर के एसपी अजीत पिटर डुंगडुंग को चुनाव आयोग ने पद से हटा दिया है. इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आपत्ति जताई है. झामुमो ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है. पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने 29 अक्टूबर को आकस्मिक ढंग से बिना कारण देवघर में पदस्थापित पुलिस अधिक्षक अजीत पिटर डुंगडुंग के स्थानांतरण का आदेश निकाला गया जो अत्यन्त ही हत्प्रभ करने वाला तथा दृष्टिकटु प्रतीत होता है. इसके पूर्व भी रांची में उपायुक्त पद पर पदस्थापित पदाधिकारी मंजुनाथ भजन्त्री को बिना कारण बताए स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया गया था. झामुमो ने चुनाव आयोग से कहा कि इन दो आदेशों का स्पष्ट उद्देश्य अनभिज्ञ है. राज्य में पदस्थापित आदिवासी, दलित पदाधिकारियों पर इस प्रकार का आदेश किसी विशेष राजनैतिक दल को चुनाव में प्रशासनिक सहयोग को अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षित करता है. राज्य में वर्त्तमान समय में छठे विधानसभा आम चुनाव सम्पन्न करने का निर्वाची प्रक्रिया जारी है. इस प्रकार के आदेश कहीं न कहीं प्रशासनिक तंत्र को अस्थिर करने का एक उद्देश्य प्रतीत होता है. हम इन कार्रवाईयों का विरोध करते हैं एवं संयुक्त रूप से आपके समक्ष अपनी नाराजगी तथा आपत्ती दर्ज करते हैं. इस पत्र में भाकपा (माले), राजद, कांग्रेस और झामुमो के नेताओं के दस्तखत हैं.

2025 में सरकारी कर्मियों को मिलेगी 38 दिन की छुट्टी

रांची : झारखंड सरकार के कर्मियों को 2025 में 38 दिन की छुट्टी मिलेगी. इस साल दो फरवरी को रविवार होने के कारण बसंत पंचमी के लिए अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया है. वार्षिक बैंक बंदी एक अप्रैल (मंगलवार) को होगी. गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), रामनवमी(छह अप्रैल) और मोहर्रम(छह जुलाई) इस साल रविवार को पड़ रहा है. इस कारण अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया है.

एनआइए एक्ट के तहत 22 दिन की छुट्टी

एनआइए एक्ट के तहत 22 दिन की छुट्टी घोषित की गई है. जिसमें महाशिवरात्रि (26 फरवरी), होलिका दहन(13 मार्च), होली(14 मार्च), ईद-उल फितर(31 मार्च), सरहुल(एक अप्रैल), महावीर जयंती (10 अप्रैल), अंबेडकर जयंती (14 अप्रैल), गुड फ्राइडे(18 अप्रैल), बुद्ध पूर्णिमा(12 मई), बकरीद(सात जून), स्वतंत्रता दिवस(15 अगस्त), जन्माष्टमी(16 अगस्त), करमा पूजा (तीन सितंबर),मिलाद उन नबी(पांच सितंबर), महाअष्टमी(30 सितंबर), महानवमी(एक अक्तूबर), महात्मा गांधी जयंती और विजयादशमी (दो अक्तूबर), दीपावली(20 अक्तूबर), छठ(27 और 28 अक्तूबर), गुरुनानक जयंता(पांच नवंबर) और क्रिसमस(25 दिसंबर) की छुट्टी है. राज्य सरकार ने कार्यपालक आदेश के तहत 16 अवकाश घोषित किया है. इसमें मकर संक्रांति(14 जनवरी),सुभाषचंद्र बोस जयंती (23 जनवरी), संत रविदास जयंती(12 फरवरी), सरहुल (दो अप्रैल), मजदूर दिवस(एक मई), रथ यात्रा(27 जून), हुल दिवस(30 जून), विश्व आदिवासी दिवस और रक्षा बंधन(नौ अगस्त), गणेश चतुर्थी(27 अगस्त), विश्वकर्मा पूजा(17 सितंबर), शारदीय कलश स्थापन(22 सितंबर), महासप्तमी (29 सितंबर), गोवर्द्धन पूजा(22 अक्तूबर), भैया दूज व चित्रगुप्त पूजा(23 अक्तूबर), राज्य स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा जयंती(15 नवंबर) की छुट्टी है.

बिहार के रहने वाले आरके सिंह ने रक्षा सचिव का पदभार संभाला

1989 बैच के हैं आईएएस अधिकारी

नई दिल्ली : मोदी सरकार ने अगस्त में राजेश कुमार सिंह (आरके सिंह) को नया रक्षा सचिव नियुक्त किया था। अरमानी गिरधर के रिटायर होने के बाद आज आरके सिंह ने नए रक्षा सचिव का कार्यभार संभाल लिया है।

दो साल तक संभालेंगे ये पद

आरके सिंह का दो सालों तक कार्यकाल होगा। उन्होंने साउथ ब्लॉक में कार्यभार संभाला हैं, जहां मंत्रालय स्थित है। बता दें कि बिहार के रहने वाले आरके सिंह केरल कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। रक्षा सचिव बनने से पहले वह रक्षा मंत्रालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (रक्षा सचिव नामित) का कार्यभार संभाल रहे थे। रक्षा मंत्रालय में रक्षा सचिव नामित की यह तैनाती उन्हें इसी वर्ष 20 अगस्त को मिली थी। एक नवंबर को कार्यभार संभालने से पहले राजेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शहीद नायकों को पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, 'देश, मातृभूमि की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे बहादुर सैनिकों का सदैव ऋणी रहेगा। हमारे जवानों की असाधारण बहादुरी और बलिदान भारत को एक सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए हमें शक्ति देते हैं व ये बलिदान हमारे प्रेरणा स्रोत हैं।'

इन पदों पर भी दे चुके हैं सेवा

राजेश कुमार सिंह 24 अप्रैल, 2023 से 20 अगस्त, 2024 तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव का पदभार संभाल रहे थे। इससे पहले वह पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्रालय में पशुपालन एवं डेयरी सचिव थे।

सिंह ने केंद्र सरकार में कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिसमें शहरी विकास मंत्रालय में निर्माण और शहरी परिवहन निदेशक; दिल्ली विकास प्राधिकरण में आयुक्त (भूमि); पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव; कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव और भारतीय खाद्य निगम में मुख्य सतर्कता अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने केरल सरकार में शहरी विकास सचिव और वित्त सचिव के रूप में भी प्रभार संभाला है।

इसरो ने लद्दाख के लेह में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के लॉन्च की घोषणा की

नई दिल्ली : भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने लद्दाख के लेह में पहले एनालॉग स्पेश मिशन की शुरुआत कर दी है। बताया गया है कि यह मिशन ह्यूमन स्पेसफ्लाइट सेंटर, एएकेए स्पेस स्टूडियो, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, आईआईटी बॉम्बे के सहयोगात्मक प्रयास और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के समर्थन से शुरू हुआ है। इस मिशन के तहत इसरो लेह में ऐसा स्थान तैयार करेगा, जो कि दूसरे ग्रह की स्थितियों जैसी होगी। इसके जरिए इसरो पृथ्वी से दूर जगहों पर बेस स्टेशन में आने वाली चुनौतियों से निपटने की तैयारियां परखेगा।

क्या होता है एनालॉग स्पेश मिशन?

इसरो ने लेह में जो पहला एनालॉग मिशन शुरू किया है, वह अपने आप में बड़ा प्रयोग है। दरअसल, अंतरिक्ष की भाषा में एनालॉग मिशन किसी असली मिशन की नकल की तरह है। इसके तहत वैज्ञानिक कुछ ऐसी जगह चुनते हैं, जो कि अंतरिक्ष या किसी आकाशीय पिंड के वातावरण और माहौल जैसा ही हो। इन जगहों को बाद में तय मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है, ताकि ऐसी ही जगहों पर अंतरिक्ष यात्रियों या अन्य आकाशीय पिंडों पर जाने वालो की ट्रेनिंग कराई जा सके।

गौरतलब है कि भारत आने वाले दिनों में कई अहम मिशन्स की तैयारी कर रहा है। इनमें सबसे अहम है गगनयान मिशन, जिसके तहत भारत पहली बार अंतरिक्ष में यात्री को भेजने वाला है।

ऐसे में लेह में इस तरह एनालॉग मिशन की तैयारी अहम है। आने वाले समय में अलग-अलग आकाशीय पिंडों पर मिशन के लिए भी यह एनालॉग मिशन अहम साबित होंगे, जिनके जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण मिलेगा।

एनालॉग मिशन के लिए लद्दाख ही क्यों?

लद्दाख अपनी भूवैज्ञानिक विशेषताओं के लिए अहम है। यहां की स्थितियां कुछ हद तक चांद और मंगल ग्रह की स्थितियों से मेल खाती हैं। यहां का ठंडा और शुष्क वातावरण, ऊंचाई वाला क्षेत्र अलग-अलग तकनीकों और लंबी अवधि के अंतरिक्ष के मिशनों के लिए तैयारियों को परखने के लिए उपयुक्त माना जाता है।

इन एनालॉग मिशन्स के दौरान क्या होगा?

इसरो की तैयारियों के जरिए इन एनालॉग मिशन्स के दौरान इनमें हिस्सा लेने वाले लोग दूसरे ग्रहों और आकाशीय पिंडों में रहने लायक स्थिति का अनुभव करेंगे। यहीं पर वह भविष्य के अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार किए जाएंगे। वैज्ञानिक ऐसी स्थितियों में रखने के बाद क्रू सदस्यों के प्रबंधन और मानसिक स्थिति पर नजर रखेंगे।

संक्षिप्त खबरें

डालसा ने तमाड़ में चलाया जागरूकता अभियान

रांची(ईएमएस)।झालसा के निर्देश पर रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) की टीम ने शुक्रवार को तमाड़ प्रखंड के डेरा गांव में डोर-टू-डोर जागरूकता अभियान चलाया। टीम में शामिल एलएडीसीएस चीफ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने बच्चों से संबंधित कानूनों जेजे एक्ट, पोक्सो एक्ट आदि की जानकारी दी।नशा उन्मूलन पर फोकस करते हुए उन्होंने लोगों से नशा से दूर रहने की अपील की। कहा कि नशा से धन की बर्बादी तो होती ही है, स्वास्थ पर भी बुरा असर पड़ता है।नशा के सेवन से घर-परिवार बर्बाद हो जाता है।उन्होंने बाल-विवाह की रोकथाम पर भी विस्तार से चर्चा की। ग्रामीणों को बाल विवाह अधिनियम के बारे में बताया।बाल श्रम पर भी प्रकाश डाला।इसके साथ ही दहेज प्रथा कानून के बारे में विस्तार से बताया।टीम में शामिल रुक्मिनी देवी व सोनामनी देवी ने सड़क दुर्घटना में मिलनेवाले मुआवजा के बारे में बताया। वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की भी जानकारी दी। पीएलवी अनिमा मल्लिक ने प्रधानमंत्री आवास योजना व श्रम कार्ड की जानकारी दी। पेंशन योजनाओं का लाभ लेने का तरीका भी समझाया।उन्होंने बताया कि इसके लिए आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची में दे सकते हैं।पीएलवी ने आगामी 14 दिसंबर को आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी।मौके पर बरोती देवी, सुनीता देवी, प्रद्युम्न प्रमाणिक, राजा वर्मा आदि मौजूद रहे।

लातेहार में कोल इंडिया का स्थापना दिवस मनाया गया

लातेहार(ईएमएस)।बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र में सीसीएल द्वारा संचालित मगध कोल परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में शुक्रवार को कोल इंडिया के स्थापना दिवस के अवसर पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके पश्चात परियोजना पदाधिकारी एस. सतनारायण सादला के द्वारा ध्वजारोहण कोल इंडिया के कॉरपोरेट गीत व राष्ट्रगान के साथ किया गया।मौके पर बोलते हुए परियोजना पदाधिकारी ने कहा कि मगध कोलियरी ने 80 मिलियन टन से अधिक के कोयले का उत्पादन कर लिया है।कहा कि आज विश्व में मगध कोलियरी की एक अलग पहचान स्थापित हुई है।इस अवसर पर कोल इंडिया कर्मियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं और देश की ऊर्जा आवश्यकता में कोयले के महत्व को याद दिलाते हुए अधिकारियों-कर्मचारियों से अपील की कि वे अपनी क्षमताओं को और बेहतर व कारगर तरीके से इस्तेमाल करते हुए देश के कोयला उत्पादन में कंपनी की शीर्षता बनाए रखें।उन्होंने कहा कि हम कोयला कामगार देश की ऊर्जा एवं शक्ति के मुख्य आधार स्तंभ हैं, और हमारे प्रयासों के फलस्वरूप आज हमारी कंपनी प्रगति की ओर अग्रसर है।

दिव्यांग ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप, एसपी से शिकायत

लातेहार(ईएमएस)।महुआडांड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले दिव्यांग संदीप कुमार ने महुआडांड़ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है।उसने आरोप लगाया कि महुआडांड़ थाना पुलिस दीपावली की सुबह घर में घुसकर अभद्र व्यवहार करते हुए उन्हें उनके भाई एवं उनके पिता को जबरन गाड़ी में लादकर कर थाना ले आई।दिव्यांग जब कारण जानना चाहा तो अभद्र तरीके से थाना प्रभारी अवनीश कुमार ने काफी गाली गलौज करते हुए यहां तक कह डाला कि तुम्हारी दिव्यांगता निकाल दूंगा। दिव्यांग के पिता ने शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करने की बात कही तो उन्हें भी भला बुरा कहते हुए कहा कि पुलिस से मुंह लगाते हो अंजाम बुरा होगा।एक तरफ थाना परिसर में कम्युनिटी पुलिसिंग और स्वागत कक्ष का निर्माण कराया गया है, तो दूसरी तरफ पुलिस का यह चेहरा देखकर लोग हतप्रभ हैं। दिव्यांग के बुजुर्ग पिता विश्वनाथ प्रसाद ने जब ऐसा नहीं करने की बात कही तो पुलिस ने उन्हें भी नहीं छोड़ा।
उनकी उम्र का लिहाज ना करते हुए अभद्रता के साथ पेश आया। मालूम हो संदीप पैरों से दिव्यांग हैं।बताया जाता है कि एक पुश्तैनी संपत्ति को लेकर परिवार में आपसी विवाद था। महुआडांड़ के एक सफेदपोश के कहने पर पुलिस ने मर्यादा को तख्ते पर रखते हुए यह अजीबोगरीब हरकत दीपावली के दिन किया। जिससे दिव्यांग के परिजनों में पुलिस के प्रति भारी रोष है।पीड़ित संदीप कुमार ने पुलिस अधीक्षक लातेहार को शुक्रवार को आवेदन देकर सारी स्थिति से अवगत कराया है और न्याय की गुहार लगायी है। मालूम हो थाना प्रभारी इसके पूर्व भी एक कस्टोडियल डेथ के मामले में चर्चित रहे हैं।

छठ महापर्व पर बसों में टिकट की मारामारी, एडवांस बुकिंग बंद

रांची(ईएमएस)।लोक आस्था का महापर्व छठ नजदीक है. बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में लोग रांची में रहकर नौकरी या रोजगार करते हैं। छठ पर ये लोग अपने गांव जाकर परिवार के साथ महापर्व मनाते हैं।इस बार छठ पर बिहार के सासाराम,बक्सर, आरा, छपरा, गोपालगंज, बेतिया समेत अन्य जिलों व बनारस जानेवाली बसों में अभी से टिकटों की मारामारी शुरू हो गई है। बहुत मुश्किल से टिकट मिल रहा है।ऊपर से विधानसभा चुनाव को लेकर बसों में एडवांस टिकट बुकिंग भी बंद कर दी गई है।इससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है। सफर के दिन ही टिकट दिया जा रहा है।राजधानी के कांटाटोली स्थित खादगढ़ा बस स्टैंड के एजेंट मो. पप्पू व मो. मोहसिन ने बताया कि पर्व-त्योहार पर बस से सफर करने वाले लोग कनफर्म सीट के लिए टिकटों की एडवांस बुकिंग कराते हैं। इससे बस के साथ-साथ एजेंटों को भी अच्छा मुनाफा हो जाता है।
लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले छठ महापर्व पड़ रहा है।चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने बस मालिकों को बस जमा करने के लिए पहले ही नोटिस थमा दिया है।ऐसे में टिकटों की एडवांस बुकिंग बंद कर दी गई है।सफर के दिन ही यात्रियों का टिक बस में बैठा कर भेजा जा रहा हैं।

स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत 02 व 03 नवंबर को पुलिस लाइन स्टेडियम में क्रिकेट मैच का होगा आयोजन,कुल 8 टीमें लेंगी हिस्सा

पलामू(ईएमएस)।जिले में आगामी विधानसभा निर्वाचन में अधिकाधिक मतदान करवाने व इस कार्य हेतु दूसरे मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से 02 व 03 नवंबर को स्थानीय पुलिस लाइन स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से दो दिवसीय क्रिकेट मैच का आयोजन कराया जाएगा।इस आयोजन में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी जिसमें एक-एक टीम जिला प्रशासन,पुलिस प्रशासन,स्वास्थ्य विभाग एवं पत्रकार एकादश की होगी वहीं अन्य चार टीम का निर्धारण जिला खेल कार्यालय के सहयोग से किया जाएगा।उपरोक्त कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने सभी से सहयोग की अपील की है।उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से पुलिस लाइन स्टेडियम से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया जायेगा।उन्होंने कहा कि इस आयोजन में भाग लेने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मी,पुलिस के सभी लोग,व मीडिया के प्रतिनिधिगण अपने-अपने स्तर से लोगों को दिनांक 13 नवंबर को मतदान करने को लेकर प्रेरित करें।

डीआईजी अनुप बिरथरे पहुंचे लोहरदगा, विधानसभा चुनाव को लेकर की बैठक, दिए निर्देश

लोहरदगा(ईएमएस)।लोहरदगा जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। विधानसभा चुनाव को लेकर रांची जोन के डीआईजी अनुप बिरथरे लोहरदगा पहुंचे। पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमां और जिले के थानेदारों के साथ बैठक कर लोहरदगा में विधानसभा चुनाव को शांति पूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक 2 करोड़ रुपए के माइनिंग और नगद की बरामदगी लोहरदगा पुलिस की ओर से की गई है।
जिसे लेकर डीआईजी अनुप बिरथरे ने लोहरदगा पुलिस की तारीफ कर कहा जिले में पुलिस विभाग द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। अब तक 2 करोड़ रुपए की बरामदगी की गई है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। लोहरदगा पुलिस विधानसभा चुनाव को शांति पूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर तत्पर है और लगातार करवाई की जायेगी।

झारखंड मुक्ति मोर्चा का आरोप, आदिवासी और दलित अफसर भाजपा के टारगेट

रांची : झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि दूसरे राज्यों के सीएम और एक केंद्रीय मंत्री झारखंड में ही दिवाली मनाते हैं. इससे बीजेपी के दिवालियापन का पता चलता है. उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर को अचानक से फरमान आया कि देवघर एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग का तबादला किया जाये, इससे पहले रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री का भी तबादला करने का फरमान आया. कहा कि ये सब क्यों हो रहा है, किस परिस्थिति में हो रहा है इसे समझना पड़ेगा,

नियम के अनुसार प्रत्याशी अधिकारियों की शिकायत कर सकते हैं

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद निशिकांत दुबे ने इन 2 अफसरों पर कुछ आरोप लगाये थे. तब चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी. उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार प्रत्याशी अधिकारियों की शिकायत कर सकते हैं. लेकिन इस चुनाव में निशिकांत प्रत्याशी नहीं हैं, फिर भी इन दोनों अधिकारियों का तबादला किया गया. कहा कि इससे एक बात साफ है कि आदिवासी और दलित अफसर भाजपा के टारगेट में हैं.

साजिश के तहत चुनाव को त्योहारों के बीच में कराया जा रहा है

वह शुक्रवार को हरमू स्थित कार्यालय में मीडिया कांफ्रेंस में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि भारत चुनाव आयोग के अधिकारी जब यहां आये थे तभी हमने कहा था कि 15 नवंबर तक हमारे यहां कई बड़े पर्व और त्योहार हैं, इसमें लोग अपने घर चले जाते हैं. अभी संथाल परगना में सोहराय चल रहा है, दिवाली और काली पूजी हुई है. चित्रगुप्त पूजा भी है, छठ महापर्व है, गुरु नानक जंयती है, बिरसा जंयती है. लेकिन साजिश के तहत इस चुनाव को त्योहारों के बीच में कराया जा रहा है, कहा, इसके पीछे पूरे प्रशासनिक तंत्र को पंगु बना देने की साजिश है.

छठ में जमशेदपुर और रांची से बड़ी संख्या में लोग बिहार चले जाते हैं

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य के अधिकारी व कर्मचारी भी इन त्योहारों में अपने घरों में रहते हैं. पर्व और त्योहार आस्था से जुड़े होते हैं. इस मौके पर छुट्टी लेते हैं, साथ ही, चुनाव कराने में बड़ी संख्या में वाहनों की जरूरत पड़ती है. कहा कि 8 नवंबर तक छठ है और पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को है. छठ में जमशेदपुर और रांची से बड़ी संख्या में लोग बिहार और दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं. उन्होंने कहा कि वाहनों की कमी होगी तो वे वापस कैसे आयेंगे. चुनाव की घोषणा के समय इन सभी तकनीकी चीजों को दरकिनार कर दिया गया, केवल इसलिए कि बीजेपी को लाभ पहुंचाया जा सके. उन्होंने कहा कि एक राज्य के सीएम और एक केंद्रीय मंत्री भी दिवाली यहीं बिताते हैं. इससे पता चलता है कि बीजेपी में कितना दिवालियापन है.

बीजेपी के लोग बौखला गये हैं

उन्होंने कहा कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने यह कह दिया कि हेमंत सोरेन ने गलत नामांकन फार्म भर दिया है. हेमंत ने, अपना निर्वाचन क्षेत्र जो 3 नंबर बरहेट है, उसकी जगह पर 64 हटिया लिख दिया. कहा कि 64 हटिया के मतदाता हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन हैं, यह हम सब जानते हैं, लेकिन बीजेपी के इस नेता की इतनी विद्वता है, यह हम नहीं जानते थे, बीजेपी के लोग इतने बौखला गये हैं, एक सीएम ट्वीट करते हैं कि हेमंत सोरेन ने अपनी आयु की भी गलत जानकारी दी है. कहा कि ऐसे बीजेपी नेता को पता ही नहीं है कि आयु की गिनती जन्म प्रमाण पत्र और मैट्रिक के प्रमाण पत्र से होती है, इस आधार पर हेमंत सोरेन के नामांकन को सही करार दिया गया है, लेकिन उनको इस बात की भी जानकारी नहीं है. इस पर भी हंगामा किया जा रहा है, मौके पर राजद, कांग्रेस व माले के नेता उपस्थित थे.

पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन ने हिमंता के खिलाफ दर्ज कराया केस

रांची : पूर्व विधायक सह हुसैनाबाद से बसपा उम्मीदवार कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने असम के सीएम सह झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्व सरमा के खिलाफ केस दर्ज कराया है. उन्होंने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में यह केस दर्ज कराया है. इस मामले में कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने कहा है कि बीजेपी उम्मीदवार कमलेश सिंह के नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए हिमंता ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है. उन्होंने कहा था कि भाजपा की सरकार बनते ही हुसैनाबाद का नाम बदल दिया जाएगा.

पूर्व मध्य रेल

ई–निविदा सूचना

खुली निविदा, बैच संख्या : 42/2024, दिनांक : 29.10.2024
आईआरईपीएस – www.ireps.gov.in के बेव पोर्टल "पार्टिसिपेशन इन थ्रू" सामग्री की आपूर्ति के लिए ई–निविदा सूचना। निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा बंद करने का समय 14:00 बजे है।
क्रम सं. : 01, निविदा सं. : 39235561A, सामग्री का संक्षिप्त विवरण : सप्लाई, इंस्टालेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कमीशनिंग ब्लाक प्रोविडिंग बाय एक्सल काउंटर (बीपीएसी) यूजिंग ब्लाक पैनल एंड यूएफ एसबीआई फॉर सिंगल लाइन ऑपरेशन एस पर आरडीएसओ स्पेक IRSS:105/2012 (Ver.0) विथ लेटेस्ट वर्शन एंड एएमडीटी। मात्रा : 06 Set, निविदा जारी करने की तिथि एवं समय : 28 अक्टूबर 2024 17:13 बजे। निविदा बंद होने की तिथि एवं समय : 21 नवम्बर 2024 14:00 बजे।
प्रतिभागियों को अपना प्रस्ताव समापन तिथि और समय से पहले आईआरईपीएस www.ireps.gov.in के वेब पोर्टल के माध्यम से केवल ऑन–लाइन जमा करना होगा। उपरोक्त पोर्टल पर निविदा सूचना में प्रेषिती के संबंध में अन्य विवरण और भंडार का विस्तृत विवरण दस्तावेज में उपलब्ध है।
व. मंडल सामग्री प्रबंधक/
पूमरे/धनबाद
पीआर/01428/डीएचएन/भंडार/टी/24–25/36

महापर्व छठ को लेकर नगर आयुक्त ने दिया डैम व तालाबों की सफाई का निर्देश

रांची(ईएमएस)। रांची नगर निगम के नगर आयुक्त ने महापर्व छठ को लेकर चिह्नित किये गये डैम व तालाबों की पूरी साफ-सफाई करने का निर्देश दिया है, ताकि छठव्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो।रांची नगर निगम की ओर से राजधानी में 72 डैम व तालाबों को चिह्नित किया गया है, जहां छठव्रतियों को पूरी सुविधा मिलेगी, छठ पर्व में छठव्रति डूबते व उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए नदी, डैम व तालाबों में धार्मिक परंपरा के आधार पर पहुंचते हैं। शहर के बीच स्थित रांची झील (बड़ा तालाब) जहां बड़ी संख्या में लोग छठ करते हैं, वहां का पानी हरा है और प्रदूषित नजर आया।अभी तक इसकी सफाई पूरी नहीं हुई है।पर्व से पूर्व इसकी सफाई जरूरी है, ताकि छठ व्रतियों को यहां असुविधा नहीं हो।चडरी तालाब में चारों ओर मूर्ति विसर्जन के अवशेष पड़े नजर आये, इसकी सफाई भी अभी पूरी नहीं हुई है।लोगों ने बताया कि यहां सीढ़ियों से थोड़ा आगे जाते ही पानी गहरा है।इसके लिये घेराव के साथ सूचना पट्ट लगाना भी जरूरी है, ताकि लोगों को सुविधा हो। इस ओर भी नगर निगम को ध्यान देने की जरूरत है।ट्रेकर स्टैंड तालाब की भी सफाई पूरी नहीं हुई है।प्रवेश द्वार पर ही कचरे का ढेर है।जिसे हटाना जरूरी है।महापर्व छठ के महज पांच दिन बचे हैं।नगर निगम को युद्ध स्तर पर डैम- तालाबों को स्वच्छ करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ताकि समय से पूर्व सारे तालाबों-डैमों की सफाई हो जाये और छठव्रतियों को इसका लाभ भी मिला।अरगोड़ा तालाब अपवाद नजर आया।यहां चारों ओर से स्व्च्छता व साफ-सफाई नजर आयी। यहां मूर्ति विसर्जन के लिए बने विसर्जन कुंड में ही लोग पूजन सामग्री डाल रहे थे। इस वजह से पूरे तालाब में सफाई नजर आयी।नगर निगम की ओर से लोगों से अपील की गयी है कि शहर की स्वच्छता में सहयोग दें। घर के कचरे को बाहर सड़क पर नहीं डालें।उसे कचरे के वाहन में ही दें। सड़क पर रखे डस्टबीन में ही कचरे को रखें।दुकान व ठेले वाले भी अपने कचरे डस्टबीन में डाले।तालाब में बने विसर्जन कुंड में ही पूजन सामग्री डालें।इस तरह हमारा शहर स्वच्छ व सुंदर बना रहेगा।

डालसा ने तमाड़ में चलाया जागरूकता अभियान

रांची : झालसा के निर्देश पर रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) की टीम ने शुक्रवार को तमाड़ प्रखंड के डेरा गांव में डोर-टू-डोर जागरूकता अभियान चलाया. टीम में शामिल एलएडीसीएस चीफ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने बच्चों से संबंधित कानूनों जेजे एक्ट, पोक्सो एक्ट आदि की जानकारी दी. नशा उन्मूलन पर फोकस करते हुए उन्होंने लोगों से नशा से दूर रहने की अपील की. कहा कि नशा से धन की बर्बादी तो होती ही है, स्वास्थ पर भी बुरा असर पड़ता है. नशा के सेवन से घर-परिवार बर्बाद हो जाता है. उन्होंने बाल-विवाह की रोकथाम पर भी विस्तार से चर्चा की. ग्रामीणों को बाल विवाह अधिनियम के बारे में बताया. बाल श्रम पर भी प्रकाश डाला. इसके साथ ही दहेज प्रथा कानून के बारे में विस्तार से बताया. टीम में शामिल रुक्मिनी देवी व सोनामनी देवी ने सड़क दुर्घटना में मिलनेवाले मुआवजा के बारे में बताया. वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की भी जानकारी दी. पीएलवी अनिमा मल्लिक ने प्रधानमंत्री आवास योजना व श्रम कार्ड की जानकारी दी. पेंशन योजनाओं का लाभ लेने का तरीका भी समझाया.

हनीट्रैप के जाल में फंसने से बचे मंत्री मिथिलेश ठाकुर

रांची : झारखंड की राजनीति में एक नया रंग देखने को मिल रहा है. चुनाव के ऐन मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर हनी ट्रैप के जाल में फंसाने की कोशिश की गई. खुद मंत्री मिथिलेश ठाकुर वीडियो जारी कर आरोप लगाया है, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है. उन्होंने इस मामले को लेकर थाने में भी शिकायत दर्ज कराई है. इस मामले में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि बुधवार को उनके पास एक कॉल आया था, कॉल रिसिव करते ही मोबाइल पर अश्लील वीडियो आने लगा. उन्होंने बताया कि तत्काल फोन काट कर नंबर ब्लॉक कर दिया.

झारखंड का चुनाव तय करेगा बांग्लादेशी घुसपैठिए राज करेंगे या खदेड़े जाएंगे : हिमंता

कोडरमा(ईएमएस)।असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर शुक्रवार को झारखंड की झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन सरकार पर एक बार फिर जुबानी हमला बोला।कोडरमा विधानसभा सीट के मरकच्चो में भाजपा प्रत्याशी डॉ. नीरा यादव के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कोई भी जिला नहीं है, जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद नहीं।ये लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक बन चुके हैं।चुनाव में घुसपैठियों का वोट शत-प्रतिशत इन्हीं पार्टियों को जाएगा।ऐसे में हिंदू मतदाता अगर एकजुट होकर घुसपैठियों के खिलाफ वोट नहीं करते तो उनका मनोबल और बढ़ेगा।उन्होंने कहा कि इस चुनाव में फैसला होना है कि घुसपैठिए झारखंड में बने रहेंगे या यहां से खदेड़े जाएंगे।हमारा वादा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही इन्हें कानून के रास्ते लात मारकर यहां से भगाया जाएगा।झारखंड अलग राज्य इसलिए नहीं बना था कि यह घुसपैठियों के हाथ में चला जाए।अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड इसलिए भी नहीं बनाया था कि यहां बालू के माफिया बनें, दलाल पैदा हों और आलमगीर आलम एवं इरफान अंसारी जैसे लोगों के घरों से करोड़ों रुपए बरामद हों।उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता से झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाया है।अगर सबसे ज्यादा झूठ बोलने के लिए देश में कोई डॉक्टरेट की डिग्री हो तो वह हेमंत सोरेन को मिलेगी।उन्होंने राज्य की बेटियों से वादा किया था कि शादी में उन्हें सरकार की ओर से सोने का सिक्का या 51 हजार रुपए दिए जाएंगे।क्या किसी को यह मिला? उन्होंने महिलाओं को हर साल 72 हजार रुपए देने का वादा किया था।साढ़े चार साल तक तो सोए रहे और जब जाने का वक्त आया तो मंईयां योजना के नाम पर एक हजार रुपए दे रहे हैं। मंईयां को एक हजार रुपए देने पर भाजपा की आपत्ति नहीं है, लेकिन सोरेन यह बताएं कि हमारे माता-पिता को मिलने वाली बुजुर्ग पेंशन क्यों बंद कर दिया?इससे पहले सरमा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन उन पर बाहरी होने का आरोप लगा रहे हैं और हमें यहां से भगाने की बात कह रहे हैं।असम से क्या हिमंता बिस्व सरमा झारखंड नहीं आ सकते, तो एक विशेष समुदाय के लोगों को ही यहां ग्रीन कार्ड है क्या?

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, बोकारो।

अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0 – 21/2024–25

1.विज्ञापन दाता का नाम एंव पदनाम	:–	कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, बोकारो।
2.परिमाण विपत्र की बिक्री की अंतिम तिथि एंव समय	:–	11/11/2024 को अपराह्न 1.00 बजे तक।
3.निविदा प्राप्ति की तिथि एंव समय	:–	12/11/2024 को अपराह्न 3.00 बजे तक।
4.निविदा खोलने की तिथि एंव समय	:–	12/11/2024 को अपराह्न 3.30 बजे तक।
5.परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान	:–	(1) कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, बोकारो के कार्यालय में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा। (2) अधीक्षण अभियन्ता, भवन अंचल हजारीबाग के कार्यालय में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा।
6. निविदा प्राप्ति एंव खोलने का स्थान	:–	(1) भवन प्रमण्डल, बोकारो। (2) अधीक्षण अभियन्ता, भवन अंचल,हजारीबाग।

7. कार्यो की विवरणी :–

कं0 सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	परिमाण विपत्र की राशि	अग्रधन की राशि	कार्य समाप्ति की अवधि
1	CONSTRUCTION OF COUNTING HALL ,STRONG ROOM, OUT SIDE BARRICADING, APPORACH ROAD AND ADDITIONAL WORK FOR VIDHAN SABHA ELECTION - 2024 AT BAZAR SAMITI, CHAS, BOKARO.	रू0 34,97,500.00	5000.00	70,000.00	22.11.2024 तक

नोटः– 1. नियम एवं शर्ते सूचना पट्/www.prdjharkhand.in पर देखा जा सकता हैं।
2. विगत तीन वर्शो के अन्दर का निर्वाचन कार्य का विभाग द्वारा निर्गत बज्रगृह एवं मतगणना कक्ष से संबंधित अनुभव/भुगतान प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करने पर ही निविदा विपत्र कय किया जा सकता है। अनुभव प्रमाण–पत्र देने वाले संवेदक को ही प्राथमिकता दी जायेगी, कार्य विधानसभा चुनाव से संबंधित है।
3. चुनाव संबंधी कार्य एवं अति विशिश्ट व्यक्तियों के प्रस्तावित आगमन की महत्ता एवं गुणवत्ता पूर्ण कराने हेतु अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, हजारीबाग के पत्रांक–943 दिनांक 23.11.2021 के अनुपालन में किया जायेगा।
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, बोकारो।
PR 339787 Building(24-25)D

कार्यालय, धनबाद नगर निगम, धनबाद।

अतिअल्पकालीन आमंत्रण सूचना संख्या – DMC/30/2024-25 Dated 01.11.2024

1.	विज्ञापन दाता का नाम	:-	नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम, धनबाद।
2.	परिमाण विपत्र की बिक्री की तिथि एवं समय	:-	दिनांक 02.11.2024 से 09.11.2024 तक 03:00 बजे अपराहन् तक (कार्यदिवस में)।
3.	निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	:-	दिनांक 11.11.2024 को 03:00 बजे अपराहन् तक (कार्यदिवस में)।
4.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:-	दिनांक 11.11.2024 को 03:30 बजे अपराहन् से (कार्यदिवस में)।
5.	परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान	:-	कार्यालय धनबाद नगर निगम, लूबी सर्कुलर रोड, माडा परिसर, धनबाद नगर निगम, धनबाद।
6.	निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान	:-	कार्यालय धनबाद नगर निगम, लूबी सर्कुलर रोड, माडा परिसर, धनबाद नगर निगम, धनबाद।
7.	कार्य विवरणी	:-	आसन्न विधान सभा चुनाव 2024 हेतु केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के चिन्हित ठहराव स्थलों पर पेयजलापूर्ति, AMF एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु।

क्रम सं0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन राशि (रूपये में)	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति का अवधि
1.	Construction of Temporary Bathroom and Toilet in Sindri College Sindri, Lions Public School Rohrabandh Sindri, Saraswati Vidya Mandir Sindri for Vidhan Sabha Election 2024 under Dhanbad Municipal Corporation, Dhanbad	220812.00	बी0ओ0क्यु का 2 %	1000.00	15 दिन
2.	Construction of Temporary Bathroom and Toilet in Shyama Prasad Mukherjee Inter College, Rajendra Balika Vidyalaya, Sindri, Vivekanand Vidyalaya Baniyahir, Jharia for Vidhan Sabha Election 2024 under Dhanbad Municipal Corporation, Dhanbad	201054.00	बी0ओ0क्यु का 2 %	1000.00	15 दिन
3.	Construction of Temporary Bathroom and Toilet in Kids Garden School, Chauthai Kulhi, Jharia, Gujrati Middle School Jharia, DAV Model High School, Digwadih 12 No., Degree College, Jamadoba for Vidhan Sabha Election 2024 under Dhanbad Municipal Corporation, Dhanbad	248054.00	बी0ओ0क्यु का 2 %	1000.00	15 दिन
4.	Construction of Temporary Bathroom and Toilet in Rajiv Gandhi Memorial Teacher Trg. School Digwadih No -12, DAV School Mohan Bazar for Vidhan Sabha Election 2024 under Dhanbad Municipal Corporation, Dhanbad	193065.00	बी0ओ0क्यु का 2 %	1000.00	15 दिन
5.	Construction of Temporary Bathroom and Toilet in Chasnalla Academy, Patherdih, Variya Buniyadi Vidyalaya, Jagjivan Nagar, Nehru Complex, Koyla Nagar, for Vidhan Sabha Election 2024 under Dhanbad Municipal Corporation, Dhanbad for Vidhan Sabha Election 2024 under Dhanbad Municipal Corporation, Dhanbad	181506.00	बी0ओ0क्यु का 2 %	1000.00	15 दिन
6.	Construction of Temporary Bathroom and Toilet in Nagar Nigam Vivah Bhawan, Bhuda, Guru Nanak Mahavidyalaya, Rani Road, Bhuda, Abhay Sundri Girls School Hirapur, Putki High School, Putki, Sijua Stadium, Moodidih, Khalsa School, Bank More, for Vidhan Sabha Election 2024 under Dhanbad Municipal Corporation, Dhanbad for Vidhan Sabha Election 2024 under Dhanbad Municipal Corporation, Dhanbad	198912.00	बी0ओ0क्यु का 2 %	1000.00	15 दिन
7.	Construction of Temporary Bathroom and Toilet in Zila School Babudih, Indor Stadium Kala Bhawan, Bablu Dharamshala Hirapur for Vidhan Sabha Election 2024 under Dhanbad Municipal Corporation, Dhanbad for Vidhan Sabha Election 2024 under Dhanbad Municipal Corporation, Dhanbad	220812.00	बी0ओ0क्यु का 2 %	1000.00	15 दिन
8.	Construction of Temporary Bathroom and Toilet in Sijua Stadium, Modidih, Khalsa School Bankmore for Vidhan Sabha Election 2024 under Dhanbad Municipal Corporation, Dhanbad	210471.00	बी0ओ0क्यु का 2 %	1000.00	15 दिन
9.	Supply of Water Tank and Miscellaneous items at Sindri and Jharia different selected places under Dhanbad Municipal Corporation, Dhanbad	232331.00	बी0ओ0क्यु का 2 %	1000.00	07 दिन
10	Supply of Water Tank and Miscellaneous items at Dhanbad and Jharia different selected places under Dhanbad Municipal Corporation, Dhanbad	232331.00	बी0ओ0क्यु का 2 %	1000.00	07 दिन
11.	Supply of Water T ank and Miscellaneous items at Dhanbad different selected places under Dhanbad Municipal Corporation, Dhanbad	232331.00	बी0ओ0क्यु का 2 %	1000.00	07 दिन
12.	Supply of Water Tank and Miscellaneous items at Dhanbad and Katras different selected places under Dhanbad Municipal Corporation, Dhanbad	126726.00	बी0ओ0क्यु का 2 %	1000.00	07 दिन

निविदा की शर्ते एवं विस्तृत जानकारी हेतु अभियंत्रण शाखा, कार्यालय धनबाद नगर निगम, धनबाद, लुबी सर्कुलर रोड, माडा परिसर में सम्पर्क करें।
NOTE:- (i) Estimated Cost / Quantity May Vary
(ii) Municipal Commissioner, Dhanbad reserves the right to reject any or all the tender(s) received without assigning any reasons thereof.
ह0/–
कार्यपालक अभियंता,
धनबाद नगर निगम, धनबाद।
PR 339779 (Urban Development) 24-25 (D)

संक्षिप्त खबरें

कुमकुम देवी ने बरकट्ठा व चलकुशा प्रखंड में चलाया जनसंपर्क अभियान

बरकट्ठा(हज़ारीबाग)। लोक हित अधिकार पार्टी की उम्मीदवार कुमकुम देवी ने बरकट्ठा व चलकुशा प्रखंड क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी कुमकुम देवी ने ग्राम मानगो, सुदन, खारी, चौबे, खरगु, बेड़ोकला जमुआ में लोगों से मिलकर अपने लिए समर्थन मांगीं। इस दौरान उन्होंने लोगों से चुनाव चिन्ह सेब छाप पर अपना कीमती वोट देकर अपने लिए आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर कहा कि मैं पिछले 15 वर्षों से आप लोगों की निःस्वार्थ भाव से हर सुखदुःख में साथ खड़ी थीं।आपका आशीर्वाद मिला तो आप लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करुंगी। क्षेत्र भ्रमण में साहू समाज के नेता देवीलाल साव, बैजनाथ कुमार, राजकुमार साव, चंदन कुमार, राजेश प्रसाद, ज्ञानेंद्र पाण्डेय, पंकज कुमार, किशोर साव, अवधेश चौधरी, महावीर प्रसाद, रोहित पंडित, राहुल पंडित समेत अन्य कई लोग शामिल रहे ।

झारखंड में फिर बनेगी इंडी गठबंधन की सरकार : मल्लू

बोकारो । तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमाक मल्लू ने भरोसा जताया है कि राज्य विधानसभा के आसन्न चुनाव में फिर से इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी और सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन फिर से राज्य की सत्ता पर काबिज होंगे । श्री मल्लू ने यह बात यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही । बोकारो से कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह के समर्थन में प्रचार के लिए बोकारो आए तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा चाहे कोई भी हथकडा अपना ले मगर वह राज्य की सत्ता पर काबिज नही हो पायेगी । उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ता सीन हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य के दलितों पिछड़ों और आदिवासियों के लिए जितना काम किया है । ऐसा पूर्व के किसी भी सरकार के कार्यकाल में नही हुआ । राज्य की आधी आबादी महिलाओं के हक में किये जाने वाले योगदान से भी पूरे सूबे में हेमंत सरकार की विश्वसनीयता बढ़ी है और लोग फिर से राज्य में महागठवंधन की सरकार चाह रहे हैं ।
उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में हर हाल में महागठवंधन की सरकार बनेगी और हम फिर से सत्ता में वापस आएंगे । एक सवाल के जबाब में उन्होंने बोकारो सीट से कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह की जीत का भी दावा किया और कहा कि इस बार बोकारो सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत तय है ।

बोकारो जिले के चारों विधानसभा सीटों पर, स्क्रूटनी के बाद अब कुल 51 प्रत्याशी चुनाव में आजमाएंगे अपनी किस्मत

बोकारो । झारखंड विधान सभा के आसन्न चुनाव में बोकारो जिले के चारों विधानसभा सीटों पर जिन 76 उम्मीदवारों ने इन सीटों से अपनी उम्मीदवारी का परचा दाखिल किया था । उसमें से कुल 25 उम्मीदवारों का परचा कल स्क्रूटनी के बाद रद्द कर दिया गया । जिसके बाद जिले के चारों विधानसभा सीटों से चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों की संख्या अब 51 रह गयी है । इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक जिले के निर्वाची पदाधिकारी ने कल सभी उम्मीदवारों को बुलाकर उन्हें इस बात की जानकारी दी । उम्मीदवारी से चुके प्रत्याशियों ने इस बारे में पूछे जाने पर बताया कि कई लोगों की उम्मीदवारी छोटी छोटी त्रुटियाँ की वजह से रद्द कर दी गयी । कुछ लोगों ने बड़बोलेपन में इसे साजिश करार दिया । जबकि कई लोगों ने इसे अपनी भूल मानते हुए प्रशासनिक फैसले को सही बताया बताया जा रहा है कि स्क्रूटनी के बाद बाकी बचे प्रत्याशियों ने जहां चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है । वहीं अपनी अपनी जीत के दावे के साथ क्षेत्र भ्रमण में भी जुट गये हैं ।

बोकारो में धूमधाम से मना काली पूजा और दीपावली का त्यौहार

बोकारो । प्रकास पर्व दीपावली एवं काली पूजा का आयोजन कल यहां हषोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ । शहर के को ऑपरेटिव कौलनी मोड़ सहित सेक्टर 2 एवं सेक्टर 8 स्थित काली बाड़ी में परंपरागत तरीके से बंगाली समाज के लोगों ने मां काली की पूजा अर्चना की । वही शहरवासियों ने दीपावली के मौके पर अपने अपने घरों में गणेश लक्ष्मी की पूजा के बाद जमकर आतिशबाजी का लुत्फ उठाया । इस मौके पर शहर भर में सार्वजनिक और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों सहित लोगों ने विद्युत के रंगीन वल्वो से अपने घरों की सजावट की थी । चारों तरफ दीपावली की रौनक ने लोगों मे गजब का उत्साह भर दिया था । लोग सुबह से ही एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं देते और मिठाईयाँ खिलाते नजर आए । दूसरी ओर शहर भर के दुकानों में भी दीपावली को लेकर भारी भीड़ दिखी । खासकर मिठाई और दीपक की दुकानों पर लोगों का भारी हुजूम दिखा ।

सैंकड़ों लोगों ने कहा मेरा जिला परिषद जिसको कहेगा हम लोग वोट उसी को देंगे

रांचीः मांडर विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव के सैंकड़ों लोगों ने कहा कि मेरा जिला परिषद जिसको कहेगा हम लोग वोट उसी को देंगे। क्योंकि मेरा दुख सुख में यह व्यक्ति खड़ा रहता है। ज्ञात हो कि चान्हो पश्चिमी जिला परिषद आदिल अज़ीम अपने सेवा कार्य के लिए अपने और आस पास के क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। कई गांव के लोगों ने कहा कि आदिल अज़ीम हमारे दुःख सुख में खड़ा रहता है। इस विधानसभा चुनाव में आदिल अज़ीम जिसको भी कहेगा हमलोग वोट उसी को देंगे। इस पर जिला परिषद आदिल अज़ीम ने कहा कि आप सब ने जो प्यार भरोसा दिखाया है उसके लिए सभी का शुक्रिया। हम मांडर विधानसभा क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों से बारी बारी मिलेंगे। जो मेरा क्षेत्र का विकास, रोड, नाली, सड़क, बिजली, पानी, आवास आदि योजना के साथ मान सम्मान देगा उस उम्मीदवार का स्पोर्ट का एलान किया जाएगा। जिस पर सभी लोगों ने हाथ उठा कर अपनी सहमति जताई।

सभी कोषांगों का समीक्षा करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष व भयमुक्त निर्वाचन को लेकर अधिकारियों को कई बिंदुओं पर निर्देश

गिरिडीह : झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के निमित्त आज समाहरणालय सभागार कक्ष में सभी सामान्य प्रेक्षक/पुलिस प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षक महोदय के द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के निमित्त सभी कोषांग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, सभी वरीय पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी/सहयोगी पदाधिकारी, सभी कोषांग समेत निर्वाचन के अधिकारी/कर्मी उपस्थित थे। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, श्री नमन प्रियेश लकड़ा के द्वारा सभी सामान्य/व्यय/पुलिस प्रेक्षक महोदय को पीपीटी के माध्यम से विधानसभा चुनाव 2024 के निमित्त सभी कोषांग द्वारा की गई तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान सामान्य प्रेक्षक महोदय के द्वारा सभी विधानसभावार बारी-बारी से समीक्षा की गई तथा सभी संबंधित अधिकारियों को सुनियोजित तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया गया। वहीं सभी सामान्य प्रेक्षक के द्वारा सभी कोषांगों का समीक्षा करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष व भयमुक्त निर्वाचन को लेकर अधिकारियो को कई बिंदुओं पर निर्देश दिया गया। इस दौरान सभी कोषांग को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान निर्वाचन कार्य के लिए उपलब्ध इवीएम व वीवीपैट की संख्या, सी- विजिल, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम, एफएसटी, वीएसटी व वीवीटी की संख्या की जानकारी प्राप्त की गई तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की संख्या तथा जेंडर रेशियो की जानकारी प्राप्त की। साथ ही वोटर इनफॉर्मेशन स्लिप और मतदाता मार्गदर्शिका का वितरण जल्द से जल्द सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। इस दौरान सभी संबंधित को निर्देशित किया गया कि अपने बीएलओ को निर्वाचन प्रक्रिया की पूरी जानकारी से अवगत कराएं। इसके साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर एएमएफ की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित हो, ताकि मतदाताओं व मतदान कर्मियों को कठिनाई न हो। इस दौरान मतदान के दिन व्हीलचेयर की उपलब्धता, प्रशिक्षण कोषांग द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारी, वाहन कोषांग के तहत वाहनों की पर्याप्त उपलब्धता, सामग्री व आइटी कोषांग द्वारा की गयी तैयारियों की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त किया। प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सोशल मीडिया में फेक न्यूज व पेड न्यूज का सतत अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें। एमसीएमसी कोषांग के तहत किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी प्राप्त किया तथा व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग के नोडल अधिकारी को निर्देश किया कि निर्वाचन से संबंधित सभी तरह के व्यय पर नजर रखें। विधानसभा चुनाव के अंतर्गत सभी क्रिटिकल बूथों, क्लस्टर, पोलिंग स्टेशन आदि का भ्रमण कर वहां आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को बहाल करेंगे। इसके साथ ही सभी मतदान केंद्रों का भ्रमण कर वहां सारी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही वहां शौचालय, पेयजल की उपलब्धता, बिजली की व्यवस्था, मोबाइल चार्जिंग आदि व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखेंगे। सभी संबंधित अधिकारियों को कम्युनिकेशन को बेहतर रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही कंट्रोल रूम को अलर्ट मोड में रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही बताया गया कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में मशीनरी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए सभी मशीनरी को सुव्यवस्थित रखेंगे तथा उसके लिए एक अलग से टीम गठित कर उसके कार्य को दुरुस्त करेंगें। आईटी सेल को सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया। साथ ही मास्टर ट्रेनरों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली गई तथा सारी व्यवस्थाओं को स-समय दुरुस्त करेंगे। स्वीप कोषांग की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कि जिन क्षेत्रों में पिछले चुनाव में कम मतदान हुआ है, वहां मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया। ताकि मतदाताओं को जागरूक करते हुए चुनाव में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कराई जा सकें।

निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए

गिरिडीह :- विधानसभा चुनाव 2024 के निमित्त आज 31 गांडेय विधानसभा क्षेत्र के समान्य प्रेक्षक, श्री वी षणमुगम के द्वारा MCMC, मीडिया कोषांग आदि का निरीक्षण कर वस्तुस्थिति का जायजा लिया तथा सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने MCMC/मीडिया कोषांग में प्रतिनियुक्त सभी अधिकारियों/कर्मियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की क्रमवार जानकारी प्राप्त की गई तथा उनके दायित्व के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके अलावा MCMC कोषांग में प्रतिनियुक्त कर्मियों द्वारा किए जा रहे पेड न्यूज के अनुश्रवण का रोस्टरवार पंजी की जांच की गई तथा कई दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान मीडिया कोषांग का निरीक्षण कर सभी पंजी की जांच की गई।

जुनैद अनवर हजारों समर्थकों के साथ झामुमो में हुए शामिल

रांची : झारखंड के कद्दावर नेता एवं समाजसेवी जुनैद अनवर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन के समक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) में शामिल हुए। श्री अनवर के साथ विभिन्न धर्मों और समुदायों से जुड़े कई पार्टी के नेता और हजारों समर्थक भी इस अवसर पर उनकी इस नई राजनीतिक यात्रा का हिस्सा बनें। जुनैद अनवर के साथ मुख्य रूप से भाजपा अनुसूचित जाती मोर्चा के दो बार लातेहार जिला अध्यक्ष रह चुके कामेश्वर भोगता,भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के लातेहार जिला सदस्य बीरेंद्र पासवान, बरियातू प्रखण्ड भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री उषा देवी, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के चंदवा प्रखण्ड अध्यक्ष साजिद खान, मेन रोड रांची स्थित आर अली मॉल के मालिक, बड़े व्यवसाई तथा वरिष्ट समाजसेवी साद हन्नान जो स्वर्गीय शेख रमजान अली (आजादी से पूर्व छोटानागपुर डिवीज़न के विधायक) के पोते, तथा स्वर्गीय ज़हूर अली (1962 में मांडर विधानसभा क्षेत्र से विधायक तथा बिहार सरकार में मंत्री थे) के भतीजे हैं। लातेहार के अहद खान, चंदवा के जेवीएम नेता मो मोजममिल, रांची बेड़ों के साबिर मीर, रांची के वरिष्ट समाजसेवी वकिरुल रहमान (हाजी नवाब, रांची के वरिष्ट समाजसेवी खालिद सैफुलाह झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) में शामिल हुए। श्री अनवर ने कहा झारखंड में जेएमएम ही एकमात्र पार्टी है जो सभी समुदायों को साथ लेकर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार झारखंड के विकास के लिए तत्पर रहे है। विपरीत परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य को बेहतर नेतृत्व दिया है। और मैं मानता हूँ कि जेएमएम के माध्यम से ही झारखंड में बदलाव लाया जा सकता है। जुनैद अनवर की छवि एक ईमानदार, साफ-सुथरे और समाजसेवा से जुड़ा नेता के रूप में है। बालूमाथ, बारियातु, लातेहार, रांची, सहित आसपास के क्षेत्रों में उनकी लोकप्रियता देखते ही बनती है।

कांग्रेस प्रत्याशी अजय नाथ ने रातु और डोरंडा में कार्यालय का उद्घाटन किया

रांचीः कांग्रेस प्रत्याशी अजय नाथ शाहदेव ने रातु प्रखंड और डोरंडा प्रखंड में चुनाव कार्यालय का फीता काट कर उद्घाटन किया।इस अवसर पर काफी संख्या में कांग्रेस,झामुमो व राजद के नेता और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। श्री शाहदेव ने अपने संबोधन में कहा कि हटिया विधानसभा क्षेत्र का एक एक कार्यकर्ता खुद को प्रत्याशी समझे और जनता के बीच जाकर हमारी उपलब्धियां और प्रथमिकताएं बताकर उन्हें कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करें।श्री शाहदेव ने कहा कि इस बार जनता हटिया विधानसभा में बदलाव के मूड में है और हमें सफलता जरूर मिलेगी। कार्यालय उद्घाटन में उद्घाटन में मुख्य रूप से कमरुल हक, पृथ्वी शाहदेव, लक्ष्मी नारायण भगत,हाजी मंसूर,अमर उरांव,कुशल उरांव,बेलाल अंसारी, महावीर विश्वकर्मा,प्रदीप किस्पोट्टा, राहुल दयाल, रमेश शाहदेव,अमन साहू,कमल कुमार,संजय साहू, सिंदबाद खान, अतुल राज, सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहें।

भाजपा प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद ने चलाया जनसंपर्क अभियान

हज़ारीबाग।हजारीबाग सदर से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद ने प्रखंड कटकमसांडी के दस पंचायतों के अन्तर्गत 21गांवों का तुफानी जनसंपर्क के तहत आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया । सासंद मनीष जयसवाल ने अशीर्वाद यात्रा मे कहा कि मोदी जी का गारंटी है, विकास निरंतर चलते रहेगा, दोनो भाई मिलकर क्षेत्र को सवारेंगे । उन्होनें कहा कि भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद ने जनसेवा और क्षेत्र के विकास से संबंधित कार्यों में निरंतर जुटे हुए रहते हैं। इस बार फिर से हजारीबाग में कमल खिलानें का अपील किया।प्रदीप प्रसाद ने कहा कि क्षेत्र का विकास, जनसेवा के साथ आधी आबादी के सम्मान और उत्थान के लिए हैं सतत प्रयत्नशील है।हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद ने कटकमसांडी प्रखंड क्षेत्र के दस पंचायत के अंतर्गत 21 गांवों का सघन दौरा किया । प्रखंड क्षेत्र के पेलावल, मायापूर, हरिना, पबरा, रोमी, छडवा, हेदलाग, कंचनपूर, धरहरा, खुटरा, बरतुआ, गोविन्दपूर, असधीर, लूपूंग, सुलमी, बेलरगड्डा, नवादा, कंसार, गोदखर, बलियन्द और कृष्णानगर सहित दो दर्जन से अधिक क्षेत्र के अंतर्गत लोगों की समस्याओं से भी रूबरू हुए और हर संभव सूख दुख में साथ देने का भरोसा दिए। आज का आशीर्वाद यात्रा के दौरान भाजपा प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद ने कहा कि इस बार आपार समर्थन मिल रहा है। लोग इस बार सरकार बदलने के लिए लालियत है।ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक यादव,कटकमसांडी प्रखंड के पूर्व विधायक प्रतिनिधि किशीरी राणा, जिला मंत्री रीतलाल यादव कटकमसांडी पश्चिमी भाजपा मंडल अध्यक्ष कैलाश यादव,पूर्वी मंडल अध्यक्ष प्रकाश कुशवाहा, पूर्व सांसद प्रतिनिधि मुनेश ठाकुर, भाजपा वरिष्ठ नेता कमल गोप, जिला परिषद सदस्य मंजू नंदनी, प्रमुख संगीता देवी, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि प्रमोद यादव, ओबीसी मोर्चा कार्यसमिति अध्यक्ष रामचंद्र यादव,पूर्व मुखिया दिलीप कुमार रवि,कंचनपुर मुखिया प्रतिनिधि अशोक राणा, निर्मल साव,रामचंद्र साव,बिराज साव,कपिल दांगी, प्रकाश यादव, विजय दांगी, सहदेव यादव,बाझा पंचायत के पूर्व मुखिया लीलो सिंह भोक्ता, शाहपुर पंचायत के पूर्व मुखिया प्रेमचंद प्रसाद, महामंत्री अरविंद यादव,पूर्व मुखिया तुलेश्वर यादव,महामंत्री बिरेंद्र कुमार बीरू,मुखिया प्रतिनिधि रामकुमार मेहता,पूर्व पूर्व मंडल अध्यक्ष जीवन मेहता,मुखिया गदोखर मुखिया नारायण साव,अंकज ठाकुर, राजेश यादव, पवन गिरी, मुखिया पिंकी राणा, भोला राणा, मनीष ठाकुर, विनोद सिहं, महावीर सिहं, सुमन राय, दीपक मेहता, विस्तारक प्रदीप मेहता, सहित गणमान्य लोग मौजूद रहें ।

बीएसएल में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन

बोकारो : सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर पूरे देश में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाई जाती है. इस मौके पर बीएसएल द्वारा राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन किया गया. राष्ट्रीय एकता दौड़ के प्रारम्भ में बीएसएल के निदेशक प्रभारी श्री बीरेंद्र कुमार तिवारी ने उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई. तत्पश्चात गाँधी चौक से इस्पात भवन तक राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन किया गया जिसे बीएसएल के निदेशक प्रभारी बीरेंद्र कुमार तिवारी ने फ्लैग-ऑफ किया. सतर्कता जागरूकता सप्ताह की श्रृंखला में राष्ट्रीय एकता दौड़ में बोकारो इस्पात नगर के स्कूल के बच्चे, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा बीएसएल सतर्कता विभाग की टीम ने मुख्य महाप्रबंधक (सतर्कता) एवं एसीवीओ श्री ज्ञानेश झा के नेतृत्व में भाग लिया.

बी एस एल के सतर्कता विभाग के द्वारा अधिकारियों तथा केंद्रीय ओद्योगिक सुरक्षा बल के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम

बोकारो : सतर्कता विभाग के तीन माह के सतर्कता जागरूकता अभियान -2024 के अन्तर्गत आज दिनाँक 01 नवम्बर को बी एस एल के अधिकारियों तथा केंद्रीय ओद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में आयोजित किया गया जिसमे कुल 23 प्रशिक्षणार्थी शामिल थे. कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थीयों के बीच संगठन की प्रणाली एवं प्रक्रिया, आचार एवं नीति, शासन, आचरण नियम, साइबर सुरक्षा, क्रय इत्यादि के विषय पर जागरूकता का प्रसार करना था. इस इंटरैक्टिव कार्यक्रम में संकाय सदस्यों ने संबंधित विषयों पर प्रतिभागियों के साथ ज्ञान तथा जानकारी को साझा किया. कार्यक्रम का सञ्चालन श्री अमित आनंद सहायक महाप्रबंधक (ज्ञानार्जन एवं विकास) के द्वारा किया गया.

बोकारो में पटाखों की दुकानों में लगी भीषण आग , 50 से अधिक दुकानें जलकर खाक, लाखों की क्षति का अनुमान

चार दो पहिया भी चढ़ी आग की भेंट, जन प्रतिनिधियों ने की मुआवजे की मांग

संजय श्रीवास्तव

बोकारो । गुरूवार को जब शहर वासी प्रकाश पर्व दीपावली मनाने की तैयारियों में जुटे थे , ठीक उसी समय अपराह्न तीन बजे के करीब बोकारो को उपशहर चास से जोड़ने वाले गरगा पुल के समीप अस्थायी तौर पर लगाये गये पटाखे के लगभग 50 से अधिक दुकानों में अचानक आग लगी के घटना की खबर आयी । घटना की सूचना के बाद शहर भर में अफरा तफरी का माहौल बन गया । अच्छी बात यह रही कि बोकारो स्टील संयंत्र के फायर फाइटिंग की चार गाड़ियो के मौके पर पहुंचने और कड़ी मशक्कत के बाद जन की तो हानि नहीं हुयी मगर धन की जबर्दस्त हानि की बात कही जा रही है । आगलगी की इस घटना में चार दो पहिया वाहनों के भी आग की भेंट चढ़ जाने की बात कही जा रही है । घटना की सूचना के फौरन बाद जहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया ।
वहीं बोकारो विधान सभा सीट से चुनावी रण में उतरे भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भी मौके पर पहुंच कर प्रभावित दुकान दारों के लिए जिला प्रशासन से समुचित मुआवजे की मांग की । एक अनुमान के मुताबिक आगलगी की इस घटना में दो करोड़ के लगभग की क्षति होने की बात कही जा रही है ।
घटना को लेकर वहां के दुकानदारों ने बताया कि वहां चास के अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कुल 66 लोगों को वहां पटाखे की दुकान अस्थायी तौर पर लगाने का लाइसेंस दिया था । इसमें क्रमवार तरीके से लगाई गयी दुकानों में से स्टॉल संख्या 4 के पीछे से आग की चिंगारी निकली जिसने देखते ही देखते लगभग दुकानों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया । इससे वहां तत्काल अफरा तफरी का माहौल बन गया । कई दुकान दार अपने दुकानों से पटाखे समेट कर उसे बचाने में लग गये । इसी बीच किसी ने बोकारो फायर सर्विस को फोन किया । जिसके बाद दमकल की चार गाड़ियों ने तत्क्षण मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया । मगर तबतक वहां की अधिकांश दुकानें जल चुकी थी । घटना की सूचना के बाद वहां तत्काल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे और आगलगी की घटना से वहां मची अफरा तफरी को शांत किया ।
इसी बीच घटना की सूचना के बाद वहां बोकारो विधान सभा के चुनावी रण में उतरे भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी भी पहुंचे और आगलगी की इस घटना पर प्रभावित दुकान दारों के प्रति सहानुभूति जताते हुए प्रशासन से समुचित मुआवजे की मांग की । नेताओं ने कहा कि यहां पिछले 15 वर्षों से अस्थायी तौर पर पटाखे की दुकान अस्थायी तौर पर लगायी जा रही है । प्रशासनिक अधिकारी दुकानदारों को इसकी अनुमति भी देते हैं । इसलिए ऐसी घटना के बाद प्रशासन को फौरी तौर पर प्रभावित सभी दुकान दारों को चिन्हित कर उन्हें समुचित मुआवजा दिया जाना चाहिए ।
फिलवक्त खबर लिखे जाने तक यह ज्ञात नही हो पाया है कि इस घटना में कितने की क्षति हुई है । प्रशासनिक अधिकारी इसके आंकलन में जुट गये हैं । जिसके बाद ही किसी प्रकार की कार्यवाई की बात सामने आएगी
दूसरी ओर आगलगी की ऐसी ही एक घटना शहर के सेक्टर 9 ए रोड इलाके से भी सामने आयी है । जहां आतिशबाजी के दौरान कही से आए रॉकेट से निकली चिंगारी की वजह से एक घर का लगभग सारा सामान जल कर खाक हो गया । आगलगी की इस घटना की सूचना तत्क्षण फायर ब्रिगेड को दी गयी । दमकल कर्मी यहां भी तुरंत पहुंचे और आग पर काबू पाया ।

सांसद ने अपने परिवार और समर्थकों के साथ मनायी दीपावली

हज़ारीबाग।भारतीय सांस्कृतिक और प्रकाश व खुशियों के महापर्व "दीपावली" के अवसर पर हजारीबाग सदर लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने गुरुवार को अपने आवास में पूरे परिवार और हितैशियों के साथ दीवाली की खुशियां मनाया। सांसद आवास में सपरिवार सांसद मनीष जायसवाल ने फूलों से सजी आकर्षक रंगोली के बीच दीप जलाकर खुशियों के इन पल को यादगार बनाते हुए क्षेत्र की सुख, शांति और समृद्धि की मंगलकामना माता लक्ष्मी से किया। दिवाली की सुबह से देर शाम तक को अपने परिवार और हितैषियों के साथ जमकर खुशी मनाए। इस दौरान सांसद मनीष जायसवाल ने क्षेत्र के लोगों को विभिन्न माध्यमों से दीवाली की शुभकामनाएं भी दी ।मौके पर सांसद मनीष जायसवाल के पिता पूर्व जिप अध्यक्ष ब्रजकिशोर जायसवाल, माता विद्या जायसवाल, पत्नी निशा जायसवाल, भाई प्रशांत जायसवाल, निशांत जायसवाल, भाई की पत्नी ट्विंकल जायसवाल, प्रियंका जायसवाल, पुत्र करण जायसवाल, पुत्रवधु अवंतिका जायसवाल, भतीज ऋषव, आरव और राहुल जायसवाल सहित सांसद सेवा कार्यालय कर्मी और सांसद आवास कर्मीगण मौजूद रहें ।

संक्षिप्त ख़बरें

दीपावली पर नीतीश सरकार ने वाहन मालिकों को दिया तोहफा, वाहनों के शुल्क में कटौती

पटना,(ईएमएस)। बिहार में नीतीश सरकार ने गाड़ी मालिकों को एक बड़ी राहत देकर वाहनों के परमिट और आवेदन शुल्क में कटौती की है। शराबबंदी के बाद, नीतिश सरकार ने राजस्व में वृद्धि के लिए वाहनों के शुल्क में बढ़ोतरी की थी, नीतिश सरकार के इस फैसले से वाहन मालिकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। खासकर, मध्यवर्गीय परिवारों के लिए बढ़े हुए शुल्क का भुगतान करना चुनौतीपूर्ण हो गया था। हालांकि, अब विधानसभा चुनाव से कुछ माह पहले परिवहन विभाग ने परमिट और आवेदन शुल्क में महत्वपूर्ण कमी की है, जिससे वाहन मालिक राहत महसूस कर रहे हैं। नए संशोधन के तहत, निजी वाहनों को व्यावसायिक उपयोग के लिए परिवर्तित करना अब आसान होगा। इससे रजिस्ट्रेशन और कॉमर्शियल वाहनों के परमिट शुल्क में कमी आएगी, जिससे छोटे और मध्यम कॉमर्शियल वाहनों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है।बिहार सरकार ने मोटर वाहन नियमावली के तहत नियम 74 और 82 में संशोधन कर दिया है। इसके अनुसार, नए शुल्क दरों में निम्नलिखित बदलाव किए हैंः बाइक का रजिस्ट्रेशन शुल्कः 1650 से घटकर 1150 रुपये कर दिया गया है। ऑटो रिक्शा का परमिट शुल्क 5650 से घटकर 1150 रुपये किया गया है। वहीं 5 से 7 सीटर कैब कार का शुल्कः 23650 से घटकर 4150 रुपये कर दिया गया है। 7 से 13 सीटर मैक्सी कैब का शुल्क 23650 से घटकर 5150 रुपये किया गया है। 13 से 23 सीट वाले मिनी बस का शुल्क 23650 से कमकर 7150 रुपये कर दिया गया है।इसतरह नीतिश सरकार ने 23 सीट से अधिक बस का शुल्कः 8500 रुपये (दूरी के अनुसार सरचार्ज 9000 रुपये) छोटे मालवाहक वाहन का शुल्क 8200 से घटकर 5000 रुपये कर दिया है। भारी मालवाहक का शुल्क 8200 से घटकर 7000 रुपये किया गया है।

महिला ने जैसे ही बाथरुम का गेट खोला तो नजारा देख रह गई हैरान

-फंदे से लटकी थी महिला सिपाही, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरु की जांच
समस्तीपुर,(ईएमएस)। बिहार के समस्तीपुर पुलिस लाइन में एक महिला सिपाही का शव बाथरूम में फंदे से लटका मिला। मृतक महिला की पहचान वंदना कुमारी (24) के रूप में हुई है। वह मधेपुरा जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र के तरवा गांव की रहने वाली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।जानकारी के मुताबिक घटना के समय वंदना कुमारी पुलिस लाइन के महिला डायरेक्टर के बाथरूम में थीं। जब दूसरी महिला सिपाही बाथरूम गई तो उसने वंदना को फंदे से लटका देखा तो चौंक गई। बाथरूम का गेट अंदर से बंद नहीं था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भेज दिया।एएसपीप ने बताया कि वंदना कुमारी एससी-एसटी थाना में तैनात थीं और पुलिस लाइन में ही रहती थीं। उन्होंने बताया कि वह कुछ परेशान चल रही थीं। उसका शव बाथरूम की खिड़की में दुपट्टे से लटकता हुआ मिला। घटना की जानकारी परिजनों को दे दी। एएसपी ने बताया कि महिला सिपाही वंदना नहाने के लिए बाथरूम गई लेकिन नहाया नहीं। उसका मोबाइल भी बाथरूम में ही मिला। परिजनों से ही पता चल सकेगा कि महिला सिपाही के तनाव में रहने और आत्महत्या के कारणों का। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नीतीश के करीबी रहे आरसीपी ने बनाई नई पार्टी आप सबकी आवाज

पटना,(ईएमएस)। बिहार के पूर्व सीएम और नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी का नाम आप सबकी आवाज (संक्षेप में आशा) रखा है। उन्होंने बताया कि यह नाम दीपावली के दीपों से प्रेरित है, जो उम्मीद का प्रतीक है। आरसीपी ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 140 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।बता दें आरसीपी सिंह का राजनीतिक सफर नीतीश कुमार के साथ शुरू हुआ, जब वे नीतीश के सचिव रहे और बाद में उन्हें राज्यसभा भेजा गया। वे मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। हाल ही में नीतीश की एनडीए में वापसी के बाद आरसीपी सिंह राजनीतिक रूप से अलग-थलग पड़ गए थे। आरसीपी ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया, लेकिन हाल की राजनीतिक परिस्थितियों में उन्हें वहां भी असहजता महसूस हुई।आरसीपी ने पार्टी के झंडे की जानकारी देते हुए बताया कि इसका डिजाइन आयताकार होगा, जिसमें हरा, नीला और पीला रंग शामिल होंगे। उन्होंने बिहार में शराबबंदी के बावजूद नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इससे सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। सिंह की नई पार्टी की लॉन्चिंग इस बात का संकेत है कि वह बिहार की राजनीति में एक नई चुनौती पेश करने वाले हैं। उनकी पार्टी आप सबकी आवाज आने वाले विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

बाइक और कंटेनर की टक्कर में बाप की मौत

समस्तीपुर : समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना एरिया से होकर गुजरने वाले नेशनल हाइवे-28 मोतीपुर सब्जी मंडी के पास बाइक और कंटेनर के बीच हुई ठोकर में बाप की मौत हो गई। जबकि बेटी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। जख्मी को उपचार के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया।मृतक की पहचान पूसा थाना क्षेत्र के मोहम्मद गांव निवासी लखविंदर महतो 45 वर्ष के रूप में की गई है। जबकि जख्मी बेटी रूप कुमारी बताई गई है, जो मैट्रिक की छात्रा है। उधर, घटना की सूचना के बाद पारिवारिक सदस्यों के बीच कोहराम मच गया। पटना के संबंध में मृतक के साला मनीष कुमार ने बताया कि उनके बहनोई लेखेंद्र गुरुवार दोपहर अपनी पुत्री रूपा कुमारी के साथ पूसा के मोहमदा से बाइक से अपनी बड़ी बेटी से मिलने के लिए ताजपुर थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव आ रहे थे। इसी दौरान एनएच-28 पर कंटेनर ने उन्हें अपने चपेट में ले लिया, जिससे उनके बहनोई की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। जबकि उनकी भांजी रूपा को लोगों ने उपचार के लिए सदर अस्पताल लाया। जहां से उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि लेखेंद्र पूसा विश्वविद्यालय में काम करते थे। ताजपुर थाना अध्यक्ष सनी कुमार मौसम ने बताया कि कंटेनर की ठोकर से पूसा के मोहमदा निवासी लेखेंद्र की मौत हुई है। जबकि उनकी पुत्री गंभीर है, जिसे डीएमसीएच भेजा गया है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया गया है। घटना को लेकर एक प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है।

दीपावली की रात महिला ने की आत्महत्या, पहले भी कुएं में कूद जान देने का कर चुकी थी प्रयास

छपरा : दीपावली के दिन सब कुछ सामान्य के साथ ही देर रात तक कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अहले सुबह में फांसी के फंदे से महिला का शव मिलने से घर परिवार सहित गांव के सभी लोग सकते में है। घटना स्थानीय जिले के परसा थाना क्षेत्र के माड़र गांव की बताई जा रही है। जहां पति पत्नी के बीच मामूली सी विवाद में एक महिला ने फांसी लागकर आत्महत्या कर जीवन लीला समाप्त कर ली है। गुरुवार की देर शाम को घर परिवार के सभी लोग मिल जुलकर दिवाली का पर्व मनाया। लेकिन शुक्रवार की अहले सुबह फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिला। मृत महिला की पहचान

उक्त गांव के संदीप सिंह की 35 वर्षीय पत्नी मुन्नी देवी के रूप में की गई है। फांसी लगाकर आत्महत्या करने की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। वहीं, मौत की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मृत महिला दो बच्चों की मां बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय थाने की पुलिस पहुंच कर मामले की जानकारी लिया। उसके बाद शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहां के चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में मृत महिला की सास कलावती देवी ने बताया कि पतोह और बेटा में कई दिनों से अनबन चल रहा था। दीपावली की रात्रि दीप जलाकर पति पत्नी अलग-अलग कमरे में सोने के लिए चले गए। लेकिन जब सुबह में पति उठकर देखा तो पत्नी साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आनन-फानन में शव को फांसी से उतार कर घर में रखा गया। उसके बाद घटना की सूचना मायके सारण जिला के डोरीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मानुपुर गांव निवासी पिता गोपाल सिंह सहित परिवार के अन्य सदस्यों को देने के साथ ही स्थानीय परसा थाने की पुलिस को सूचित कर दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए छपरा भेज दिया है।वहीं, पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुटी है। हालांकि, मृत महिला की सास ने बताया कि इसके पहले भी पतोह द्वारा पूर्व में भी कुआं में कूदकर खुदकुशी करने का प्रयास किया जा चुका है। परिजनों के अनुसार, गला और गर्दन में गंभीर बीमारी थी, जिस कारण तंग आकर आत्महत्या करने की बातें कही जा रही हैं।

हादसे में उड़ीसा के वकील समेत दो की मौत

नालंदा : नालंदा जिले में सड़क हादसे में उड़ीसा के एक वकील और उनके पुत्र की मौत हो गई। वहीं पत्नी, बेटी समेत तीन लोगों की हालत गंभीर है। इन्हें अस्पताल में करवाया गया है। यह हादसा सोहसराय थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 20 पर श्री राम पेट्रोल पंप के पास की है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। इधर, सोहसराय थानाध्यक्ष राजमणि के नेतृत्व में पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों द्वारा पिता-पुत्र को मृत घोषित करने के बाद गंभीर रूप से घायल तीनों लोगों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उड़ीसा के पुरी जिले के वहियारपुर निवासी अधिवक्ता सत्यनारायण सत्यपति अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर नालंदा आए थे।

गाड़ी चोरी के शक में युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई, सूचना पर पहुंची पुलिस ने छुड़ाया

सहरसा : सहरसा जिले में सदर थाना क्षेत्र के पूरब बाजार में खरीदारी के लिए पहुंचे एक युवक की गाड़ी को उसके साथ आए पड़ोसी के द्वारा साइड करने में लोगों ने उसे चोर समझकर जमकर पिटाई कर दी और पेड़ में बांध दिया। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच उसे पेड़ से खोल कर सदर थाना लाई, घटना शुक्रवार की है।जानकारी के अनुसार, एक 25 वर्षीय युवक को गाड़ी चोरी करने के शक में पब्लिक पेड़ में बांधकर जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद पुलिस को सूचना दिया। सूचना मिलते ही पुलिस फौरन घटना स्थल पर पहुंचकर चोर को पेड़ से खोल कर सदर थाना लाई और पूछताछ कर रही है। युवक की पहचान मन्नू पासवान पिता कुलानंद पासवान घर ठाढ़ी भवानीपुर जिला सुपौल के रूप में हुई है। घटना को लेकर मन्नू पासवान के मित्र शंकर कुमार ने बताया कि लोग उसे पीट रहे थे और मैं लोगों से

उसकी गाड़ी और युवक उसका ही पड़ोसी है कहकर छोड़ने की गुहार लगाते रहा। लेकिन लोग एक भी न सुनी। उन्होंने बताया कि गाड़ी मेरी ही थी और पकड़ाया युवक मेरा ही पड़ोसी है। हम आदित्य विजन में एलसीडी खरीद रहे थे। जाम न लगने को लेकर मेरा पड़ोसी मन्नू पासवान मेरा बाइक आदित्य विजन के सामने रोड पर साइड कर रहा था। उसी दौरान पब्लिक को लगा जो बाइक चोरी कर भाग रहा रहा है। उसके बाद पब्लिक सब उसको गाड़ी सहित पकड़ लिया और पेड़ में रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई कर दिया।हम जब आदित्य विजन से बाहर निकले तो भीड़ देखकर वहां पहुंचे तो तब पता चला जो मेरे ही आदमी को पेड़ में बांध दिया है। उसके बाद पुलिस आई और मेरे पड़ोसी को सदर थाना लेकर आई है। मालूम हो कि आए दिन शहरी क्षेत्र में लगातार बाइक चोरी से आम लोग त्रस्त हैं, जिसके कारण युवक को लोगों के आक्रोश को झेलना पड़ गया।

व्यक्ति की संदिग्ध मौत जहरीली शराब पीने का शक

बेगूसराय : बेगूसराय के मुफस्सिल थानाक्षेत्र के जिनेदपुर गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान जिनेदपुर निवासी जीवन शाह के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि जीवन की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। इस घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उसके बाद नाराज लोगों ने जहां मृतक ने शराब का सेवन किया था, वहां के घर पर तोड़फोड़ कर दी।

मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम

परिजनों ने बताया कि जीवन शाह जहरीली शराब पीकर घर आया था और अचानक बेहोश होकर गिर गया। कुछ देर के भीतर ही उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसने दम तोड़ दिया। इस घटना से परिजनों में मातम छा गया। वहीं, ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में लंबे समय से जहरीली शराब का धंधा चल रहा है और पुलिस की अनदेखी के कारण ऐसे हादसे हो रहे हैं।

ग्रामीणों ने पुलिस के सामने की तोड़फोड़

मौत की खबर फैलते ही गुस्साए ग्रामीणों ने घटनास्थल पर हंगामा किया और पुलिस के सामने ही आरोपी के घर पर तोड़फोड़ की। पुलिस के प्रयासों के बावजूद लोग शांत नहीं हुए और शव को उठाने से मना कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में कई घरों में अवैध शराब बनाई जाती है और बेची जाती है। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे लोगों का गुस्सा चरम पर है।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

हंगामे के बाद पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत किया। फिर मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि शराब की बिक्री से जुड़े आरोपों में कितनी सच्चाई है। अधिकारियों का कहना है कि अगर अवैध शराब कारोबार की पुष्टि होती है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीणों ने की यह मांग

इस घटना के बाद ग्रामीणों ने मांग की है कि पुलिस अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाए और दोषियों को सख्त सजा दिलाए।

पति ने पत्नी को मार डाला, मायके वाले बोले, बेटी की जिद पर चैत्र मास में करवा दिया था प्रेम विवाह

पटना : पटना में एक प्रेमी ने पहले प्रेम विवाह रचाया। उसके बाद दीपावली की दिन रात अपनी प्रेमिका सह पत्नी की गला दबाकर हत्या कर डाली। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। शुक्रवार को पुलिस ने पत्नी का शव उनके घर के बेडरूम से बरामद कर लिया है। घटना की जानकारी देते हुए फुलवारी शरीफ पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी 2 दीपक कुमार ने बताया कि एक पति द्वारा पत्नी की गला दबाकर हत्या का मामला प्रकाश में आया है। छानबीन के लिए मौके पर पहुंची पुलिस तो घर से एक देसी कट्टा भी बरामद किया है।

परिवार वालों ने प्रेम विरोध किया था

उन्होंने बताया कि आरोपित पति मौके से फरार हो गया है। पुलिस आरोपित पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर एफएसएल टीम के माध्यम से जांच शुरू कर दी है। घटना राजधानी पटना से 15 किलोमीटर दूर नौबतपुर थाना क्षेत्र के चिरौरा गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि नौबतपुर थाना क्षेत्र के चिरौरा गांव में राधा कुमारी (18) एवं रोहित कुमार (20) के बीच कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिवार वाले लोगों को जब यह जानकारी मिली तो परिवार वालों ने इसका विरोध कर दिया।

हत्या के बाद मौके से फरार हो गया रोहित

लड़की के परिवार वालों ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी किसी दूसरी जगह तय कर रखी थी। लेकिन, लड़की के बार-बार जिद करने के बाद उन्होंने चैत महीने में राधा और रोहित की शादी दोनों परिवार की मर्जी खुशी से प्रेम विवाह करवा दिया। राधा कुमारी की मां लाल मुनी देवी ने बताया कि दीपावली की रात राधा का पति रोहित कुमार ने घर में ही उनकी बेटी राधा कुमारी की गला दबाकर हत्या के बाद मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर परिवार के लोग वहां पहुंचे उन्होंने इसकी सूचना नौबतपुर थाने को दी। इस मामले को लेकर नौबतपुर डीएसपी दीपक कुमार ने बताया कि दीपावली की रात घर में पति पत्नी राधा कुमारी एवं रोहित कुमार के अलावा एक वृद्ध व्यक्ति घर में था, जो इस मामले में कुछ भी बताने में असमर्थ है।

आग से झुलसी युवती की मौत

गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज जिले में एक हफ्ते पहले सिलेंडर लीकेज से लगी आग में बुरी तरह झुलस चुकी महिला की मौत के बाद झुलसी हुई लड़की की मौत नई दिल्ली में हो गई। उनकी मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई।मालूम हो कि शुक्रवार सुबह गोपालगंज जिले के भोरे उत्तर टोला के अरविंद सिंह के घर के रसोई घर में सिलेंडर में लीकेज से अचानक आग लग गई, जिसमें उनकी पत्नी आशा देवी (58) तथा गांव की युवती सुजीता कुमारी (20) गंभीर रूप से झुलस गई। आसपास के लोगों ने तत्काल दोनों को भोरे बाजार के एक निजी क्लीनिक में पहुंचाया, जहां से दोनों को गोरखपुर रेफर कर दिया गया। घाव की गंभीरता को देखते हुए गोरखपुर के डॉक्टर ने उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया। वहीं पर सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान रविवार की सुबह आशा देवी की मृत्यु हो गई थी। जबकि गुरुवार की रात सुजीता ने दम तोड़ दिया। इस हृदय विधायक घटना के बाद भोरे बाजार में शोक का माहौल है।

घर से टहलने निकले व्यक्ति का रेलवे ट्रैक के पास मिला शव

बगहा : बगहा पुलिस जिले के भैरोगंज रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान भैरवगंज बाजार निवासी रामबालक राम के बेटे पप्पू राम (40) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम को घर से घूमने निकले पप्पू के देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजन चिंतित हो गए थे। लेकिन दीपावली के अवसर पर बाहर होने की संभावना के चलते उन्होंने इंतजार किया।जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार सुबह स्थानीय लोगों ने भैरोगंज रेलवे ट्रैक के पास एक शव देखा। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। शव की पहचान पप्पू राम के रूप में होते ही परिजन वहां पहुंचे और शिनाख्त के बाद उनके बीच शोक का माहौल छा गया। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है और गांव में हर तरफ इस घटना की चर्चा हो रही है। भैरोगंज थानाध्यक्ष महेश कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि अब तक परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन आवेदन मिलने पर मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि यह मामला दुर्घटना है या कुछ और। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। लोगों के बीच कई तरह की अफवाहें और चर्चाएं चल रही हैं। हर व्यक्ति अपने-अपने ढंग से इस घटना के कारणों की बात कर रहा है, लेकिन पप्पू राम की असमय मृत्यु से गांव में शोक का माहौल है।

विद्यालय से लौटने के दौरान शिक्षक की मौत, महिला शिक्षिका सहित दो घायल

पटना : पटना में ड्यूटी से लौट रहे शिक्षक की सड़क हादसे में मौत हो गई। साथ ही ऑटो में सवार एक अन्य शिक्षिका और ऑटो चालक घायल हो गये। मृतक की पहचान पटना के मीठापुर निवासी राजेश कुमार (50) के रूप में हुई है। घायल महिला शिक्षिका रामकृष्ण नगर निवासी प्रियंका (30) और ऑटो चालक विग्रहपुर निवासी सुरेश कुमार (52) हैं।ड्यूटी कर घर लौटने के दौरान वह दुर्घटना के शिकार हो गए। घटना के संबंध में फतुहा थाना प्रभारी रूपक कुमार अंबुज ने बताया कि राजेश नालंदा जिले के नागरनौसा थाना क्षेत्र के वडीहा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। राजेश कुमार एक सीएनजी ऑटो में सवार होकर दनियावां की ओर से वापस अपने घर लौट रहे थे। तभी एक अज्ञात अनियंत्रित वाहन ने ऑटो में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार शिक्षक राजेश कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना में ऑटो में सवार एक महिला शिक्षक और ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गये। घटना होते ही आसपास के लोग उधर दौड़ पड़े और आननफानन में उन घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए फतुहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया ,जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए एनएमसीएच भेज दिया गया है।

जुआ खेलने के दौरान हुए विवाद में युवक की पीट-पीट कर हत्या

समस्तीपुर : समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र के रहुआ पश्चिम गांव में दीपावली की रात जुआ खेलने के दौरान विवाद के बाद एक युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। युवक की पहचान गांव के स्वर्गीय किशुन पासवान के पुत्र मुरारी पासवान 30 वर्ष के रूप में की गई है। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमॉर्टम के लिए सदस्य अस्पताल भेजा है। उधर, इस मामले में नामजद प्राथमिकी की दर्ज की गई है। घटना के संबंध में मृतक का दोस्त सोनू कुमार ने बताया कि मुरारी रात गांव के ही गोलू पासवान एवं दो अन्य लड़कों के साथ घर के पास ही दीपावली के मौके पर जुआ खेल रहा था। इसी दौरान गोलू से विवाद हो गया। दोनों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें मुरारी के गर्दन पर चोट लग गई, जिसके बाद परिवार के लोगों ने इसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इसकी मौत हो गई।

32 दिन तक आयोजित होने वाला विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला 13 नवंबर से होगा शुरू, कलेक्टर ने की बैठक

छपरा : विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला 2024 का उद्घाटन 13 नवंबर को प्रस्तावित है। जबकि यह मेला 14 दिसंबर तक अनवरत चलता रहेगा। हालांकि, इस मेले के सफल अयोजन को लेकर 14 अलग-अलग कोषांगों का गठन किया गया है। उक्त बातें सारण के जिलाधिकारी अमन समीर ने समाहरणालय परिसर स्थित सभागार में मेला से संबंधित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने को लेकर विभिन्न कोषांगों के साथ बैठक के दौरान कही।उन्होंने बताया गया कि पर्यटन विभाग द्वारा अंतर विभागीय बैठक के बाद मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए विभिन्न विभागों के लिए तिथियां का निर्धारण कर दिया गया है। 32 दिन के इस ऐतिहासिक मेले में छह दिन पर्यटन विभाग, 12 दिन कला संस्कृति एवं युवा विभाग, 11 दिन

जिला प्रशासन, दो दिन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा एक दिन अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। पर्यटन विभाग के सौजन्य से 13, 16, 17, 24 नवंबर तथा 13 एवं 14 दिसंबर को प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सौजन्य से 14, 22, 23, 27, 30 नवंबर, 1, 4, 5, 7, 8, 11 एवं 12 दिसंबर को प्रस्तुति दी जाएगी। जबकि 28 एवं 29 नवंबर को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सौजन्य से प्रस्तुति का आयोजन किया जाएगा। हालांकि, सोनपुर मेला के दौरान आगामी 18 नवंबर को अपराध अनुसंधान विभाग के सौजन्य से प्रस्तुति का आयोजित कर जिला सहित राज्य के निवासियों को जागरुक किया जाएगा। शेष तिथियों को जिला प्रशासन सारण के सौजन्य से सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। मेला के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन स्तर से किए जाने वाले कार्यों के निविदा का निष्पादन हो चुका है तथा संबंधित एजेंसी अपना कार्य शुरू कर चुकी है।सारण के जिलाधिकारी अमन समीर द्वारा सोनपुर मेला में पुस्तक मेला के आयोजन साहित्यकारों की गोष्ठी का आयोजन के लिए भी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। वहीं, महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित विशेषज्ञों के माध्यम से परिचर्चा का भी आयोजन कराया जाएगा। इस बार गंगा नदी तट पर गंगा महाआरती का आयोजन का भव्य स्वरूप दिया जाएगा। इसके लिए भी कार्रवाई की जा रही है। पेंटिंग और क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया जाएगा। इन सभी कार्यों के लिए अलग-अलग पदाधिकारियों को जिम्मेवारी सौंपी गई है। इन सभी संबंधित पदाधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्यों का ससमय निष्पादन सुनिश्चित करने के आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है। बैठक में जिलाधिकारी अमन समीर के अलावा उपविकास आयुक्त, बंदोबस्त पदाधिकारी, अपर समाहर्त्ता, नगर आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर सहित विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारी मौजूद रहे।

संक्षिप्त खबरें

प्रयागराज में पहली बार महाकुंभ में बनेगा एयर कॉरिडोर, मेला प्राधिकरण ने बनाई व्यवस्था

प्रयागराज (ईएमएस)। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए पहली बार मेला प्राधिकरण एयर कॉरिडोर की व्यवस्था बनाई है। महाकुंभ 2025 में देश और विदेश से आने वाले मेहमानों के साथ वीवीआईपी गेस्ट के आने से आम श्रद्धालुओं को होने वाली दिक्कत से बचाने के लिए मेला प्राधिकरण तरफ से एयर कॉरिडोर तैयार करने की प्लानिंग की जा रही है। इस वीवीआईपी एयर कॉरिडोर से पर्यटक एयर रूट से सीधे संगम पहुंच सकेंगे। फ्लाइट से आने वाले पर्यटक एयरपोर्ट पर उतरने के बाद हेलीकाप्टर से मेला क्षेत्र में पहुंचेंगे। इस सुविधा के लिए यमुना बैंक रोड पर स्थित बोट क्लब में हेलीपोर्ट बनाने की तैयारी की जा रही है। जिससे पर्यटक एयरपोर्ट से हेलीकाप्टर से वहां पहुंचने के बाद स्टीमर के जरिए सीधे संगम जा सकें। इसके साथ ही अगर पर्यटक चाहे तो सीधे टेंट सिटी भी जा सकेंगे। इसके लिए कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस व्यवस्था का सुबह छह से शाम छह बजे तक संचालित करने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही हेलीकाप्टर से आने वाले पर्यटकों को हेलीपोर्ट पर उतारने से पहले संगम का विहंगम दृश्य का भी दर्शन कराने की योजना बनायी जा रही है। इस विशेष सेवा को 10 जनवरी से शुरू करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। हालांकि मेला प्राधिकरण की तैयारी है कि इसकी शुरुआत दिसंबर के दूसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम में कराने की है।

यदुवंशियों ने निकाली शोभायात्रा, चार राज्यों के कलाकार हुए शामिल

वाराणसी (ईएमएस)। काशी में यदुवंशी समाज के लोगों ने गोवर्धन पूजा के बाद कृष्ण-बलराम की झांकी सहित शोभा यात्रा निकाली गई। काशी के लक्खा मेला में यात्रा हथुआ मार्केट से शुरू हुई। शोभा यात्रा में चार राज्यों के कलाकार शामिल हुए। यात्रा के दौरान केसरिया साफा बांधे यादव बंधुओं ने परंपरागत मनरी कला (लट्ठबाजी) का प्रदर्शन किया। शोभायात्रा में योगेश्वर श्रीकृष्ण के जीवन लीलाओं से जुड़े हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। टोलियों में झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वृंदावन के कलाकार पहुंचे हैं। शोभा यात्रा में तरह-तरह की वेशभूषा में लोग दिखे। नरमुंड और भालू के ड्रेस पहनकर लोग यात्रा में शामिल हुए। कृष्ण-राधा बनकर रथ पर कलाकार बैठे दिखे। इस मौके पर महिलाएं एक ही तरह की साड़ी पहनकर नजर आईं।

पटाखे की चिंगारी से पांच ट्रॉली चारा जलकर राख, ग्रामीणों और दमकल ने पाया आग पर काबू

अजमेर (ईएमएस)। पटाखे की चिंगारी से गेगल थाना क्षेत्र के मुहामी गांव में बाड़े में रखे चारे में आग लग गई, जिससे बाड़े में रखा 5 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने आग की सूचना तुरन्त दमकल को दी। इस पर अजमेर से एक दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने बताया कि मुहामी गांव बाय महाराज मंदिर के पास मोती सिंह के बाड़े में रखे चारे में अचानक आग की लपटे उठती दिखी। चारे में आग की लपटे देख आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने तुरन्त गेगल थाना पुलिस व दमकल को सूचना दी। ग्रामीणों ने पास ही गुजर रहे एक पानी के टैंकर को रोककर आग को बुझाने का प्रयास किया। पानी के टैंकर से काफी हद तक आग पर काबू पा लिया, जिससे आग ज्यादा नहीं फैल पाई। सूचना पर गेगल थाने के एएसआई विश्राम जाट मौके पर पहुंचे। दमकल से आग को पूरी तरह बुझाया गया। आग से 5 ट्रॉली चारा जला है। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।

समाज में नफरत फैलाने की नीयत से काम कर रही थी कांग्रेस सरकार

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने साधा निशाना

जयपुर (ईएमएस)। पूर्व कांग्रेस सरकार समाज में नफरत फैलाने की नीयत से काम कर रही थी। यह बात राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कही। उन्होंने कहा कि गोधरा की घटना को लेकर विवादित किताबों के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस सरकार समाज में वैमनस्य फैलाने की फितरत से काम कर रही थी। मदन दिलावर ने कहा, समग्र शिक्षा राजस्थान द्वारा सरकारी स्कूलों की किताबों में भेजी गई विवादित दो किताबें अदृश्य लोग लेखक हर्ष मंदर और जीवन की बहार लेखक माधव गाडगिल के चयन को लेकर वर्तमान सरकार की कोई भूमिका नहीं है। इन दोनों किताबों का चयन पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया है। दिलावर ने कहा कि प्रदेश कि वर्तमान बीजेपी सरकार के कार्यकाल में केवल दो किताबें जोड़ी गई हैं। इनमें पहली वैक्सीन की गाथा है। इसके लेखक सज्जन सिंह यादव है। जबकि दूसरी किताब राजस्थानी भाषा की किताब चिड़ी को मोती लादीओ है। इन दोनों किताबों के साथ ही 99 किताबों को 29 सितंबर 2023 को तत्कालीन चयन कमेटी द्वारा चयनित की गई थी। इसके अध्यक्ष तत्कालीन शिक्षा सचिव थे।

दीपावली पर जोधपुर-बीकानेर की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित

एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पहुंचा

जयपुर (ईएमएस)। दीपावली पर जोधपुर-बीकानेर की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रही। यहां एयर क्वालटी इंडेक्स (एक्यूआई) 500 पर पहुंच गया। हालांकि सुबह मौसम साफ रहने और तेज धूप रहने से प्रदूषण का स्तर घट गया। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, देर रात तक जयपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर समेत तमाम शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 400 से 500 के बीच दर्ज हुआ। सुबह सबसे ज्यादा खराब एयर क्वालिटी दिल्ली एनसीआर और हरियाणा से लगते शहरों सीकर, भरतपुर, भिवाड़ी, झुंझुनूं, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, जयपुर में रही। यहां सुबह तक एक्यूआई लेवल 200 से 350 के बीच रहा। दूसरे शहरों उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, अजमेर में एक्यूआई रात में रेड जोन में रहा, लेकिन सुबह होने के साथ वापस 100 से 200 के बीच आ गया। जयपुर में एक्यूआई लेवल रात 12 बजे 376 रहा, जबकि सुबह 9 बजे 244 तक आ गया। जयपुर में एरिया वाइज देखें तो आदर्श नगर, राजापार्क, ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास आज सुबह 9 बजे एक्यूआई लेवल 181, मानसरोवर, अजमेर रोड, गोपालपुरा, पृथ्वीराज नगर के आसपास 270, सीतपुरा, वाटिका, प्रताप नगर, जगतपुरा एरिया में 323, मुरलीपुरा, झोटवाड़ा, कालवाड़ा रोड, निवारू रोड के आसपास 289 और शास्त्री नगर, वीकेआई, विद्याधर नगर, अम्बाबाड़ी के आसपास 224 से ज्यादा एक्यूआई लेवल दर्ज हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार धुएं और प्रदूषण का लेवल बढ़ने का सबसे ज्यादा प्रभाव सांस और दिल से जुड़ी बीमारी के मरीजों को होता है।

ये हुए बदलावः अब 4 नहीं 2 माह पहले करा सकेंगे ट्रेन टिकट की एडवांस बुकिंग

नई दिल्ली (ईएमएस)। 1 नवंबर से पांच बड़े बदलाव हो रहे हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। अब आप रेलवे टिकट की एडवांस बुकिंग 60 दिन पहले से करा सकेंगे। पहले ये सुविधा 120 दिन पहले तक थी। वहीं 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 62 रुपए तक महंगा हो गया है। दिल्ली में अब ये 1802 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा मैसेज ट्रेसेबिलिटी नियम के तहत टेलीकॉम कंपनियां संदिग्ध या फर्जी नंबरों की पहचान करके उन्हें तुरंत ब्लॉक करेंगी, जिससे इन नंबरों से यूजर्स तक मैसेज नहीं पहुंच सकेगा। जेट फ्यूल 2,992 रुपए तक महंगा होने से हवाई सफर महंगा हो सकता है। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है जबकि 1 नवंबर से 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 62 रुपए तक महंगा हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 62 रुपए बढ़कर 1802 रुपए हो गईं। पहले ये 1740 रुपए में मिल रहा था। कोलकाता में यह 61 रुपए बढ़कर 1911.50 रुपए में मिल रहा है, पहले इसके दाम 1850.50 रुपए थे। मुंबई में सिलेंडर 16.92.50 रुपए से 62 रुपए बढ़कर 1754.50 रुपए का हो गया है। चेन्नई में सिलेंडर 1964.50 रुपए का मिल रहा है।

यूपी उपचुनाव में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू, राजनीतिक सरगर्मी तेज

चंद्रशेखर ने योगी को घेरा तो कांग्रेस ने कहा, बांटने का काम बीजेपी का

लखनऊ (ईएमएस)। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में आरोप-प्रत्यारोप के दौर के साथ राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा- चुनावी रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मंच पर समाज को हरिजन और गैर हरिजन में बांट रहे हैं। क्या इस हरिजन शब्द के प्रयोग से उनका तथाकथित हिंदू खतरे में नहीं आता? जबकि 1982 में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर अनुसूचित जातियों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल न करने को कहा था। 2010 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस संबंध में नए सिरे से दिशा-निर्देश जारी करके इस पर रोक लगाई थी। यहां तक कि माननीय न्यायालय द्वारा भी इसे अपमानजनक बताते हुए प्रतिबंध लगाया गया था। इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या इन निर्णयों की जानकारी नहीं है? या जानबूझकर हरिजन शब्द का प्रयोग करके अनुसूचित वर्ग के लोगों का अपमान किया जा रहा है? जब गांधी जी ने अछूतों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जी ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे अपमानजनक शब्द बताया था। ये सवाल उस समय भी पूछा गया था और आज भी प्रासंगिक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बताएं, यदि अनुसूचित जाति के लोग हरिजन हैं तो बाकी अन्य लोग 'हरि' के जन नहीं तो किसके जन हैं? वहीं सीएम योगी के बंटेंगे तो कटेंगे बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, कहीं कोई बांट नहीं रहा है और न ही लोगों में मतभेद कर रहा है। ये काम विशेषकर भाजपा करती है। यह भाजपा का काम है। विपक्ष, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस मजबूती से अपना काम कर रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना। कहा- सपा के लोग एसी रूम में बैठ कर नेतागिरी करते हैं। इनका प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। जब-जब ये पावर में आए, तब-तब गुंडे, बदमाश पले-बढ़े। प्रदेश की जनता इनको जानती है।

अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 1,87,346 करोड़ रुपये के पार, लबालब हुई सरकार की तिजोरी

मुंबई (ईएमएस)। दिवाली के त्यौहारी सीजन में भारत सरकार को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि के रूप में एक बड़ी राहत मिली है। अक्टूबर 2024 में जीएसटी संग्रह 1,87,346 करोड़ रुपये के नए शीर्ष स्तर पर पहुंच गया, जो बीते वर्ष अक्टूबर के 1.72 लाख करोड़ की तुलना में करीब 9 प्रतिशत की वृद्धि को दिखाता है। मोदी सरकार के लिए यह आंकड़ा देश की अर्थव्यवस्था में तेजी और त्यौहारी मांग में वृद्धि का स्पष्ट संकेत है। रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर माह में सीजीएसटी (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर) संग्रह 33,821 करोड़ रुपये, एसजीएसटी (राज्य वस्तु एवं सेवा कर) संग्रह 41,864 करोड़ रुपये, आईजीएसटी (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर) संग्रह 54,878 करोड़ रुपये और सेस के माध्यम से 11,688 करोड़ रुपये जुटाए गए। इस माह के कुल राजस्व में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। जिससे देश के आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार की उम्मीदें बढ़ी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अक्टूबर में त्यौहारी सीजन के कारण बाजार में उपभोक्ता गतिविधियों में तेजी आई, इससे देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ी और जीएसटी संग्रह में जोरदार उछाल देखने को मिला। इस माह में इंपोर्ट्स से भी आईजीएसटी में 44,233 करोड़ और सेस में 862 करोड़ रुपये का योगदान हुआ, जिससे विदेशी व्यापार में सुधार की भी पुष्टि होती है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी रिफंड में भी इस साल उछाल दिखाई दिया है। अक्टूबर 2024 में कुल 19,306 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया, जबकि पिछले वर्ष के अक्टूबर माह में यह राशि 16,335 करोड़ रुपये थी। यह 18.2 प्रतिशत की वृद्धि को दिखाता है, जो रिफंड प्रक्रियाओं में तेजी और पारदर्शिता को उजागर करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि रिफंड में बढ़ोतरी से व्यापारियों और उद्यमियों को राहत मिलेगी और यह व्यापार के लिए अनुकूल माहौल बनाएगा। अक्टूबर में 1.87 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड कलेक्शन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो भारत के आर्थिक सुधार की दिशा में बढ़ते कदमों को दर्शाता है। त्यौहारी सीजन के बाद भी यह वृद्धि कायम रहती है या नहीं, यह आगामी महीनों के संग्रह आंकड़ों पर निर्भर करेगा।

अमृत मिशन-2 को जल्द हरी झंडी मिलने की उम्मीद

अजमेर (ईएमएस)। अजमेर में जलापूर्ति व्यवस्था के लिए अमृत मिशन 2.0 को जल्द हरी झंडी मिल सकती है। योजना के तहत करीब 186 करोड़ रुपए के होने वाले विभिन्न कार्यों की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) फाइनल हो गई है। अब विभाग की तकनीकी कमेटी से इसे हरी झंडी मिलने का इंतजार है। बीते कुछ समय से डीपीआर में बदलाव हो रहे थे। मुख्य अभियंता ने डीपीआर को फाइनल कर दिया। इसे अब स्वीकृति के लिए विभाग की तकनीकी कमेटी को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि जल्द इसे स्वीकृति मिलेगी। मिशन के तहत होने वाले विविध कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की जाएगी। डीपीआर में पूर्व में कुल 11 टंकियां थी। इसमें पंचशील ए ब्लॉक, गणेश गुवाड़ी, छतरी योजना, रातिडांग, ज्ञान विहार बीके कौल नगर, आरपीएससी के पीछे बंदिया गांव, एचएमटी, कल्याणीपुरा, एमडी कॉलोनी नाका मदार, फरीदाबाग व आम का तालाब में टंकी प्रस्तावित थी। लेकिन अब कुल दस टंकियों का निर्माण होगा। इसमें गणेश गवाड़ी व रातिडांग की टंकी को हटा दिया गया है। जबकि फॉयसागर रोड करणी विहार में टंकी का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। इसी तरह पूर्व में 3 स्वच्छ जलाशय (सीडब्ल्यूआर) - शक्तिनगर, प्रोफेसर कॉलोनी व माखुपुरा में बनने थे। इसे बढ़ाकर अब 5 कर दिया गया। इसमें पंचशील व फॉयसागर झील परिसर में सीडब्ल्यूआर का निर्माण जोड़ा गया है। फॉयसागर झील परिसर में 5 एमएलडी का ट्रीटमेंट प्लांट तथा झील में एक इंटैक वैल का निर्माण व करीब सात पंप हाउस डीपीआर में शामिल किए गए हैं।

एलजी मनोज सिन्हा ने एनसी-कांग्रेस पर लगाए दोहरा चरित्र अपनाने के आरोप

जम्मू-कश्मीर यूनियन टैरेटरी के स्थापना दिवस पर बहिष्कार का मामला

जम्मू,(ईएमएस)। जम्मू-कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ने नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया है। एलजी ने कहा कि पहले एनसी-कांग्रेस ने संविधान की शपथ ली और अब जम्मू-कश्मीर यूनियन टैरेटरी के 5वें स्थापना दिवस का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि यूनियन टैरेटरी के 5वें स्थापना दिवस पर गुरुवार को श्रीनगर में ऑफिशियल इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने बहिष्कार किया। कांग्रेस और NC ने कहा कि वे जम्मू-कश्मीर को यूनियन टैरेटरी नहीं मानते हैं। जम्मू-कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेटहुड मिलना चाहिए। इसे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दोनों पार्टियों का दोहरा चरित्र बताया है। एलजी ने कहा कि कांग्रेस और एनसी के नेताओं ने जम्मू-कश्मीर यूटी के विधायकों के रूप में संविधान की शपथ ली है। फिर वे ऑफिशियल इवेंट का बहिष्कार कैसे कर सकते हैं। एक तरफ वे शपथ लेकर विधायक बने, दूसरी तरफ आधिकारिक कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। यह इनका दोहरा चरित्र दर्शाता है। दरअसल, 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A हटाते समय जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सरकार ने उस समय ही राज्य के हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दिया था। हालिया राज्य विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने इसे दोहराया था। स्थापना दिवस पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर लंबे समय तक केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा। हम अपना राज्य का दर्जा वापस लेंगे। हम बिजली,सड़क, पानी और रोजगार की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर हमारी पहचान कुछ नहीं है, तो इन विकास कार्यों का कोई मतलब नहीं है।

झोपड़ी में सो रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या

जौनपुर (ईएमएस)। जौनपुर जिले में रामपुर थाना क्षेत्र के पचुरुखी गांव में झोपड़ी में सो रहे 45 वर्षीय रामजीत पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक व्यक्ति रामपुर परियत मार्ग पर गाड़ी धुलाई का कार्य करता था और वहीं झोंपड़ी बनाकर सोता था। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पहुंचा। शव को कब्जे में लेने के दौरान पुलिस और परिजनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पचरुखी गांव निवासी रामजीत पटेल की संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात लोगों ने कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी। बताते हैं कि पति के साथ पत्नी चंद्रावती भी प्रतिदिन सोती थी। दीपावली की रात भी वह पत्नी के साथ सोया था। बीती रात करीब 3 बजे पत्नी उठकर घटनास्थल से 50 मीटर दूर नित्य क्रिया के लिए पुश्तैनी घर चली गई थी। थोड़ी देर बाद जब वह घर वापस आई तो जिस चारपाई पर पति सोया था उसकी कनपटी पर गोली लगी हुई थी और खून निकल रहा था। पत्नी घटना देखकर घबरा गई और वह परिजनों को बताने के लिए वापस घर चली गई। घर से सभी परिजन मौके पर पहुंचे। इसी बीच किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए युवक को रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया।

परिवार का आरोप है कि पुलिस ने युवक को गंभीर बताते हुए जिला अस्पताल लेकर जाने की बात कही थी, लेकिन परिजनों को एक वाहन में बैठकर युवक के शव को मॉर्चुरी हाउस पहुंचा दिया। घटना को लेकर परिजनों में कोहरा मच गया। पुलिस की माने दीपावली के दिन किसी वाहन स्वामी से धुलाई को लेकर कहा सुनी हो गई थी। आशंका है कि इसी बात को लेकर युवक की हत्या की गई है।

आरएसएस प्रमुख की मथुरा में योगी से मुलाकात पिछड़े समुदायों को कुंभ में शामिल कराने की योजना

नई दिल्ली (ईएमएस)। मथुरा में हुई आरएसएस की दो दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक में मोहन भागवन की यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई। सूत्रों की माने तो सीएम योगी एक बार फिर मजबूत होकर उभर रहे हैं। जैसा बहुत से लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। यह मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक न केवल संघ के शीर्ष नेताओं के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू की, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे प्रस्ताव भी रखे जो भविष्य में पूरे भारत और हिंदू समाज पर प्रभाव डालने वाले साबित हो सकते हैं। इतना ही नहीं कुछ मीडिया घरानों के अनुसार आरएसएस ने उन्हें भविष्य भी कहा है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। जिस तरह उन्हें देशभर से प्रचार के लिए बुलाया जाता है यह उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है। इसके साथ ही उनके दिए गए भाषण और उनकी कार्यशैली को देश भर में फॉलो किया जाता है। अब उनकी कार्यशैली पर संघ ने भी मुहर लगा दी है। पर जिस तरह से वो लिंगायत समुदाय और आदिवासी समुदायों को कुंभ में शामिल कराने को लेकर एक्टिव हैं और उनके इस मुद्दे को संघ का सपोर्ट मिल रहा है यह आश्चर्यजनक है। यह संभवतः अपने राज्य से बाहर समुदायों तक पहुंचने का उनका पहला प्रयास है जो पैन इंडिया लीडर बनने के लिए बेहतर कदम है। मीडिय रिपोर्ट के अनुसार आरएसएस ने बताया कि योगी आदित्यनाथ ने उनसे कर्नाटक के प्रमुख ओबीसी समुदाय जैसे लिंगायत और कुछ आदिवासी समुदाय जो अभी तक कुंभ में शामिल नहीं होते, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद करने का अनुरोध किया। यूपी सीएम ने कहा कि इन समुदायों तक पहुंचना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे या तो ऐसे त्योहारों से दूर रहे हैं या उन्हें कभी आमंत्रित नहीं किया गया है। गौरतलब है कि अगले साल प्रयागराज में बड़े पैमाने पर कुंभ मेला आयोजित होने जा रहा है, जिसमें हिंदुओं का बडा वर्ग शामिल होता है।

योगी की 45 मिनट तक बंद कमरे में बैठक

संघ के शीर्ष नेताओं के साथ 45 मिनट की बंद कमरे में हुई। बैठक के दौरान आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर विस्तार से बात की। यूपी सीएम की बातों से सहमत एक वरिष्ठ आरएसएस पदाधिकारी ने कहा, यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आरएसएस भी काम कर रहा है। कर्नाटक के लिंगायत, महाराष्ट्र के कारवी और केरल में कुछ संप्रदायों ने कुंभ से दूरी बनाए रखी है। पहले उन्हें साथ लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। हम इस पर काम कर रहे हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय भी पहले कुंभ से दूर रहता था जिसे पिछले कुंभ में बुलाया गया और वे शामिल भी हुए। आरएसएस के वरिष्ठ नेता ने उन्हें भविष्य कहते हुए कहा कि योगी जी संघ से नहीं हैं, लेकिन वे राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, जो भी हमारी विचारधारा साझा करता है, वह हमारा है। पूरा देश उन्हें हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में स्वीकार करता है, वह विचारधारा का भविष्य उनमें देखता है। आदित्यनाथ की राजनीतिक यात्रा में आरएसएस के संस्थागत ढांचे का कोई रोल नहीं रहा है। कॉलेज के दिनों में कुछ दिन एबीवीपी से जुड़े रहने के अलावा, वह हिंदू महासभा की वैचारिक परंपरा से जरूर संबद्ध रहे हैं। आरएसएस और हिंदू महासभा के पारंपरिक रूप से भिन्न विचार रहे हैं, जबकि दोनों ही हिंदुत्व की विचारधारा से संबंधित रहे हैं। हिंदुत्व के मुद्दों पर उनकी आक्रामकता और कानून को पालन कराने वाली उनकी सख्त छवि जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एनकाउंटर पॉलिसी और बुलडोजर को हथियार बनाने आदि के चलते उन्हें आरएसएस का प्रिय बना दिया।

संपादकीय

कोयलांचल संवाद

भारतीय नीति की छाया का पीछा करता पाकिस्तान

यह तो सही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान भौगोलिक तौर पर ही नहीं बल्कि अचार-विचार, खान-पान और रहन-सहन के लिहाज से भी एक-दूसरे से जुड़ते हैं। बस फर्क जो है वो यह कि पाकिस्तान नफरतों के धरातल पर खड़ा हुआ, जबकि भारत अहिंसा के साथ ही शांति-सद्भाव, प्रेम, सहिष्णुता, भाईचारा और विश्वबंन्धुत्व के सिद्धांतों पर बना है। यहां सदा से ही लोकतंत्र के वृक्ष को सींचा गया, जबकि पाकिस्तान में समय-समय पर सेना ने इसे बूटों के तले कुचलने से भी परहेज नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान में आतंकवादियों का पालन-पोषण आसानी से होता रहा, जबकि आतंकवाद के खिलाफ हिन्दुस्तान लगातार संघर्ष करता रहा है। बावजूद इसके अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पाकिस्तान भारतीय आत्मनिर्भरता की नीति की छाया का पीछा कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने हाल ही में थाईलैंड के साथ एक महत्वपूर्ण आर्म्स डील की है, जिसमें बख्तरबंद वाहनों की आपूर्ति भी शामिल है। यह सौदा पाकिस्तान की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने का एक प्रयास है। अब चूंकि भारत आजादी के बाद से ही आत्मनिर्भरता की नीति को अपनाए हुए है और जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने रक्षा क्षेत्र को सशक्त करने के लिए कई अहम फैसले लिए और सार्थक कदम भी बढ़ाए हैं। ऐसे ही फैसलों में जहां विदेशी हथियारों की खरीद है तो वहीं स्वदेशी हथियारों के निर्माण की क्षमता को बढ़ाने के सफल कदम भी शामिल है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की सेना ने थाईलैंड की डिफेंस इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड के साथ इस डील पर हस्ताक्षर किए हैं। यहां बताते चलें कि यह डील 18 सितंबर को इस्लामाबाद में हुई थी, जिसे गोपनीय रखा गया, जिससे इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को मिली थी। अब बताया जा रहा है कि इस समझौते के तहत, टीडीआई बख्तरबंद वाहनों की आपूर्ति पाकिस्तान की रक्षा कंपनी हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सिला को करेगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के प्रावधान ने इस डील को और महत्वपूर्ण बना दिया है, जिससे एचआईटी को आधुनिक बख्तरबंद वाहनों का उत्पादन करने में मदद भी मिलेगी। मौजूदा वक्त में दुनिया के जिस तरह के हालात बन गए हैं, उसमें पाकिस्तान का यह कदम बहुत मायने रखता है। इस नई डील के साथ, पाकिस्तान अपने रक्षा उद्योग को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जिससे रक्षा क्षेत्र में उसे महत्वपूर्ण शक्ति बनने की दिशा में बेहतर कदम साबित हो सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का यह कदम भारत के लिए चेतावनी भी हो सकती है। दरअसल हाल के वर्षों में, पाकिस्तान ने अपने रक्षा उद्योग को बढ़ाने के लिए अनेक देशों के साथ सहयोग बढ़ाया है, जिससे उसकी सैन्य क्षमताएं और भी विकसित हो रही हैं। पाकिस्तान की इस आर्म्स डील के संदर्भ में, यह स्पष्ट हो गया है कि दक्षिण एशिया में सुरक्षा का माहौल और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होता जा रहा है। यह डील न केवल पाकिस्तान के लिए एक नई दिशा प्रदान करती है। पाकिस्तान की इस डील से चिंता की बात इसलिए नहीं है, क्योंकि भारत ने पिछले चार दशकों में अपने रक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए कई पहल किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारत आयातक से आगे बढ़ा है और अब भारत का रक्षा निर्यात कई गुना बढ़ गया है। इस प्रकार भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं, जिसकी देखा-देखी पाकिस्तान भी इस राह पर चलने का प्रयास करता नजर आ रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि भारत की वैश्विक रक्षा क्षमताएं काफी मजबूत हुई हैं। इसके विपरीत, पाकिस्तान अपनी सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए थाईलैंड जैसे देशों के साथ समझौतों की ओर बढ़ रहा है। इस प्रतियोगिता बढ़ेगी और संतुलन बनाने के लिए आत्मनिर्भरता नीति को और ज्यादा प्रभावी बनाने पर कार्य भी करना होगा। भारत को अपने रक्षा क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता पहले भी थी और अब कुछ ज्यादा हो गई है। सीमाओं की रक्षा के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए भी यह जरुरी हो गया है।

मिलावटखोरों को फांसी की सजा से रुकेगी मिलावटखोरी

नरेंद्र भारती

आजकल त्योहारों का सीजन जोरों पर है। मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटखोर बेखौफ होकर नकली मिठाई बेच रहे हैं प्रशासन मिलावट करने वालो पर शिकंजा कस रहा है ।देश में नकली व मिलावटी मिठाईया बिक रही हैं और लाखों क्विंटल मिठाईयां बन रही है और बाजारों में पहुंच रही हैं। मिठाईयों की गुणवत्ता परखी जा रही है और बड़े पैमाने पर मिलावट भरी मिठाईयां जब्त की जा रही हैं ।मिलावटखोरो कुछ तो रहम कीजिये मानव के स्वास्थय से खिलवाड़ मत कीजिये ।त्यौहारी सीजन दिवाली, भैया दूज, धनतेरस में मिलावटखोर मुनाफा कमाने के चक्कर में घटिया किस्म की मिठाईयां बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं । पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, में नकली मिठाई पकड़ी जा रही है ।प्रतिदिन प्रशासन छापेमारी कर रहा है और मिलावट करने वालों पर शिकंजा कसा रहा है लेकिन यह मिलावट करने वाले सुधर नहीं रहे हैं । प्रतिदिन लोग पकड़े जा रहे हैं और नकली उत्पादों सें बनी नकली मिठाई नस्ट की जा रही है । मिठाईयों में कॉकरोच मिल रहे हैं तो कहीं और जीव जंतु मिल रहे हैं । मिठाईयों में रंग मिलाया जा रहा है । ऐसी जहर बनाने वाले उद्योगों पर कार्रवाई करनी चाहिए इनके लाइसेंस रद्द करने चाहिए । देश में जहरयुक्त मिठाई बेचीं जा रही है । कैसी विडंबना है की मिलावट करने वाले किसी की जान लेने से भी नहीं डरते हैं और खुलेआम उल्लंघ्न कर रहे हैं । त्यौहारी सीजन में नकली दूध, पनीर, मावा से मिठाईयां बनाई जा रही हैं । मिलावट का यह धंधा खूब फलफुल रहा है ।खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में सजा व जुर्माना दोनों का प्रावधान है । वही आई पी सी की धारा 272 एवं 273 के अंतर्गत पुलिस प्रशासन को सीधे कार्रवाई की छूट है । नकली दूध बेचा जा रहा है जिससे लाईलाज बीमारिया हो रही हैं लोग कैंसर से ग्रस्त हो रहे हैं । मिलावट करने वाले चंद चांदी के सिक्कों के लिए यमराज बन गए हैं । प्रतिवर्ष पता नहीं कितने लोग इन मिलावटखोरों की वजह से मारे जा रहे हैं । ऐसे लोगों को सजा ए मौत देनी चाहिए जो लालच में मौत बाँट रहे हैं । नकली दूध से नवजात बच्चे बीमार हो रहे हैं और मारे जा रहे हैं । आखिर इंसान किस ओर जा रहा है जो इंसानों की जान ले रहा है । ऐसे लोगों को फांसी की सजा देनी चाहिए ताकि फिर कोई ऐसा जुर्म न कर सके । प्रशासन अगर सक्रिय रहे तो लोगो की जान बच सके । यह बहुत ही घिनौना जुर्म है । ऐसे लोगों को हवालातों में डाला जाये और उम्रकेद की सजा दी जाये । काल कोठरी में डाला जाये ताकि तिल तिल मर सके और मौत की भीख मांगे और ताउम्र अपने कर्मो को भुगत सके । खाद्य विभाग को जागरूकता शिविर लगाने चाहिए तथा समाज के लोगों को इन मिलावट करने वालों की मिठाई का बहिस्कार करना चाहिए ।यह देश हित में है । देश में हर वर्ष लाखों क्विटंल मिलावटी मिठाई पकड़ी जाती है जिसे खाद्य विभाग के अधिकारी नस्ट कर देते हैं। मिलावट के मुख्य सरगनाओं को सार्वजनिक स्थानो पर सजा देनी चाहिए खाद्य मंत्रालय को अपना अभियान पूरा वर्ष जारी रखना चाहिए ताकि इन पर शिकंजा कसा रहे और मिलावट का यह काला धंधा पूरी तरह खत्म हो सके।ताकि गैर कानूनी कारोबार करने वाले लोग बेनकाब हो सकें।खाद्य विभाग की सक्रियता से इन मिलावटखोर माफिया के लोगों को पकडना होगा तभी इस पर पूर्ण रोक लग सकती हैं। समाज के लोगों को भी इस अभियान में सहयोग करना होगा ताकि इन मिलावट के माफियों का साम्राज्य खत्म किया जा सके ।अभी समय है फिर पछतानें कि सिवाय कुछ नहीं होगा।मिलावट माफिया का सफाया करना होगा ताकि विश्व गुरु की साख पर दाग न लग सके।देश में फैलते मिलावट माफिया के लोगों के इस जाल को काटना समय की पुकार है यदि लोगों ने कोई कदम न उठाए तो भारत में चरस माफिया की जडें इतनी फैल जाएगी कि इन्हे काटना बेहद मुशिकल हो जाएगा। अगर अब भी लापरवाही बरती तो यह कारोबार निर्बाध चलता रहेगा ।मिलावट करने वालों नागों का फन कुचलना होगा। ऐसे आपरेशन होते रहने चाहिए । मिलावखोरों पर सर्जिकल स्ट्राइक की जानी चाहिए तभी इस पर पूर्ण रोक लग सकती है ।

गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण के लिए तैयार होते है 56 प्रकार के भोग!

डॉ श्रीगोपाल नारसन

दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 प्रकार के भोग तैयार किए जाते हैं, क्योंकि 7 दिन तक भगवान श्रीकृष्ण ने पर्वत अपनी उंगली पर उठाये रखा था और वह कुछ भी खा नहीं पाए थे।इसी लिए उनके भोजन के रूप में अन्नकूट की परंपरा शुरू हुई। माना जाता है , मां यशोदा श्री कृष्ण को एक दिन में आठ पहर भोजन कराती थीं।इसी कारण जब सातवें दिन के अंत में भगवान श्रीकृष्ण ने पर्वत धरा पर रखा तो गांव वालों ने उन्हें हर दिन के आठ पहर के हिसाब से 56 व्यंजन बना कर खिलाये थे। उसी दिन से अन्नकूट की परम्परा शुरु हुई और इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बना कर श्री कृष्ण और गोवर्धन पूजा की जाने लगी।एक लोककथा के मुताबिक पुलस्त्य ऋषि द्वारा गोवर्धन पर्वत को एक श्राप मिला हुआ है, जिसके कारण गोवर्धन पर्वत का आकार प्रतिदिन कम होता जा रहा हैं।प्राचीन समय में तीर्थयात्रा करते हुए पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे, तो पर्वत की सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए, उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए, मैं उसे काशी में स्थापित कर वहीं रहकर पूजन करुंगा। द्रोणाचल यह सुनकर दुखी हो गए लेकिन गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं लेकिन मेरी एक शर्त है। आप मुझे जहां रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा।

पुलस्त्य ने गोवर्धन की यह बात मान ली। फिर गोवर्धन ने ऋषि से कहा कि मैं दो योजन ऊंचा और पांच योजन चौड़ा हूं। आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे? तब पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि मैं अपने तपोबल से तुम्हें अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। तब गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चलने के लिए सहमत हो गए।

रास्ते में ब्रज आया, उसे देखकर गोवर्धन सोचने लगे कि भगवान श्रीकृष्ण-राधा जी के साथ यहां आकर बाल्यकाल और किशोर काल की बहुत सी लीलाएं करेंगे। तब उनके मन में यह विचार आया कि वह यहीं रूक जाएं। यह सोचकर गोवर्धन पर्वत पुलस्त्य ऋषि के हाथों में और अधिक भारी हो गया।

जिससे ऋषि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई।ऋषि गोवर्धन पर्वत को ब्रज में रखकर विश्राम करने लगे। ऋषि ये बात भूल गए थे कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं रखना नहीं था, कुछ देर बाद ऋषि पर्वत को फिर से उठाने लगे लेकिन गोवर्धन ने कहा कि ऋषिवर अब मैं यहां से कहीं नहीं जा सकता।मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझे जहां रख देंगे, मैं वहीं स्थापित हो जाउंगा। तब पुलस्त्य उसे ले जाने की हठ करने लगे, लेकिन गोवर्धन वहां से नहीं हिले।तब ऋषि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया. इसलिए आज से प्रतिदिन तिल-तिल कर तुम्हारा क्षरण होता जाएगा। फिर एक दिन तुम धरती में समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तिल-तिल करके धरती में समा रहा है। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने ।। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।। यह मंत्र है श्री गोवर्धन पूजा का।गोवर्धन पूजा के दिन

सुबह स्नान करने के बाद गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उसे फूलों से सजाना चाहिए। गोवर्धन पर्वत के पास ग्वाल- बाल की आकृति बनाकर उसके पास ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखनी चाहिए। गोवर्धन पूजा के समय भगवान श्रीकृष्ण को धूप ,दीप से आरती करें और उन्हें अन्नकूट का भोग लगाएं। गोवर्धन पूजा को लेकर वृंदावन, मथुरा, बरसाना, गोकुल के लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है।इस पर्व का प्रकृति के साथ सीधा सम्बन्ध है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों मे गंगा है। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। गौ सम्पूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोर्वधन की पूजा की जाती है ।गोवर्धन पूजा पर, भगवान कृष्ण को गेहूं, चावल, बेसन से बनी सब्जी और पत्तेदार सब्जियों का भोग लगाया जाता है। दही, दूध, शहद, चीनी, मेवा और तुलसी से बना पंचामृत भगवान कृष्ण को चढ़ाया जाता है कई प्रकार की सब्जियों से तैयार अन्नकूट सब्जी भी भगवान कृष्ण के लिए बनाई जाती है।

बंटेंगे तो कटेंगे कोई नारा नहीं, सच्चाई है

ललित गर्ग

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह एवं महासचिव श्री दत्तात्रेय होसबोले ने हिंदू समुदाय को जाति और विचारधारा के आधार पर विभाजित करने के प्रयासों के खिलाफ लोगों को आगाह करते हुए समाज और लोक कल्याण के लिए 'हिंदू एकता' के महत्व पर भी जोर दिया है। अपने को बचाये रखने एवं दूसरों के मंगल के लिये हिन्दू एकता वर्तमान की बड़ी अपेक्षा है, इसलिये उन्होंने अपना विस्तृत दृष्टिकोण पेश करते हुए न केवल हिन्दू शब्द का विरोध करने वालों पर करारा प्रहार किया है, बल्कि देश में अराजकता का माहौल पैदा करने वाले मुस्लिम संगठनों पर भी सीधी चोट की है। विशेषतः नफरती एवं विघटनकारी सोच के लिये राहुल गांधी पर भी कड़ा प्रहार किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'बंटोगे तो कटोगे' बयान का समर्थन करते हुए कहा कि वर्तमान हालात में हिन्दू एकता बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि कई जगहों पर धर्मांतरण की घटनाएं हो रही हैं। गणेश पूजा और दुर्गा पूजा के दौरान कुछ स्थानों पर हिन्दुओं पर हमले हुए हैं। बांग्लादेश में हिन्दुओं पर तरह-तरह के अत्याचार हो रहे हैं। हिन्दुओं पर लगातार हो रहे हमलों एवं उन्हें विभाजित किये जाने की साजिशों को नियंत्रित करने के लिये हिन्दू को संगठित होना ही चाहिए। दत्तात्रेय ने जहां हिन्दुओं को जगाया वहीं राजनीतिक दलों की नींद उड़ा दी, विपक्ष विशेषतः कांग्रेस की हिन्दू विरोधी सोच का पर्दापाश किया।

श्री होसबोले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में हिन्दू समाज को जाति, भाषा एवं प्रांत के भेद में बांटने के विपक्षी दलों के प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि हम बंटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे, इसलिये हिन्दू समाज में एकता आवश्यक है।' उन्होंने इसे जीवन मंत्र जैसा बताया। दिया। उन्होंने देश के सामने कुछ ऐसी बड़ी चुनौतियों को भी रेखांकित किया, जिसे लेकर राजनीतिक दलों एवं साम्प्रदायिक संगठनों की भृकुटि कुछ तन गई है। मथुरा स्थित गऊ ग्राम परखम के दीनदयाल उपाध्याय गौ विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र में आयोजित 25 और 26 अक्टूबर 2024 की इस बैठक में संघ के सभी 46 प्रांतों के प्रांत एवं सह प्रांत संघचालक, कार्यवाह तथा प्रचारकों ने हिस्सा लिया। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान एक रैली में हिंदुओं को जातियों में बांटने की विपक्षी दलों की रणनीति के प्रति आगाह करते हुए कहा था कि विपक्ष चाहता है कि मुसलमान एकजुट होकर ताकतवर और हिंदू जातियों में विभाजित होकर कमजोर बने रहें। योगी आदित्यनाथ ने पड़ोसी देश में मुसलमानों के हाथों बेगुनाह हिंदुओं के मारे जाने का हवाला देकर कहा था कि बंटेंगे तो कटेंगे। इस बयान की विपक्ष ने कड़ी आलोचना की, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अलग-अलग तरह से इस संदेश को आगे बढ़ाया है। इसी कड़ी में सरकार्यवाह होसबाले हिन्दू एकता एवं संगठन की आवश्यकता व्यक्त की। सरकार्यवाह होसबोले एक सक्रिय, साहसी, चिन्तनशील, राष्ट्रयोद्धा, समाजसुधारक और बदलाव लाने वाले संघ नेता हैं। वे देशहित में अच्छी रचनात्मक एवं सृजनात्मक बातें करते हैं, बदलाव चाहते हैं, राष्ट्र को तोड़ना नहीं जोड़ना चाहते हैं, अच्छी बात यह भी है कि संघ एक जागरूक संगठन है और हर समस्या पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। हर व्यक्ति के दिमाग में एक समस्या है और हर व्यक्ति के दिमाग में एक समाधान है। एक समस्या को सब अपनी समस्या समझे और एक का समाधान सबके काम आए। समाधान के अभाव में बढ़ती हुई समस्या संक्रामक बीमारी का रूप न ले सके, इस दृष्टि से आज का समाधान आज प्रस्तुत करने के लिए आरएसएस निरन्तर जागरूक रहता है। इसीलिये हिन्दू एकता के लिये व्यापक प्रयत्नों की अपेक्षा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों की परेशानियों को लेकर भारत सरकार ने कदम उठाए हैं। दुनिया में कहीं भी किसी भी हिंदू को अगर कोई परेशानी होती है तो वह मदद के लिए भारत की तरफ ही देखता है। देश एवं दुनिया में हिन्दुओं से जुड़ी परेशानियों एवं समाधान की दृष्टि से एक सशक्त वातावरण बनना अपेक्षित है। होसबाले ने ऐसी ही जटिल होती समस्याओं में लव जिहाद का मुद्दा भी उठाया और कहा कि लव जिहाद से समाज में समस्या हो रही है। उन्होंने कहा, 'लड़कियों को लव जिहाद के प्रति जागरूक करें। हमारे समाज की बहन-बेटियों को बचाना हमारा काम है।' उन्होंने दावा किया कि केरल में 200 लड़कियों को लव जिहाद से बचाया गया है। ध्यान रहे कि अभी राजधानी दिल्ली के नांगलोई इलाके में मुस्लिम लड़के सलीम ने खुद को संजू बताकर हिंदू लड़की सोनिया को प्यार के जाल में फंसाया। सलीम ने सोनिया के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसे गर्भवती कर दिया। सोनिया ने जब शादी दबाव बनाया तो सलीम ने दो दोस्तों के साथ उसकी हत्या कर दी और शव को हरियाणा में अपने ननिहाल के गांव में एक खेत में गाड़ दिया।

निश्चित रूप से बंटेंगे तो कटेंगे कोई नारा नहीं बल्कि सदियों की सच्चाई है। जब-जब हिन्दू कमजोर हुआ है, तब तब उस पर अत्याचार बढ़े हैं, उनका सफाया कर दिया गया है। कश्मीर में हिंदुओं ने ताकत नहीं दिखाई तो उनका नरसंहार हुआ। लाहौर की 75 प्रतिशत आबादी हिंदुओं और सिखों की थी, कराची में हिंदू, सिंधी और हिंदू पंजाबी जनसंख्या के दो तिहाई थे, काबुल में 1950 तक एक तिहाई हिंदू-सिख थे, रंगून में एक तिहाई आबादी हिंदुओं की थी, सभी जगहों पर आज हिंदुओं-सिखों का सफाया हो गया। इसीलिये सरकार्यवाह होसबोले की दृष्टि में बंटने के प्रति सचेत करने का मतलब अनेकता में एकता का मंत्र है। हम जाति, वर्ग में भले अनेक हों, लेकिन इस आधार पर हम बंटे नहीं बल्कि एकजुट रहें। बांग्लादेश के संदर्भ में भारत सरकार ने वहां हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। संघ ने उस समय भी कहा था कि हिंदू समुदाय को वहीं रहना चाहिए और पलायन नहीं करना चाहिए। संघ की नजरों में धर्मांतरण और हिन्दुओं को विभाजित करने से हिन्दू जनसंख्या का संतुलन बिगड़ा है और वे अल्पसंख्यक होते गये हैं। इस मायने में होसबोले का उद्बोधन कोई स्वप्न नहीं, जो कभी पूरा नहीं होता। यह तो हिन्दुओं को सशक्त एवं विकसित बनाने के लिए ताजी हवा की खिड़की है। यह सामाजिक समरसता का भी जीवनमंत्र है। संघ इस संवाद को कायम रखेगा क्योंकि समाज को तोड़ने के लिए बहुत सी कोशिशें हो रही हैं, विपक्षी दल अपने राजनीतिक हितों के लिये हिन्दू समुदाय को तोड़ने एवं विभाजित करने के लिये तरह-तरह के षडयंत्र कर रहे हैं। एक बार फिर संघ ने राजनीति से परे जाकर देश को जोड़ने, सशक्त बनाने एवं नया भारत निर्मित करने का सन्देश दिया है और इस सन्देश को जिस तरह आकार दिया जाना है, उसका दिशा-निर्देश भी दिया गया है। आरएसएस महासचिव ने कहा, महात्मा गांधी ने भी स्वराज्य का मंत्र दिया था। 'स्व' का मतलब है 'स्वाधीनता', राष्ट्रीय स्वत्व।

गोवर्धन के दिन होती है गौ धन की पूजा

रमेश सर्राफ धमोरा

02 नवम्बर पर विशेष

गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। इनका बछड़ा खेतों में हल जोतकर अनाज उगाता है। इस तरह गौ सम्पूर्ण मानव जाती के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोर्वधन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की। दीपावली के दूसरे दिन सायंकाल गोवर्धन पूजा का विशेष आयोजन होता है। इस दिन प्रातः गाय के गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में गोवर्धन बनाया जाता है। अनेक स्थानों पर इसके मनुष्याकार बनाकर पुष्पों, लताओं आदि से सजाया जाता है। इनकी नाभि के स्थान पर एक कटोरी या मिट्टी का दीपक रख दिया जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगाजल, शहद, बताशे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। शाम को गोवर्धन की पूजा की जाती है। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, जल, फल, फूल, खील, बताशे आदि का प्रयोग किया जाता है। पूजा के बाद गोवर्धनजी की जय बोलते हुए उनकी सात परिक्रमाएं लगाई जाती हैं। परिक्रमा के समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा व अन्य जौ लेकर चलते हैं। जल के लोटे वाला व्यक्ति पानी की धारा गिराता हुआ तथा अन्य जौ बोते हुए परिक्रमा पूरी करते हैं। गोवर्धन पूजा हिन्दुओं का एक प्रमुख त्योहार है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोककथा है। इस त्यौहार का भारतीय लोकजीवन में काफी महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा सम्बन्ध दिखाई देता है। भगवान श्रीकृष्ण ने आज ही के दिन इन्द्र का मानमर्दन कर गिरिराज पूजन किया था। कबीर दास जी कहते हैः

कबीर गोवर्धन कृष्ण जी उठाया, द्रोणागिरि हनुमंत। शेष नाग सब सृष्टी उठाई, इनमें को भगवंत।। इस दिन मन्दिरों में अन्नकूट किया जाता है। अन्नकूट एक प्रकार से सामूहिक भोज का आयोजन है जिसमें पूरा परिवार एक जगह बनाई गई रसोई से भोजन करता है। इस दिन चावल, बाजरा, कढ़ी, साबुत मूंग सभी सब्जियां एक जगह मिलाकर बनाई जाती हैं। मंदिरों में भी अन्नकूट बनाकर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। सायंकाल गोबर के गोवर्धन बनाकर पूजा की जाती है। अन्नकूट में चंद्र-दर्शन अशुभ माना जाता है। यदि प्रतिपदा में द्वितीया हो तो अन्नकूट अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन सन्ध्या के समय दैत्यराज बलि का पूजन भी किया जाता है। गोवर्धन गिरि भगवान के रूप में माने जाते हैं और इस दिन उनकी पूजा अपने घर में करने से धन, धान्य, संतान और गोरस की वृद्धि होती है। आज का दिन तीन उत्सवों का संगम होता है। इस दिन दस्तकार और कल-कारखानों में कार्य करने वाले कारीगर भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी करते हैं। इस दिन सभी कल-कारखाने तो पूर्णतः बंद रहते हैं। घर पर कुटीर उद्योग चलाने वाले कारीगर भी काम नहीं करते। भगवान विश्वकर्मा और मशीनों का दोपहर के समय पूजन किया जाता है। वेदों में इस दिन वरुण, इन्द्र, अग्नि आदि देवताओं की पूजा का विधान है। इसी दिन

बलि पूजा, गोवर्धन पूजा होती हैं। इस दिन गाय-बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर, फूल माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारी जाती है। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारम्भ हुई। उस समय लोग इन्द्र भगवान की पूजा करते थे तथा छप्पन प्रकार के भोजन बनाकर तरह-तरह के पकवान व मिठाइयों का भोग लगाया जाता था। महाराष्ट्र में यह दिन बालि प्रतिपदा या बालि पड़वा के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु के एक अवतार वामन की राजा बलि पर विजय और बाद में राजा बलि को पाताल लोक भेजने के कारण इस दिन उनका पुण्य स्मरण किया जाता है। माना जाता है कि भगवान वामन द्वारा दिए गए वरदान के कारण असुर राजा बलि इस दिन पातल लोक से पृथ्वी लोक आता है। अधिकतर गोवर्धन पूजा का दिन गुजराती नव वर्ष के दिन के साथ मिल जाता है जो कि कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष के दौरान मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा उत्सव गुजराती नव वर्ष के एक दिन पहले मनाया जा सकता है और यह प्रतिपदा तिथि के प्रारम्भ होने के समय पर निर्भर करता है। गोवर्धन पूजा के सम्बन्ध में एक लोकगाथा प्रचलित है कि देवराज इन्द्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। एक दिन उन्होंने देखा के सभी बृजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे। श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से प्रश्न किया कि आप लोग किन की पूजा की तैयारी कर रहे हैं । कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा मैया बोली हम देवराज इन्द्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले मैया हम इन्द्र की पूजा क्यों करते हैं? यशोदा ने कहा वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की पैदावार होती है। उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले हमें तो गोर्वधन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाये तो वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोर्वधन पर्वत ही पूजनीय है और इन्द्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते व पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण के कहने पर सभी ने इन्द्र के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इन्द्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी बृजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इन्द्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए फलतः वर्षा और तेज हो गयी। इन्द्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियत्रित करें और शेषनाग से कहा आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इन्द्र लगातार सात दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे तब उन्हे एहसास हुआ कि उनका मुकाबला करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता।

अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृतान्त कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इन्द्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इन्द्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं आपको पहचान न सका। इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इन्द्र ने श्री कृष्ण की पूजा कर उन्हें भोग लगाया।

सातवें दिन श्रीकृष्ण ने गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह पर्व अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। इस दिन देश के बहुत से प्रदेशों में लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है। उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है।

संक्षिप्त ख़बरें

घर के बंद कमरे से युवती का शव बरामद, पुलिस जांच जारी

दुमकाःहंसडीहा थाना क्षेत्र के हंसडीहा बाजार स्थित एक घर के बंद कमरे से हंसडीहा पुलिस ने शुक्रवार की सुबह करीब 9 बजे एक युवती का शव बरामद किया है।शव के पास मिले आधार कार्ड के अनुसार मृतक युवती की पहचान 19 वर्षीय सोनी कुमारी के रूप में हुई है।घटना की सूचना मिलते ही हंसडीहा थाना की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया।घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार मृतका का शव बंद कमरे के अंदर बेड पर पड़ा हुआ था.अशंका जतायी जा रही है कि कमरे के छत में लगे पंखे से फांसी लगाकर युवती ने जान दी है.मृतका के गले में फांसी लगाई जाने का निशान मिला है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जिस कमरे के अंदर मृतका का शव बरामद किया गया है वह कमरा बाहर से बंद पाया गया था। यहां एक सवाल यह भी है की बंद कमरे के अंदर मृतका का शव है इसकी जानकारी आखिर किसे थी और कैसे थी। समाचार लिखे जाने तक पुलिस सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच पड़ताल कर रही थी।

गांव में काली पूजा की धूम, राजपूत परिवार 250 वर्षों से कर रहा है पूजा का आयोजन

दुमकाःरानीश्वर प्रखंड के कुमिरखाला गांव स्थित प्राचीन काली पूजा मंडप में काली पूजा को लेकर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी। गुरुवार को यहां देर रात मूर्ति स्थापित कर राजपूत परिवार के पुरोहित चंद्र मोहन भट्टाचार्य एवं प्रदीप भट्टाचार्य ने विधि विधान से पूजा की। बताते चलें कि यहां दो पाषाण काली की पूजा होती हैं। राजपूत परिवार द्वारा 250 साल से आयोजित प्राचीन काली पूजा में दूर दूर से लोग आकर प्रतिमा का दर्शन करते हैं। भातृ द्वितीया के दिन प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा।

लतबेधा गांव के निकट से पेड़ से लटकती लाश बरामद

दुमकाःशिकारीपाड़ा पुलिस ने बुधवार की देर शाम थाना क्षेत्र के लतबेधा गांव के निकट से पेड़ से लटकती लाश बरामद की थी. मृतक की पहचान राज बांध के पंचानन केवट के रूप में हुई थी। मृतक की पत्नी ममता देवी के बयान पर शिकारीपाड़ा पुलिस जमीन विवाद को लेकर पांच व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद हत्या का मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान कार्य में जुट गई है। मृतका की पत्नी ममता देवी ने शिकारीपाड़ा थाना में पंचानन केवट के मंगलवार से लापता होने का सनहा बुधवार को दर्ज कराया था। ममता देवी का आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर राजबांध गांव के ही कारू केवट, गणेश केवट, राजेश केवट, निहार केवट एवं रमेश केवट धमकी देते थे कि तुमको मार कर खत्म कर देंगे . मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हीं लोगों द्वारा मेरे पति की हत्या कर शव को पेड़ में लटकाकर आत्महत्या का स्वरूप दिया गया है। शिकारीपाड़ा पुलिस सभी पांचो व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद मामला दर्ज करते हुए जांच कार्य में जुट गई है।

विधानसभा चुनाव को लेकर अंचलाधिकारी ने चौकीदारों को दिलायी मतदाता शपथ

दुमकाःविधानसभा आम चुनाव 2024 में शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कराने एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने को लेकर अंचल अधिकारी शादां नुसरत ने शुक्रवार को चौकीदारों के साथ बैठक कर कई आवश्यक सुझाव दिए. साथ ही अंचलाधिकारी ने सभी चौकीदारो को मतदाता शपथ दिलायी। मौके पर अंचल नाजिर बिश्वजीत दत्त, हरिसाधन दत्त ,प्रमोद कुमार संकल्प समारोह में मौजूद थे.

धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव पर्व दीपावली

दुमकाःजामा प्रखंड क्षेत्र में दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर लोगो द्वारा दीपावली से पूर्व ही घरों की साफ सफाई व रंगाई की गई। गुरुवार को लक्ष्मी पूजा के साथ ही दीपावली प्रारंभ हो गई। संध्या के समय घरों में दीपोत्सव मनाया गया। हालांकि लक्ष्मी पूजा के साथ साथ । अधिकांश जगहों पर काली पूजा भी की गई।दीपावली के रात लोगो ने अपने अपने घरों व दुकानों में दीप प्रज्वलित किया,लक्ष्मी पूजन कराया और मिठाइयां बांटी। लक्ष्मीपुर जामा आदि अन्य जगहों पर स्वच्छ पर्यावरण को लेकर बच्चो ने ग्रीन पटाखे जलाए और खुशियां मनायी।रात को बच्चो की खुशी देखते ही बनती थी। दीपोत्सव की रात भोर में ग्रामीण क्षेत्रों में दरिद्र को घर से बाहर निकालने और पका हुआ धान की बाली को घर लाने की परम्परा चली आ रही है। इसलिए शुक्रवार सुबह को दरिद्र भगाया गया इसके उपरांत शाम को गोवर्धन की गई।हालांकि अमावस्या दो दिन होने के कारण गोवर्धन पूजा में भी लोगो को दुविधा हो गई है कहीं कहीं शनिवार को भी मनायी जाएगी।

विधानसभा निर्वाचन को लेकर मतदाता जागरूकता शिविर का आयोजन

दुमकाःजिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त दुमका के आदेशानुसार शुक्रवार को पंचायत भवन कुमिरदहा में विधानसभा निर्वाचन 2024 को लेकर मतदाता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अवसर पर शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने एवं निष्पक्ष होकर मतदान करने हेतु मतदाता शपथ दिलायी गयी। शिविर में मतदाताओं को आगामी 20 नवंबर को मतदान केंद्र पंहुच कर शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने की अपील की गई। सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सह बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा के अगुआई में आयोजित शिविर में मतदाताओ को प्रलोभन मुक्त होकर मतदान कर लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन करने के लिए प्रेरित किया गया। विदित हो कि प्रखंड स्तर पर स्वीप के तहत शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा हैं। पंचयात भवन में आयोजित शिविर में बीएलओ , मुकुला मंडल मुखिया खुदीराम मोहली ,पंचयात सचिव प्रीति कुमारी के साथ ग्रामीण मतदाता मौजूद थे.

सामान्य एवं व्यय प्रेक्षक ने प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कराया निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन से अवगत

दुमकाःविधानसभा आम चुनाव 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने हेतु शुक्रवार को सामान्य प्रेक्षक एवं व्यय प्रेक्षक ने समाहरणालय सभागार में प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन से अवगत कराया। सामान्य प्रेक्षक ने बैठक में उपस्थित सभी प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधि को कैंडिडेट हैंडबुक अच्छे से पढ़ने एवं दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन की बात कही। उन्होने बताया कि प्रचार संबंधित गतिविधियों जैसे रैली, हैलिपैड, सभा आदि के लिए सिंगल विडों सिस्टम से समयबद्ध रूप से अनुमति प्रदान की जा रही है, बिना अनुमति प्रचार-प्रसार नहीं करें। साथ ही मतदाताओं को उपहार या किसी अन्य तरीके से दबाव या प्रलोभन नहीं दें जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता हो। आदर्श आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक दल, प्रत्याशी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं इसपर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया।व्यय प्रेक्षक ने चुनाव व्यय से संबंधित निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के संबंध में बताया। राजनीतिक दलों के प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधियों को प्रचार-प्रसार, पब्लिक मीटिंग्स, स्टार कैंपेनर, रैली, मनी ट्रांसफर, प्रचार प्रसार सामग्री के व्यय लेखा संधारण के संबंध में जानकारी दी । सीविजिल एप एवं सुविधा पोर्टल से संबंधित विस्तृत जानकारी भी बैठक में दी गयी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन

दुमकाःविधानसभा आम निर्वाचन 2024 के निमित जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र (07-शिकारीपाड़ा, 10-दुमका, 11-जामा, 12-जरमुंडी) में दिनांक-20.11.2024 को मतदान किया जाना है। दिनांक-22.10.2024 से 29.10.2024 तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की तिथि निर्धारित थी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने एक-एक कर सभी चार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की जानकारी दी।

सांसद ने जिप अध्यक्ष संग किया काठीकुंड के शिवतला में झामुमो के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन

झामुमो बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों को साथ लेकर हमेशा आगे बढ़ती रही है,और आगे भी बढ़ती रहेगी : आलोक

दुमकाः सांसद नलिन सोरेन और जिला परिषद अध्यक्षा जोयस बेसरा ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के शिवतला गांव में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद ने कार्यकर्त्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता पूरे जोर- शोर से चुनाव कार्य में जुट जाएं और झामुमो प्रत्याशी आलोक सोरेन को अत्यधिक मतों से जिताने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अपने- अपने पंचायत में जाकर आमजनों से संपर्क करें।इस अवसर पर पांच नवंबर को पूरे प्रखंड में आयोजित मोटरसाइकिल रैली को लेकर कार्यकर्ताओं की राय जानी गई। सांसद ने कहा कि हेमंत सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच पहुंचे और उन्हें कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे। जिला परिषद अध्यक्ष जॉयस बेसरा ने कहा कि यहां उपस्थित सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं की चुनावी मैदान में उतरने की व्याकुलता हमारी भारी मतों से जीत सुनिश्चित कर रही है। शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी आलोक कुमार सोरेन ने कहा कि हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों को साथ लेकर हमेशा आगे बढ़ती रही है,और आगे भी बढ़ती रहेगी। इस विधानसभा चुनाव में जीत केवल पार्टी की नहीं, बल्कि हर उस अंतिम व्यक्ति की विश्वास की जीत होंगी जो विगत 40 वर्षों से हमपर बनाई हुई है। जनता के इस विश्वास को बनाये रखने हेतु पार्टी सदैव समर्पित है। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि जोन सोरेन ,प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल जब्बार, उपाध्यक्ष सनाउल अंसारी,कोषाध्यक्ष गौरीशंकर भगत, सचिव सिमन टुडू, मीडिया प्रभारी कलीम अंसारी ,कार्यकर्ता प्रवीर सोरेन,, रजनीश कुमार,जेबनेश सोरेन, अजय भगत,संतोष सेन,,पार्थो मंडल,युसूफ अंसारी, इम्तियाज़ अंसारी, नोबा मंडल के साथ अन्य मौजूद थे।

पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा आंतरिक सर्वे करा कर विधानसभा चुनाव में करेगी समर्थन पर विचार

दुमका। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा संताल परगना की कोर कमेटी की बैठक केंद्रीय अध्यक्ष असीम कुमार मंडल की अध्यक्षता में बंदरजोरी स्थित उनके आवास पर शुक्रवार को हुई। बैठक में चर्चा के दौरान मुख्य रूप से यह बात निकाल कर आई कि पक्ष या विपक्ष के किसी भी गठबंधन दल ने पिछड़ा वर्ग के ज्वलंत मुद्दों यथा जातिगत जनगणना, आबादी के अनुरूप आरक्षण, पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर छात्रावास सहित दुमका जिला में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण शून्य होने के सवाल पर अभी तक कोई सटीक पहल नहीं किया गया है। इस मुद्दे पर मोर्चा गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। बैठक में निर्णय लिया गया कि दुमका जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र का कमेटी के सदस्यों के द्वारा आंतरिक सर्वे करा कर समान विचारधारा वाले दलों।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर गठित सभी कोषांग के प्रभारियों के साथ बैठक

दुमकाःशुक्रवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी आंजनेयुलु दोड्डे की अध्यक्षता में विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर गठित सभी कोषांग के प्रभारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में सभी कोषांग के कार्यों के अलावा अन्य विशेष बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी कोषांग के लिए प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अपने कर्तव्यों का जिम्मेवारीपूर्वक निर्वहन करें। निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। साथ ही कलस्टर, मतदान केन्द्रवार मूलभत सुविधाएं, मतदान केन्द्रवार रूट चार्ट/मैप, वाहनों की उपलब्धता, कम्युनिकेशन प्लान, मतदान कर्मियों की रहने की सुविधा को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सभी एसओपी का अनिवार्य रूप से सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी एवं अपने अधीनस्थ पदाधिकारी, कर्मियों को अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी को सक्रिय भूमिका निभाते हुए सभी निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करने की बात कही। समीक्षा के क्रम में सी विजिल कोषांग, ट्रेनिंग कोषांग, मीडिया कोषांग, स्वीप कोषांग, एमसीसी, एमसीएमसी, कंप्लेन मॉनिटरिंग सेल, इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल, पोस्टल बैलट, मेटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन सेल, कंट्रोल रूम व हेल्पलाइन सेल, ऑब्जर्वर सेल, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सेल, स्ट्राँग रूम आदि कोषांगों के संबंधित नोडल ऑफिसर से किए जा रह कार्यों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा होने पर अपने वरीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिया। बैठक में सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे।

विवाहेत्तर संबंध पर मां ने ही बेटा, बहु को मौत के घाट उतारा

करौली (ईएमएस)। राजस्थान में विवाहेत्तर संबंध पर मां ने ही बेटा - बहु को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने करौली जिले में हुए एक नवविवाहित दंपती के मर्डर का पर्दाफाश करते हुए बताया कि मर्डर का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद मृतक लड़के की मां ही निकली। उसने अपने भाई के साथ मिलकर इस जघन्य वारदात की प्लानिंग कर उसे अंजाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। मृतक दंपती की इसी साल शादी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद पति और पत्नी दोनों के ही अन्य महिला और पुरुष के साथ अवैध संबंध बना रखे थे।पुलिस ने बताया कि हत्या की आरोपी मां को डर था कि अगर बहू-बेटे के अवैध संबंधों का अगर किसी और को पता चल गया तो उसके परिवार को गांव से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसलिए उसने अपने भाई के साथ मिलकर अपने बेटे और बहू दोनों को खत्म करने की साजिश रच डाली और उन्होंने इस अपराध को अंजाम देने के लिए एक ड्राइवर को भी योजना में शामिल कर लिया।इसके बाद मंगलवार रात को कैला देवी मंदिर से लौटते समय करौली जिले में एक सुनसान जगह पर ड्राइवर और मामा ने उनकी कार में विकास (22 वर्षीय) और उसकी पत्नी दीक्षा (18 वर्षीय) की गोली मारकर हत्या कर दी।मृतक दंपती उत्तर प्रदेश के आगरा के एक गांव के रहने वाले थे और उनकी इसी साल जनवरी में शादी हुई थी। पुलिस अधिकारी ने कहा, ललिता ने विकास और उसकी पत्नी को कई बार अवैध संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। ललिता ने अपनी बहू और बेटे को ताने मारे और उनसे अवैध संबंध खत्म करने को कहा, लेकिन उन दोनों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने अपने हरकतें जारी रखीं। इसलिए ललिता ने अपने भाई रामबरन के साथ मिलकर अपने बेटे और बहू की हत्या की साजिश रच डाली।पुलिस के मुताबिक, रामबरन ने पिछले महीने विकास और दीक्षा की हत्या के लिए एक सेकेंड हैंड कार और एक पिस्तौल खरीदी थी। वह कार से उन्हें मारने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश में कई जगहों पर गया। रामबरन ने इस साजिश में अपने ड्राइवर चमन खान को भी शामिल किया।पुलिस ने बताया कि रामबरन और चमन खान ने कई सुनसान और दुर्घटना संभावित इलाकों का सर्वे किया, जिसका वीडियो भी जांच के दौरान रामबरन के मोबाइल में मिला।

आदिवासियों का विकास छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता : जे.एल.दरियो

रायपुर : छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय सरकार ने आदिवासी समुदाय की विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुददों को वरीयता दी है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में समग्र विकास का स्वप्न साकार हो रहा है। प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में जिस तरह स्वास्थ्य, सड़क, संचार और सुरक्षा नेटवर्क को मजबूती दी जा रही है, उसका सर्वाधिक लाभ आदिवासी वर्ग को मिल रहा है। इससे जहां आदिवासी समाज के जीवन स्तर में गुणवत्ता का संचार हो रहा है, वहीं सुशासन की इस बयार से प्रदेश में वामपंथी उग्रवाद की समस्या को परास्त करने में भी मदद मिल रही है। इन इलाको में केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पी.एम. जनमन योजना और राज्य सरकार की नियद नेल्ला नार योजना गेम चेंजर साबित हो रही है।छत्तीसगढ़ की लगभग 3 करोड़ आबादी में एक तिहाई जनसंख्या आदिवासी समुदाय की है। इन समुदायों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए साय सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा पर विशेष फोकस किया गया है। इसके अलावा केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए नए-नए प्रयास किए जा रहे हैं। आदिवासी समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं से नया वातावरण बन रहा है। साय सरकार ने पिछले 10 माह में इन सभी मुददों पर काम किया है। मुददा चाहे आदिवासी समुदाय के आवास, पेयजल, विद्युत या सड़क सहित सभी बुनियादी जरूरतों पर तेजी से काम किया जा रहा है।राज्य शासन की नियद नेल्ला नार (आपका अच्छा गांव) योजना जनकल्याण का अभिनव उपक्रम साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित नए कैम्पों के आसपास के 5 किमी के दायरे में आने वाले 96 गांवों का चयन कर शासन के 17 विभागों की 53 योजनाओं और 28 सामुदायिक सुविधाओं के तहत आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, पुल-पुलिया, स्कूल इत्यादि मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की पहल पर छत्तीसगढ़ के माओवादी आतंक प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याज रहित ऋण मिलेगा। शेष जिलों के विद्यार्थियों को 1 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा 4 लाख रूपए रखी गई है।आदिवासी क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद को रोकने के लिए सुरक्षा और विकास को मूल मंत्र बनाया है, इसके सार्थक परिणाम दिख रहे हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ-साथ उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं भी दी जा रही है। बीते 10 महीनों के दौरान मुठभेड़ों में 195 माओवादियों को ढेर किया गया। 34 फारवर्ड सुरक्षा कैम्पों की स्थापना की गई। निकट भविष्य में दक्षिण बस्तर एवं माड़ में रि-डिप्लायमेंट द्वारा 30 नए कैम्पों की स्थापना प्रस्तावित है।राज्य में गरीब परिवारों को शहीद वीर नारायण सिंह विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 20 लाख रूपए की राशि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य से समृद्धि की राह पर आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी क्षेत्रों के अस्पतालों को सर्वसुविधायुक्त बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 68 लाख गरीब परिवारों को 05 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है, इसके लिए बजट में 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसका लाभ आदिवासी समुदाय को भी मिल रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पीएम जनमन योजना के तहत आदिवासी बसाहटों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेजी काम हो रहा हैं। राज्य में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों के विकास हेतु 20 करोड़ का प्रावधान है। इन क्षेत्रों में 57 मोबाईल मेडिकल यूनिट के संचालन हेतु अनुपूरक में 2 करोड़ 72 लाख का प्रावधान है। पीव्हीटीजी के विद्युतीकरण हेतु 3 करोड़ 76 लाख का अतिरिक्त प्रावधान है।छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय की बसाहट ज्यादातर वनांचल क्षेत्रों में है। इन क्षेत्रों में सड़क, नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा भी भारत माला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर से विशाखापट्नम तक ईकोनॉमी कारिडोर बनाया जा रहा है। इसका सीधा फायदा भी आदिवासी इलाकों को मिलेगा। केन्द्र सरकार द्वारा नगर नार में देश का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र भी शुरू किया गया है, इससे बस्तर अंचल के विकास को नई गति मिली है। राज्य के आदिवासी क्षेत्रों और अयोध्या धाम तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने रायगढ़-धरमजयगढ़-मैनपाट-अंबिकापुर-उत्तरप्रदेश सीमा तक कुल 282 किमी तक के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की है। यह मार्ग प्रदेश के चार जिलों से होकर गुजरता है एवं धार्मिक नगरी अयोध्या से छत्तीसगढ़ राज्य को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है।

निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव ने माँ काली के चरणों में माथा टेका

लोयाबाद।बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव शुक्रवार को लोयाबाद मोड़ पहुंचे जहां लोयाबाद मोड़ स्थित शहीद राजू यादव के आदमकद प्रतिमा पर माला अपर्ण कर नमन किये।इस दौरान बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव ने कहा कि कल तक चुनाव चिन्ह नही था आज चुनाव आयोग से मुझे मेरा चिन्ह है सिलाई मशीन मिला है।और पूरे बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्धन से में कहना चाहता हूं कि सिलाई मशीन पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाने का कस्ट करें।

निगम अमले ने शहर से लगभग 15 टन पटाखों का अपशिष्ट एकत्र कर पृथक्कीकृत किया

भोपाल(ईएमएस)। नगर निगम द्वारा बड़े आयोजनों के उपरांत शहर की साफ-सफाई एवं कचरा निष्पादन की गतिविधियां तत्परतापूर्वक की जा रही हैं। इसी तारतम्य में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी निगम के सफाई मित्रों ने दीपावली के अवसर पर त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए शहर से लगभग 15 टन पटाखों का कचरा पृथक से संग्रहित किया और पृथक्कीकृत कर गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पर बड़े कंटेनर में एकत्र किया। पटाखों का यह खतरनाक कचरा पीथमपुर की साइंटिफिक लैण्डफिल साइड में भेजा जायेगा।निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन के निर्देश पर नगर निगम भोपाल द्वारा पटाखों के खतरनाक कचरे के एकत्रीकरण, पृथक्कीकरण एवं निष्पादन हेतु अपनायी गई प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निगम की उक्त कार्यवाही में अनेक रहवासी संघों ने भी सहयोग किया।

विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला शनिवार से शुरू 17 नवंबर तक चलेगा

पुष्कर (ईएमएस)। राजस्थान की संस्कृति का प्रतीक विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला शनिवार से शुरू होने जा रहा है। यह मेला इस बार दो नवंबर से शुरू होकर 17 नवंबर को समाप्त होगा। पुष्कर मेले में देश का सबसे बड़ा पशु मेला भी शामिल होगा। मेले का सबसे बड़ा आकर्षण रेगिस्तान का जहाज ऊंट होता है। इसके करतब के अलावा कई प्रतियोगिताएं होती हैं, जिनमें देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से पर्यटक भी हिस्सा लेते हैं। मेले की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जवान मुस्तैद रहेंगे। इसके लिए प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है।अजमेर जिले से 15 किलोमीटर दूर पुष्कर मेले का आयोजन 100 वर्षों से भी पहले से चला आ रहा है। इस मेले में ऊंट का बड़े स्तर पर व्यापार होता है। लोग अपने-अपने ऊंटों को निराले अंदाज में सजाकर यहां लाते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग पुष्कर मेले मे शिल्पग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद साहित अन्य कई प्रतियोगिताएं आयोजित करता है।मेले में देसी-विदेशी पर्यटकों के लिए क्रिकेट मैच, फुटबॉल, रस्साकसी, सतोलिया और कबड्डी मैच का आयोजन होता है। ऊंट-घोड़ों की सजावट, नृत्य आदि की प्रतियोगिताएं इस मेले का आकर्षण होती हैं। सैलानियों के लिए मूंछ, टरबन, दुल्हा-दुल्हन बनो, रंगोली, मांडना जैसी प्रतियोगिताएं मेले का हिस्सा होती हैं।पुष्कर में 15 दिवसीय अन्तरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में धार्मिक मेला 'पंचतीर्थ स्नान' पांच दिन के बजाय चार दिन का ही रहेगा। पंचतीर्थ स्नान कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी 12 नवंबर से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा 15 नवम्बर तक ही होगा। यहां एक तिथि क्षय होना बताया जा रहा है, जिसके कारण पंचतीर्थ स्नान चार दिन के ही रहने वाले हैं।

मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर में सफाई कर्मियों के साथ बांटी दीवाली की खुशियां

रायपुर,(ईएमएस)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर में सफाई कर्मियों के साथ दीवाली की खुशियां मनाई और उन्हें अपनी ओर से मिठाई और उपहार दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों के बच्चों को बड़े अपनत्व और स्नेहिल भाव से दुलारा एवं उन्हें चॉकलेट प्रदान किए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरूण साव, विधायक मोती लाल साहू उनके साथ थे।गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राज्य स्थापना दिवस के मौके पर एकात्म पथ में 11 हजार दीपों के प्रज्जवलन कार्यक्रम शामिल होने के लिए नवा रायपुर जा रहे थे। इसी बीच सीबीडी स्टेशन के पास सफाई कर्मियों को देखकर मुख्यमंत्री रूके और उनसे मुलाकात कर दीवाली की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी सफाई कर्मियों को अपनी ओर से मिठाई और उपहार भी दिए।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राहियों को दीपावली का उपहार भेंट किया

हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री को सुख- समृद्धि की कामना के साथ धान की बालियां उपहार स्वरूप भेंट की

जशपुर,(ईएमएस)। दीपावली का त्यौहार मनाने अपने गृह ग्राम बगिया पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहां उनके कैम्प कार्यालय में बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने मुलाकात की और मुख्यमंत्री को दीपावली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों का स्वागत कर उनसे आत्मीयता के साथ मुलाकात की। बगिया कैम्प कार्यालय में मुख्यमंत्री से मिलने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात कर उन्हें दीपावली का उपहार भेंट कर शुभकामनाएं दीं। हितग्राहियों ने भी पूरे आदरभाव से मुख्यमंत्री की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना के साथ उपहार स्वरूप धान की बालियां भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राही श्रीमती तिलासो बाई से दीये और कलश खरीदे। श्रीमती तिलासो बाई को पक्का आवास तो मिला ही है, उन्हें माटी कला बोर्ड की तरफ से इलेक्ट्रिक चाक भी प्रदान किया गया है। वे इस चाक से दीये, कलश, घड़े जैसी वस्तुएं तैयार कर स्थानीय हाट बाजार में बेचती हैं।मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राही श्रीमती तिलासो बाई, नवीता पैंकरा, अमृता बाई, रजनी चौहान, कुमारी शशि चौहान ने आवास मिलने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान कलेक्टर रोहित व्यास, पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह मौजूद रहे।प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राही श्रीमती तिलासो बाई को माटी कला बोर्ड की ओर से कुम्भकार टेराकोटा योजना के तहत इलेक्ट्रिक चाक प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक चाक मिलने के बाद से उन्हें काम में काफी आसानी हो गई है।

रॉयल एनफील्ड की अक्टूबर में बिक्री बढ़कर 1,10,574 इकाई हुई

नई दिल्ली (ईएमएस)। आयशर मोटर्स लिमिटेड की रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल की कुल बिक्री अक्टूबर 31 प्रतिशत बढ़कर 1,10,574 इकाई हो गई। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि पिछले साल 84,435 इकाइयों की बिक्री हुई थी। आयशर मोटर्स ने कहा कि पिछले महीने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिक्री 8,688 इकाई रही, जबकि पिछले साल अक्टूबर में यह 3,477 इकाई थी। 350 सीसी तक इंजन क्षमता वाले मॉडल की बिक्री पिछले साल अक्टूबर में 76,075 इकाइयों की तुलना में इस साल 27 प्रतिशत बढ़कर 96,837 इकाई हो गई। कंपनी के अनुसार, इसी तरह 350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले मॉडल की बिक्री अक्टूबर 2023 की 8,360 इकाइयों से 64 प्रतिशत बढ़कर पिछले महीने 13,737 इकाई हो गई।

अक्टूबर के आखिरी दिन निफ्टी में 6 फीसदी से ज्यादा की गिरावट, निवेशक चिंतित

नई दिल्ली,(ईएमएस)। सॉफ्टवेयर कंपनियों में बिकवाली और विदेशी संस्थानों की निरंतर बिकवाली के कारण महीने के आखिरी दिन घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 553 अंक या 0.69 फीसदी की गिरावट के साथ 79,389 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स 135.5 अंक या 0.56 फीसदी की गिरावट के साथ 24,205.35 पर बंद हुआ। अक्टूबर के महीने में निफ्टी में 6 फीसदी से अधिक की गिरावट आई, जो पिछले साढ़े चार सालों में किसी भी महीने में सबसे बड़ी गिरावट है। विश्लेषकों के मुताबिक कंपनियों की तिमाही आय के आंकड़े अनुमानों से कम रहने के कारण निवेशकों के बीच चिंता बढ़ गई है। इसके चलते बाजार में तेजी पर सवाल उठने लगे हैं। इक्विटी एडवाइजरी फर्म फिनाजेन के संस्थापक-निदेशक ने कहा कि बाजार में काफी रिअलॉकेशन हो रहा है। निवेशक उन थीम से बाहर निकल रहे हैं जिनकी इनकम ने निराश किया है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के बावजूद, बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना कम है। विश्लेषकों का मानना है कि तेजी के

लिए निफ्टी को 24,500 के स्तर को पार करना होगा। एंजेल वन के इक्विटी तकनीकी विश्लेषक ने कहा कि आक्रामक पोजीशन पर विचार करने से पहले इस रेंज के ऊपर एक मजबूत क्लोज की जरुरत है, क्योंकि बाजार उच्च अस्थिरता के दौर के लिए तैयार है। गुरुवार के कारोबार में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर सबसे ज्यादा नुकसान में रहे। एचसीएलटेक और टेक महिंद्रा में 3.6 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई। इसके अलावा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और विप्रो में भी 2-3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जिससे निफ्टी आईटी इंडेक्स में 3 फीसदी की कमी आई। कुछ शेयरों में वृद्धि भी देखने को मिली। दवा बनाने वाली कंपनी सिप्ला में 9.5 फीसदी और लार्सन एंड टुब्रो में 6.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। निफ्टी स्मॉलकैप 250 इंडेक्स में 1.5 फीसदी और माइक्रोकैप 250 इंडेक्स में 2.1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। इस महीने के दौरान, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 5,813 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। अक्टूबर में उनकी कुल बिकवाली का आंकड़ा 1,09,800 करोड़ रुपए तक पहुंचा। वहीं, घरेलू संस्थानों ने 3,515 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जिससे बाजार को गिरावट से बचाने में मदद मिली।

अनिल अंबानी को करना होगा 154.5 करोड़ का भुगतान, सेबी ने जारी किया नोटिस

15 दिनों के अंदर जमा करनी होगी राशि, नहीं तो संपत्तियां व बैंक खाते होंगे कुर्क

नई दिल्ली,(ईएमएस)। अनिल अंबानी जो अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत दिखा रहे हैं, एक बार फिर विवादों में घिर गए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उन्हें और उनके स्वामित्व वाली कंपनियों को 154.5 करोड़ रुपए जमा करने का नोटिस जारी किया है। यह निर्देश रिलायंस होम फाइनेंस की प्रवर्तक कंपनी सहित अन्य छह इकाइयों को धन की हेराफेरी के आरोप में जारी किया है। सेबी ने नोटिस में साफ लिखा है कि जिन कंपनियों को यह नोटिस भेजा गया है, उनमें क्रेस्ट लॉजिस्टिक्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (अब सीएलई प्राइवेट लिमिटेड), रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लिमिटेड और रिलायंस क्लीनजेन लिमिटेड शामिल हैं। प्रत्येक इकाई को 25.75 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है, जिसमें ब्याज और वसूली लागत भी शामिल हैं। इन कंपनियों को 15 दिनों के अंदर भुगतान करना होगा, नहीं तो सेबी उनकी संपत्तियों और बैंक खातों को कुर्क करने की कार्रवाई करेगी। इस साल अगस्त में सेबी ने अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व अधिकारियों सहित 24 अन्य इकाइयों को प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। इस पर अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। नियामक ने उन्हें सूचीबद्ध कंपनियों या बाजार नियामकों के साथ पंजीकृत मध्यस्थों में प्रमुख पदों पर नियुक्त होने से रोक दिया था। सेबी के आदेश में कहा गया है कि अनिल अंबानी ने रिलायंस होम फाइनेंस के प्रबंधन स्तर के प्रमुख कर्मचारियों की मदद से धन की हेराफेरी की। अंबानी ने इस राशि को इस रूप में पेश किया कि इससे संबंधित कंपनियों ने कंपनी से कर्ज लिया है।

हालांकि, कंपनी के निदेशक मंडल ने ऐसी कर्ज गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए थे, जिनका प्रबंधन ने पालन नहीं किया। अंबानी के लिए यह मामला आर्थिक संकट के बीच उनकी चुनौतियों को और बढ़ा सकता है। अगर कंपनियां नियामक के निर्देशों का पालन नहीं करती हैं, तो संपत्तियों की कुर्की और बैंक खातों की कार्रवाई से उनके वित्तीय भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

महिंद्रा ने अक्टूबर में 96,648 इकाइयां बेची

नई दिल्ली (ईएमएस)। वाहन विनिर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अक्टूबर में 96,648 इकाइयां बेचीं, जो पिछले साल की समान अवधि की 80,679 इकाइयों की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) ने बयान में कहा कि यूटिलिटी वाहन खंड में उसने घरेलू बाजार में 54,504 इकाइयां बेचीं, जो एक साल पहले की समान अवधि में 43,708 इकाइयों से 25 प्रतिशत अधिक है। कंपनी ने बताया कि निर्यात सहित कुल यात्री वाहनों की थोक बिक्री 55,571 इकाई रही। पिछले महीने वाणिज्यिक वाहनों की घरेलू बिक्री 28,812 इकाई रही। एमएंडएम के एक अधिकारी ने कहा कि हम अक्टूबर में 54,504 वाहनों की अब तक की सर्वाधिक एसयूवी बिक्री 25 प्रतिशत की वृद्धि और 96,648 वाहनों की अब तक की सर्वाधिक कुल बिक्री यानी 20 प्रतिशत की वृद्धि से काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि महीने की शुरुआत शानदार रही और थार रॉक्स को पहले 60 मिनट में 1.7 लाख बुकिंग मिल गईं। त्योहारों के मद्देनजर एसयूवी खंड में सकारात्मक गति जारी रही। एमएंडएम के कृषि उपकरण खंड (एफईएस) ने पिछले महीने 64,326 ट्रैक्टर की अब तक की सबसे अधिक मासिक घरेलू बिक्री दर्ज की, जबकि अक्टूबर 2023 में यह 49,336 इकाई थी। निर्यात सहित कुल ट्रैक्टर बिक्री पिछले महीने 65,453 इकाई रही, जबकि 2023 की इसी अवधि में यह 50,460 इकाई थी। उन्होंने कहि कि बहुत से सकारात्मक कारकों के एक साथ आने से ट्रैक्टर उद्योग में बहुत मजबूत वृद्धि देखी गई है। इसमें अच्छा मानसून, अच्छी खरीफ फसल, जलाशयों का उच्च स्तर जो रबी फसलों में मदद करेगा तथा सरकार द्वारा प्रमुख रबी फसलों पर उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा शामिल है। उन्होंने बताया कि कंपनी ने पिछले महीने 1,127 इकाइयों का निर्यात किया।

सेबी का एचवीडीएलई के लिए सीमा दोगुनी कर 1,000 करोड़ करने का प्रस्ताव

सेबी ने अपने परामर्श पत्र में एक 'सनसेट क्लॉज' शुरू करने का प्रस्ताव दिया

नई दिल्ली (ईंएमएस)। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अनुपालन बोझ कम करने के लिए उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध संस्थाओं (एचवीडीएलई) की पहचान सीमा को मौजूदा 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है। वर्तमान में 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक की सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों का बकाया मूल्य रखने वाली इकाई को 'उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई' कहा जाता है। सेबी ने अपने परामर्श पत्र में एक 'सनसेट क्लॉज' शुरू करने का प्रस्ताव दिया है, जो किसी एचवीडीएलई का बकाया ऋण निर्दिष्ट अवधि के लिए सीमा से नीचे आने पर कामकाज संबंधी दायित्वों को समाप्त कर देगा जिससे अधिक लचीलापन आएगा।

इसने एलओडीआर (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमों के अंतर्गत एक समर्पित अध्याय का सुझाव दिया है जो केवल एचवीडीएलई के लिए कॉर्पोरेट कामकाज के मानदंडों पर केंद्रित है, जो उन्हें शेयर-सूचीबद्ध संस्थाओं से अलग करता है।सेबी ने इसके अलावा एचवीडीएलई के लिए छूट का प्रस्ताव किया है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनियां नहीं हैं। नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति (एनआरसी), जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) और हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) के गठन के संबंध में छूट का प्रस्ताव है।

एचवीडीएलई द्वारा अनेक समितियों के गठन से बचने के लिए सेबी ने प्रस्ताव दिया है कि एचवीडीएलई का निदेशक मंडल या तो नआरसी/आरएमसी/एसआरसी का गठन करने का विकल्प चुन सकता है या यह सुनिश्चित कर सकता है कि इन समितियों के कार्यों को लेखा परीक्षा समिति द्वारा सौंपा व निष्पादित किया जाए। कॉर्पोरेट कामकाज मानदंडों के तहत एचवीडीएलई के लिए इन प्रस्तावों का उद्देश्य कारोबार को सुगम बनाना और ऐसे एचवीडीएलई में निवेशकों की रुचि बढ़ाना है।भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रस्तावों पर 15 नवंबर तक सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं।

यूपीआई के नियमों में भी 1 नवंबर से हुआ बड़ा बदलाव अब बैलेंस कम होने पर भी मिलेगी सुविधा

नई दिल्ली (ईएमएस)। नई महीने की शुरुआत हो गई है। 1 नवंबर से गैस से लेकर पेट्रोल-डीजल के भाव में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के भाव में करीब 62 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में अब यूपीआई के नियमों में भी बदलाव देखने को मिला है। 1 नवंबर शुक्रवार से यूपीआई लाइट प्लेटफॉर्म में दो बड़े बदलाव हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में यूपीआई लाइफ की ट्रांजेक्शन लिमिट भी बढ़ाई है। आज से यूपीआई लाइट यूजर्स ज्यादा पेमेंट कर पाएंगे। वहीं अगर आपका यूपीआई लाइट बैलेंस एक तय सीमा से नीचे चला जाएगा, तो नए ऑटो टॉप-अप फीचर से यूपीआई लाइट में फिर से पैसे ऐड हो जाएंगे। यानी कि अगर आपका यूपीआई लाइट बैलेंस एक तय सीमा से नीचे चला जाएगा, तो नए ऑटो टॉप-अप फीचर से यूपीआई लाइट में फिर से पैसे जुड़ जाएंगे। इससे मैनुअल टॉप-अप की जरूरत खत्म हो जाएगी, जिससे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लाइट की मदद से बिना रूके पेमेंट किया जा सकेगा। बता दें कि यूपीआई लाइट एक वॉलेट है जो यूजर्स को बिना यूपीआई पिन का इस्तेमाल किए छोटे-मोटे ट्रांजेक्शन करने की सुविधा देता है। फिलहाल इससे यूजर्स को पेमेंट करना जारी रखने के लिए अपने बैंक अकाउंट से अपने वॉलेट बैलेंस को मैन्युअली रिचार्ज करना पड़ता है। हालांकि, नए ऑटो-टॉप-अप फीचर के साथ, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) का लक्ष्य इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, जिससे मैनुअल रिचार्ज की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। बता दें कि एनपीसीआई के 27 अगस्त 2024 के नोटिफिकेशन में यूपीआई लाइट ऑटो-पे बैलेंस फीचर का ऐलान किया था। यूपआई लाट में 500 रुपये तक का लेनदेन की सुविधा देता है। हालांकि, इस वॉलेट की लिमिट 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती है। यूपीआई लाइट वॉलेट की रोजाना खर्च लिमिट 4000 रुपए है। यूपीआई लाइट अकाउंट पर एक दिन में पांच तक टॉप-अप की अनुमति होगी। यूपीआई लाइट पर न्यूनतम बैलेंस सेट कर पाएंगे, जब भी आपका बैलेंस इस सीमा से नीचे जाएगा, तो आपके यूपीआई लाइट आपके लिंक किए गए बैंक खाते से एक तय राशि के साथ अपने आप फिर से भर दिया जाएगा। रिचार्ज राशि भी आपकी तरफ से सेट की जाएगी।

एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड में नहीं लगेगा वार्षिक शुल्क!

नई दिल्ली। एचडीएफसी बैंक अपने कुछ पॉपुलर क्रेडिट कार्ड बिना किसी एनुअल फीस या अन्य चार्ज के दे रहा है। यानी कि आपको कार्ड के लिए सालाना लगने वाला चार्ज नहीं चुकाना होगा। यह ऑफर 31 दिसंबर तक स्विगी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड, टाटा न्यू प्लस एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड और टाटा न्यू इनफिनिटी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए मान्य है। इससे पहले ग्राहकों के पास 31 अक्टूबर तक फ्रीडम क्रेडिट कार्ड और बिज फर्स्ट क्रेडिट कार्ड को बिना एनुअल फीस में अप्लाई करने का मौका था। टाटा न्यू प्लस एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड का एनुअल फीस 499 रुपये है जबकि टाटा न्यू इनफिनिटी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड का एनुअल फीस 1,499 रुपये है। स्विगी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस 500 रुपये है। बता दें कि क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने वाले लगभग सभी बैंकों में आपको जॉइनिंग फीस और एनुअल चार्ज देना होता है।

अमेरिका ने 19 भारतीय कंपनियों और दो नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया

नई दिल्ली (ईएमएस)। अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों और दो नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका के अनुसार, इन कंपनियों ने रूस को यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में मदद की थी। यह कदम कई देशों की करीब 400 कंपनियों और व्यक्तियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के हिस्से के रूप में उठाया गया है। इन प्रतिबंधों में भारत के अलावा चीन, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की और यूएई की कंपनियां और नागरिक भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार दिल्ली स्थित कंपनी एसेंड एविएशन के निदेशक विवेक कुमार मिश्रा और सुधीर कुमार पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने एसेंड एविएशन इंडिया, मास्क ट्रेन, टीएसएमडी ग्लोबल और फयूट्रेवो नामक चार भारतीय कंपनियों पर लगाए गए आरोपों की जानकारी दी है। एसेंड एविएशन पर आरोप है कि इसने मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच रूस की कंपनियों को 700 से अधिक शिपमेंट भेजे थे, जिनकी कुल कीमत 200,000 डॉलर से अधिक थी। इनमें कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट (सीएचपीएल) के आइटम शामिल थे। इसी तरह मास्क ट्रेन पर आरोप है कि इसने जून 2023 से अप्रैल 2024 के बीच रूस को 300,000 डॉलर से अधिक मूल्य के सीएचपीएल आइटम सप्लाई किए थे। टीएसएसएमडी ग्लोबल पर रूस को 430,000 मूल्य के सीएचपीएल आइटम सप्लाई करने का आरोप लगाया गया है, जबकि फयूट्रेवो पर आरोप है कि इसने रूस को 1.4 मिलियन मूल्य के सीएचपीएल आइटम भेजे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी शामिल हैं। यह सामान जनवरी 2023 से फरवरी 2024 के बीच सप्लाई किया गया था। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है।

इंडिया यामाहा मोटर के चेयरमैन बने इटारू ओटानी

नई दिल्ली (ईएमएस)। इंडिया यामाहा मोटर ने इटारू ओटानी को नया चेयरमैन नियुक्त किया है। कंपनी ने बयान में कहा कि ओटानी को यामाहा मोटर कंपनी में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील तथा जापान सहित वैश्विक बाजारों में प्रमुख नेतृत्व की भूमिका निभाई है। ओटानी ने कहा कि भारतीय उपभोक्ताओं की आकांक्षाएं तेजी से विकसित हो रही हैं। हम ऐसे उत्पाद लाने के अविश्वसनीय अवसर देखते हैं जो यामाहा की वैश्विक विशेषज्ञता को भारतीयों की अनूठी जरूरतों और इच्छाओं के साथ जोड़ते हैं।

ओला इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण अक्टूबर में 74 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली (ईएमएस)। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के वाहनों का पंजीकरण अक्टूबर में सालाना आधार पर 74 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 41,605 इकाई पर पहुंच गया। ओला इलेक्ट्रिक ने बयान में कहा कि कंपनी ने अक्टूबर 2024 में 50,000 से अधिक इकाइयां बेचीं। पंजीकरण संख्याएं वाहन के आंकड़ों के अनुसार हैं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे विस्तृत खंड, उपभोक्ता मांग में तेजी और समूचे भारत में हमारे बिक्री नेटवर्क के मजबूत होने से त्योहारी सीजन हमारे लिए वास्तव में मजबूत रहा है। हमने छोटे व मझोले बाजारों में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) अपनाने में वृद्धि देखी है और हमें विश्वास है कि यह सकारात्मक वृद्धि आने वाले महीनों में भी जारी रहेगी। कंपनी ने कहा कि दिसंबर 2024 तक अपने कंपनी के स्वामित्व वाले सर्विस सेंटर की संख्या दोगुना कर 1,000 करने का अभियान शुरू किया है।

ईएसजी रेटिंग प्रदाताओं के लिए कारोबार को आसान बनाएगा सेबी

नई दिल्ली (ईएमएस)। बाजार नियामक सेबी ने ईएसजी रेटिंग प्रदाताओं (ईआरपी) के लिए रूपरेखा में बदलाव का प्रस्ताव किया है, खासकर ग्राहक-भुगतान मॉडल का इस्तेमाल करने वालों के लिए, जिसमें शेयर सूचकांक को ईएसजी रेटिंग का खुलासा करने की आवश्यकता से छूट भी शामिल है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इसके अलावा सुझाव दिया है कि सब्सक्राइबर-पे मॉडल का इस्तेमाल करने वाले ईआरपी को सब्सक्राइबर तथा रेटेड जारीकर्ता दोनों के साथ ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक व शासन) रेटिंग रिपोर्ट साझा करनी चाहिए। इस नीति का सार्वजनिक रूप से खुलासा किया जाना चाहिए। सेबी ने अपने परामर्श पत्र में कहा कि ईआरपी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रेटेड संस्थाएं, उनकी समूह कंपनियां या सहयोगी अपनी

स्वयं की ईएसजी रेटिंग की सदस्यता (सब्सक्राइब) नहीं ले सकें। इन प्रस्तावों का मकसद सेबी के ढांचे के भीतर ईएसजी रेटिंग की स्पष्टता, पारदर्शिता और विनियामक संरेखण को बढ़ाना है। सेबी ने जुलाई 2023 में ईआरपी के लिए नियम पेश किए थे, लेकिन ईआरपी ने कुछ प्रावधानों पर स्पष्टीकरण मांगा है। खासकर ग्राहक-भुगतान मॉडल का इस्तेमाल करने वालों के लिए और तदनुसार नियामक ने एक परामर्श पत्र जारी किया। इसमें नियामक ने प्रस्ताव दिया है कि ईआरपी को जारीकर्ताओं को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर ईएसजी रेटिंग रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने की अनुमति देनी चाहिए। जारीकर्ता की ओर से किसी भी टिप्पणी को परिशिष्ट के रूप में रिपोर्ट में जोड़ा जाना चाहिए। यदि ईआरपी जारीकर्ता के दृष्टिकोण से असहमत है, तो वह टिप्पणी या परिशिष्ट के माध्यम से जवाब दे सकता है। इसके अलावा, सब्सक्राइबर-पे मॉडल पर ईआरपी को शेयर बाजारों को ईएसजी रेटिंग का खुलासा करने से छूट दी जानी चाहिए, बशर्ते वे पुष्टि करें कि उनके पास रेटिंग को प्रभावित करने वाली कोई गैर-सार्वजनिक जानकारी नहीं है।

एप्पल ने भारत में रिकॉर्ड राजस्व दर्ज कियाः सीईओ कुक

नई दिल्ली। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने भारत में अभी तक का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया है। जुलाई-सितंबर 2024 में देश में आईपैड की बिक्री में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि समीक्षाधीन अवधि में कुल शुद्ध बिक्री छह प्रतिशत से अधिक बढ़कर 94.93 अरब डॉलर हो गई, जो एक वर्ष पूर्व 89.49 अरब डॉलर थी। एप्पल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) टिम कुक ने कंपनी की आय की जानकारी देते हुए कहा कि हमने अमेरिका, यूरोप तथा शेष एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ-साथ अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, ब्रिटेन, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों में सितंबर तिमाही के राजस्व रिकॉर्ड दर्ज किए। हम भारत में जो उत्साह देख रहे हैं, उससे काफी खुश हैं जहां हमने सर्वकालिक रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया है। कुक ने कहा कि एप्पल ने इस तिमाही में देश में दो नए स्टोर भी खोले। एक स्टोर मुंबई में और दूसरा दिल्ली में खोला गया। उन्होंने कहा कि हम भारत में ग्राहकों के लिए चार नए स्टोर खोलने को उत्साहित हैं। एप्पल ने भारत में पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और मुंबई में चार और स्टोर खोलने की योजना की अक्टूबर की शुरुआत में घोषणा की थी। काउंटरपॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2024 की तिमाही में भारत में मूल्य के लिहाज से एप्पल आईफोन की बिक्री में हिस्सेदारी 21.6 प्रतिशत रही जो सैमसंग से थोड़ी ही कम है। उत्पादों की बिक्री से एप्पल का राजस्व जुलाई-सितंबर 2023 तिमाही में 67.18 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में इस वर्ष समान अवधि में 4.12 प्रतिशत बढ़कर 69.95 अरब डॉलर हो गया। आईफोन की बिक्री सालाना आधार पर 43.8 अरब डॉलर से करीब 5.5 प्रतिशत बढ़कर 46.22 अरब डॉलर हो गई। एप्पल के एक अधिकारी ने कहा कि आईपैड ने सात अरब अमेरिकी डॉलर का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले साल की तुलना में आठ प्रतिशत अधिक है।

प्रवीणा राय ने एमसीएक्स के सीईओ का कार्यभार संभाला

नई दिल्ली (ईएमएस)। प्रवीणा राय ने प्रमुख जिंस सूचकांक एमसीएक्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है। एमसीएक्स ने बताया कि राय ने 31 अक्टूबर को कार्यभार संभाला और उनका कार्यकाल पांच साल का होगा। उन्होंने पी.एस. रेड्डी की जगह ली है जिनका पांच साल का कार्यकाल मई 2024 में पूरा हो गया था। एमसीएक्स में शामिल होने से पहले राय ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) में सीईओ के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने विपणन, व्यवसाय विकास, उत्पाद प्रबंधन और परिचालन रणनीति का नेतृत्व किया था।एक अनुभवी बैंकिंग पेशेवर राय एचएसबीसी में एशिया प्रशांत के लिए भुगतान के क्षेत्रीय प्रमुख के पद पर कार्यरत रह चुकी हैं। एमसीएक्स भारत का सबसे बड़ा जिंस डेरिवेटिव एक्सचेंज है।

संक्षिप्त ख़बरें

ढिल्लों मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार दूसरा भारत भागा

ओटावा (ईएमएस)। पंजाबी गायक एपी ढिल्लों के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में कनाडा पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कनाडा पुलिस का कहना है कि मामले में एक अन्य आरोपी भारत भाग गया है।रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 25 वर्षीय अबजीत किंगरा के रूप में हुई है, जो विन्निपेग का निवासी है। पुलिस ने दूसरे संदिग्ध के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। इस संदिग्ध की पहचान 23 वर्षीय विक्रम शर्मा के रूप में की गई है, जो पहले विन्निपेग में रह रहा था, लेकिन अब पुलिस का मानना है कि वह भारत में है।दरअसल घटना 2 सितंबर को कनाडा के वैंकूवर में एपी ढिल्लों के घर के बाहर हुई थी। इस दौरान गोलियों की आवाज सुनाई दी गई और घर के पास खड़े दो वाहनों को भी आग लगा दी गई। इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के गिरोह ने ली थी। ढिल्लों और सलमान खान के बीच अच्छे संबंध होने के कारण इस हमले के पीछे यही वजह बताई जा रही है। आपराधिक गिरोह ने सलमान खान के साथ ढिल्लों के संबंधों का हवाला देकर धमकी दी थी कि यदि ढिल्लों सलमान से जुड़े रहे, तब उन पर भविष्य में भी हमले हो सकते हैं।

हमास ने इजराइल के साथ युद्ध में अस्थायी विराम को सिरे से नकारा

तेलअवीव (ईएमएस)। फिलिस्तीनी गुट हमास ने गाजा में चल रही लड़ाई को अस्थायी रूप से रोकने के किसी भी प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हमास ने साफ कर दिया है कि वह केवल पूर्ण युद्धविराम और इजरायली बलों की वापसी की मांग पर कायम है। हमास ने अमेरिका, मिस्र, और कतर के मध्यस्थों द्वारा पेश किए गए अस्थायी युद्धविराम के प्रस्तावों को खारिज कर दिया।हमास के वरिष्ठ अधिकारी ताहिर अलनुनू ने कहा, हम युद्ध में अस्थायी विराम और बाद में आक्रामकता फिर से शुरू करने के विचार को स्वीकार नहीं करते हैं। हमास युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने का समर्थन करता है और केवल कुछ दिनों के लिए लड़ाई रोकने के पक्षधर नहीं हैं। रिपोर्ट के अनुसार, हाल में दोहा में हुए बैठकों में मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया, सीआईए निदेशक बिल बर्न्स और कतर के प्रधानमंत्री के बीच चर्चा हुई थी। चर्चा में गाजा में बंधक महिलाओं और बच्चों की रिहाई के बदले इजरायल से 100 फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों को रिहा करने का प्रस्ताव शामिल था।इस बीच, इजरायल की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इजरायल युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने और गाजा से अपनी सेना की वापसी के लिए तैयार नहीं है। ये दोनों मुद्दे वार्ता में बाधा डाल रहे हैं। हमास ने कहा कि वह अस्थायी युद्धविराम पर सहमत नहीं होगा, क्योंकि इससे उसके लिए नुकसान हो सकता है। इजरायल की कोशिश एक अस्थायी युद्धविराम के माध्यम से अपने बंधकों को छुड़ाने की है। वर्तमान में हमास के पास 251 इजरायली बंधक हैं, इसमें से करीब 100 अभी भी गाजा में बताए जा रहे हैं। पिछले साल नवंबर में, एक सप्ताह के संघर्ष विराम के दौरान हमास ने 105 नागरिकों को रिहा किया था।

सरकार के हस्तक्षेप के बिना महिलाओं को अपने शरीर को लेकर निर्णय का अधिकार

वाशिंगटन,(ईएमएस)। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने नेवादा में एक रैली में गर्भपात और महिला अधिकारों के मुद्दे पर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के रुख पर तीखा हमला बोला। हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से सरकार के हस्तक्षेप के बिना महिलाओं को अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने के अधिकार को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई भविष्य और आजादी के लिए है, जैसे महिलाओं की अपने शरीर के बारे में फैसला करने की मौलिक स्वतंत्रता। हैरिस ने ट्रंप पर आरोप लगाया कि उन्होंने गर्भपात सुरक्षा को समाप्त करने के लिए जानबूझकर जजों की नियुक्ति की, जिससे रो बनाम वेड मामले को पलटा गया। उन्होंने ट्रंप की पिछली टिप्पणियों का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह वही करेंगे जो वह चाहेंगे, चाहे महिलाएं इसे पसंद करें या नहीं और इसे महिलाओं की स्वायत्तता के प्रति उनके असम्मान के रूप में प्रस्तुत किया। हैरिस ने यह भी कहा कि सरकार को महिलाओं को यह नहीं बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, न तो सरकार को और न ही डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने रैली में उपस्थित लोगों से डेमोक्रेट्स का समर्थन करने की अपील की और भरोसा दिलाया कि जब कांग्रेस प्रजनन स्वतंत्रता को बहाल करने वाला विधेयक पारित करेगी, तो वे इसे गर्व से कानून में हस्ताक्षर करेंगी।उपराष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि यदि ट्रंप पुनः चुने जाते हैं, तो प्रजनन अधिकारों पर गंभीर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिससे जन्म नियंत्रण और आईवीएफ उपचार तक की पहुंच मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने रिपब्लिकन के प्रोजेक्ट 2025 का उल्लेख किया, जो उनके अनुसार, देश भर में विभिन्न प्रतिबंधों का कारण बन सकता है। हैरिस ने कहा, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो बस प्रोजेक्ट 2025 को गूगल पर सर्च करें मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि उन्होंने इसे लिखित रूप में रखा है।

दिवाली पर ट्रूडो ने हिंदू कनाडाई समुदाय को दिया भरोसा, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी

ओटावा (ईएमएस)। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दिवाली के मौके पर सभी को बधाई देकर हिंदू कनाडाई समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। ट्रूडो का बयान तब आया है, जब भारत और कनाडा के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं, विशेषकर खालिस्तानी तत्वों को बढ़ावा देने के आरोपों और हिंदुओं की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच।ट्रूडो ने कहा, दिवाली बुराई पर अच्छाई, अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। इस मौके पर परिवार और समुदाय मिलकर मंदिरों में प्रार्थना करते हैं, उपहारों का आदान-प्रदान करते हैं और उत्सवों में भाग लेते हैं। घरों को मोमबत्तियों और दीयों से सजाया जाता है, जिससे अंधकार को हराने और इच्छाओं को पूरा करने का हौसला मिलता है।उन्होंने कनाडा में इंडो-कनाडाई समुदाय के योगदान की भी सराहना की, जो कला, उद्यमिता, चिकित्सा, शिक्षा और व्यवसाय जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ट्रूडो ने कहा, कनाडा में दिवाली हमारे अविश्वसनीय इंडो-कनाडाई समुदाय के बिना अधूरी है। हम उनके प्रयासों से लाई गई रोशनी का भी जश्न मना रहे हैं।ट्रूडो ने विशेष रूप से हिंदू कनाडाई लोगों के लिए कहा, दिवाली हिंदू कनाडाई लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी कनाडाई लोगों की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं देकर कहा, रोशनी का यह त्यौहार हमारे लिए खुशी, समृद्धि और सच्ची खुशी लेकर आए। जस्टिन ट्रूडो का यह संदेश केवल एक त्यौहार की शुभकामना नहीं, बल्कि कनाडा में रहने वाले हिंदू समुदाय के प्रति सुरक्षा और समर्थन का एक मजबूत आश्वासन भी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह आश्वासन विवादास्पद मुद्दों के बीच सकारात्मक बदलाव लाएगा या नहीं।

डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी महिलाओं के लिए अपमानजनक हैः हैरिस

वाशिंगटन,(ईएमएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की यह टिप्पणी कि वह महिलाओं की रक्षा करेंगे चाहे महिलाएं इसे पसंद करें या नहीं यह दर्शाता है कि वह महिलाओं के अधिकारों और फैसला लेने की उनकी क्षमता को नहीं समझते हैं।उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह हर किसी के लिए अपमानजनक है। हैरिस ने कहा कि यह पूर्व राष्ट्रपति द्वारा महिलाओं के बारे में उनके विचारों के खुलासे की एक लंबी श्रृंखला का एक हिस्सा है। ट्रंप ने सार्वजनिक कार्यक्रमों और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि वह महिलाओं की सुरक्षा करेंगे और यह तय करेंगे कि वे गर्भपात के बारे में न सोचें।

रूस की इमारत में हुआ गैस विस्फोट, 5 की मौत, 4 घायल

मास्को,(ईएमएस)। दक्षिणी रूस में एक आवासीय इमारत में हुए विस्फोट में पांच लोगों की मौत हो गई और चार घायल हो गए। यह विस्फोट गुरुवार तड़के जॉर्जिया की सीमा से लगे कराचाय-चेर्केसिया क्षेत्र के चेर्केस्क शहर में हुआ था। आपात सेवा से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट से पांच मंजिला इमारत की ऊपरी मंजिलें क्षतिग्रस्त हो गईं हैं। रूसी कानून प्रवर्तन ने सुरक्षा नियमों के उल्लंघनों के संदेह में आपराधिक जांच शुरू कर दी है।

दो सर्वे बता रहे हैं अमेरिका में हिंदुओं की बढ़ती ताकत, ट्रंप भी जप रहे हिंदू-हिंदू

वॉशिंगटन(ईएमएस)। अमेरिका में हिंदुओं की संख्या करीब 31 प्रतिशत है। राष्ट्रपति चुनाव में इनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। यही वजह है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिंदू हिंदू जपते नजर आ रहे हैं। हालिया सर्वेक्षणों से यह संकेत मिला है कि भारतीय-अमेरिकी समुदाय का समर्थन धीरे-धीरे कमला हैरिस और डेमोक्रेट्स से हटकर ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी की ओर बढ़ रहा है। 2024 इंडियन-अमेरिकन एटीट्यूड्स सर्वे (आईएएएस) के अनुसार, जहां 2020 के चुनाव में 22 प्रतिशत भारतीय मूल के अमेरिकी ट्रंप का समर्थन कर रहे थे, वहीं 2024 के चुनाव में यह संख्या बढ़कर 31 प्रतिशत हो गई है। दूसरी ओर, कमला हैरिस के समर्थन में 2020 के मुकाबले 7प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। 2020 में हैरिस को 68प्रतिशत भारतीय-अमेरिकी लोगों का समर्थन प्राप्त था, जो अब घटकर 61प्रतिशत रह गया है। यह परिवर्तन ट्रंप के लिए एक अवसर साबित हो सकता है, क्योंकि भारतीय-अमेरिकी समुदाय अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ते समुदायों में से एक है, जिनमें से करीब 26 लाख लोग वोटिंग के योग्य हैं।अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष हैं, और ऐसे में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से भारतीय और हिंदू समुदाय की ओर रुख कर लिया है। ट्रंप ने दिवाली के मौके पर अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं को शुभकामनाएं दीं और अपने विरोधी जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर निशाना साधते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा भी उठाया। यह कदम ट्रंप की चुनावी रणनीति के तहत भारतीय-अमेरिकी और हिंदू वोटर्स का समर्थन पाने की एक कोशिश मानी जा रही है। ट्रंप के हिंदू और भारतीय-अमेरिकी समुदाय की ओर रुख करने का एक अन्य कारण हाल ही में प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे भी हैं, जिनमें अमेरिका में बाहरी लोगों की आलोचना प्रमुख रूप से शामिल थी। अब, चुनाव से ठीक पहले उन्होंने हिंदू समुदाय को दिवाली की शुभकामनाएं देकर और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाकर उनकी सहानुभूति जीतने का प्रयास किया है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, ट्रंप का यह कदम उन्हें डेमोक्रेट्स के पारंपरिक वोट बैंक, भारतीय-अमेरिकी समुदाय में अपनी पैठ मजबूत करने में मदद कर सकता है। ट्रंप की यह रणनीति एक संभावित निकट चुनावी मुकाबले में उन्हें अतिरिक्त बढ़त दिलाने का प्रयास हो सकती है।

तुम्हें बहुत जल्द देखेंगे ईरानी सेना के धमकी भरे ट्वीट से मध्य-पूर्व में हड़कंप

तेहरान,(ईएमएस)। ईरानी सेना ने इजराइल के खिलाफ एक धमकी भरा ट्वीट किया है जिससे मध्य-पूर्व में हड़कंप मच गया है। ईरानी सेना ने अपनी आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है- तुम्हें बहुत जल्द देखेंगे, जिससे यह साफ होता है कि यह संदेश इजराइल के लिए है, हालांकि ईरान ने किसी देश का नाम नहीं लिया है।इस ट्वीट से एक दिन पहले ईरान ने इजराइल के खिलाफ युद्ध की तैयारी के तहत बैलिस्टिक मिसाइलों और फाइटर जेटों के रिहर्सल की तस्वीरें साझा की थीं। ईरानी सेना ने इजराइल के तेल अवीव पर एक अक्टूबर को मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें इजराइल ने कहा था कि उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी थी कि उसने बड़ी गलती की है और इसके लिए उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा।ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने इजराइली हमले को लेकर कहा कि यह हमला न तो बहुत बड़ा था और न ही छोटा। ईरान सरकार के मुताबिकम इस हमले में 4 ईरानी सैनिकों की मौत हुई थी।

चीनी राजदूत ने ऐसा क्या कहा, पाकिस्तानी को लगी मिर्ची, घर में बेइज्जती

इस्लामाबाद (ईएमएस)। पाकिस्तान ने अपने सुरक्षा मुद्दों पर चीनी राजदूत जियांग जैडोंग के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि जियांग का बयान स्वस्थ राजनयिक परंपरा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जो वर्षों से इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच बनी रही है।चीनी राजदूत ने कराची में हुए आतंकी हमले पर टिप्पणी कर कहा था कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हुए हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। इस हमले में दो चीनी नागरिकों की मौत हुई थी। उन्होंने कहा कि केवल छह महीनों के भीतर दो गंभीर हमले होना, पाकिस्तानी सरकार के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है।जियांग ने कहा, शाहबाज सरकार को सभी चीन विरोधी आतंकवादी समूहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि सुरक्षा के बिना, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के विकास की संभावनाएँ कम होती हैं। इस पर पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता बलूच ने जियांग के बयान पर प्रतिक्रिया देकर कहा, पाकिस्तानी सरकार ने हमलों की जांच से संबंधित दस्तावेज चीन के साथ साझा किए हैं। इसके बाद चीनी राजदूत की टिप्पणी हमारे लिए चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर चीन की चिंताओं से पूरी तरह वाकिफ है और उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के कई नेताओं और राजनीतिक विश्लेषकों ने भी चीनी राजदूत की टिप्पणी पर नाराजगी जताकर इस अपने घर में बेइज्जती करार दिया है।चीन और पाकिस्तान पारंपरिक रूप से करीबी सहयोगी रहे हैं और दोनों देशों के नेता विभिन्न मंचों पर अपनी दोस्ती की कसमें खाते रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान में कई विकास परियोजनाओं में भारी निवेश किया है। लेकिन हाल के समय में पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को निशाना बनाने वाले हमलों ने इस संबंध में तनाव पैदा किया है।पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों में चीनी नागरिकों को लक्षित कर किए गए हमलों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे पाकिस्तान-चीन संबंधों में चिंता का माहौल बना है। इस मुद्दे पर चीन ने भी कई बार सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात की है, और इसकी चिंता को उठाया है। इस घटना ने पाकिस्तान और चीन के बीच राजनयिक संबंधों में एक नई चुनौती पेश की है।

ट्रंप ने साक्षात्कार से छेड़छाड़ करने पर टीवी नेटवर्क पर कराया केस दर्ज

10 अरब डॉलर के हर्जाने की मांग, कोर्ट में मुकदमा किया दायर



न्यूयॉर्क,(ईएमएस)। 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है जिसके चलते चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी नेटवर्क के खिलाफ 10 अरब डॉलर के हर्जाने की मांग करते हुए टेक्सास की एक कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साक्षात्कार को भ्रामक तरीके से संपादित किया है, जिसका उद्देश्य चुनाव को प्रभावित करना है।ट्रंप की लीगल टीम का कहना है कि टीवी नेटवर्क ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को जीत दिलाने के लिए चैनल पर प्रदर्शित समाचारों में बदलाव किया। आरोप लगाया गया कि ट्रंप को इस तरह पेश किया गया कि वह जीतते हुए नजर आ रहे थे, जबकि असलियत में उनकी स्थिति अलग थी। ट्रंप की टीम का यह भी कहना है कि टीवी नेटवर्क ने अपने प्रसिद्ध कार्यक्रम का उपयोग कर रिपोर्टिंग में निष्पक्षता का उल्लंघन किया है और हेरफेर की है।इस विवाद की जड़ कमला हैरिस के एक साक्षात्कार से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने इजराइल और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में बात की थी जिसमें हैरिस ने कहा था कि हमारे किए गए कामों के कारण इजराइल ने इलाके में कई आंदोलन किए हैं। हालांकि, जब अगले दिन यह साक्षात्कार प्रसारित हुआ तो आलोचकों ने इस पर सवाल उठाए। इसमें हैरिस को यह कहते दिखाया गया कि हम वह सब करने से नहीं रुकेंगे जो अमेरिका के लिए जरुरी है ताकि यह साफ हो सके कि इस युद्ध को खत्म करने की जरुरत पर हमारा क्या रुख है।ट्रंप और उनके सहयोगियों का आरोप है कि टीवी नेटवर्क ने साक्षात्कार के मूल हिस्से को संपादित कर एक नया खंड बनाया और उसे प्रसारित किया। टीवी नेटवर्क ने सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि वे इस मामले में पूरी ताकत से लड़ेंगे। ट्रंप के इस मुकदमे से चुनावी माहौल में और भी तात्कालिकता आ गई है, क्योंकि चुनावों में केवल कुछ दिन बचे हैं। इस तरह के विवाद चुनावी रणनीतियों और मीडिया के संबंधों पर एक नया प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं।

इजराइली हमले के बाद ईरान के आसमान में कोई एयर डिफेंस नहीं बचा

ईरान की मिसाइल साइटों के साथ-साथ कई रडार सिस्टम भी नष्ट

तेहरान,(ईएमएस)। हाल के दिनों में ईरान पर हुए इजराइली हमलों के बाद, अमेरिकी और इजराइली अधिकारियों ने कहा है कि ईरान का एयर डिफेंस पूरी तरह नष्ट हो चुका है। इजराइल ने ईरान में कई ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिनमें मिसाइल साइटें, ड्रोन प्रोडक्शन स्थल और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल थे। हालांकि, इजराइल ने ईरान के परमाणु और तेल ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। अमेरिकी डिफेंस अधिकारियों के मुताबिक पिछले हफ्ते हुए इजराइली हमलों ने ईरान की सभी प्रमुख एयर डिफेंस बैटरियों को नष्ट कर दिया है। इजराइल ने ईरान में बची हुई तीन एस-300 बैटरियों को भी नष्ट कर दिया है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति के मध्य पूर्व दूत ने बताया कि ईरान का आसमान इस समय पूरी तरह से खाली है और उसके पास कोई एयर डिफेंस नहीं बचा है। एक वरिष्ठ इजराइली अधिकारी ने कहा कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो चुका है, जिससे देश की सुरक्षा स्थिति कमजोर हो गई है। इजराइल ने करीब 100 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर ईरान के 23 स्थानों पर हमला किया था, जो 180 बैलिस्टिक मिसाइलों के ईरानी हमले का बदला था। इजराइल के हवाई हमलों ने ईरान की मिसाइल साइटों के साथ-साथ कई रडार सिस्टम को भी नष्ट किया है, जिससे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को फायर करने की क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।अधिकारी ने बताया कि मिसाइल साइटों को नष्ट करना पर्याप्त नहीं था; रडार सिस्टम को भी खत्म करना जरूरी था ताकि ईरान निकट भविष्य में मिसाइल हमले करने की स्थिति में न रहे। ईरान के एस-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसके परमाणु स्थलों के निकट तैनात थे, जिससे इजराइल को यह संदेश मिला है कि उसके परमाणु ठिकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है। इन हवाई हमलों के बाद, ईरान के लिए यह साफ है कि इजराइल की सैन्य क्षमताएं उसे कभी भी निशाना बना सकती हैं। इस स्थिति ने ईरान को अपनी सुरक्षा नीतियों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया है।

पाकिस्तान में मनी धूमधाम से दिवाली, पंजाब प्रांत की सीएम मरियम समारोह में हुई शामिल

कराची,(ईएमएस)। भारत समेत कई देशों में दिपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया, लेकिन पाकिस्तान में इसके प्रति कुछ लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आई है। एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल द्वारा किए सर्वे में कई नागरिकों ने दीपावली मनाने पर असहमति जताई है। सर्वे में भाग लेने वाले कुछ व्यक्तियों ने कहा कि दीपावली पाकिस्तान का त्योहार नहीं है लेकिन इन सब बातों को नकारते हुए पाकिस्तान में दीपावली बड़े उत्साह से मनाई गई। पंजाब प्रांत की सीएम मरियम नवाज ने हिंदुओं समुदाय को शुभकामनाएं दीं और खुद भी इस अवसर पर एक समारोह में शामिल होकर दीपावली का जश्न मनाया और वहां मौजूद लोगों मिठाई खिलाई। उन्होंने तस्वीरें साझा कीं, जिसमें वह एक हिंदू महिला को गले लगाते हुए दिखीं।

कमला हैरिस के साथी टिम वाल्ज़ पर चीन में रहस्यमय सीक्रेट अफेयर का खुलासा

वाशिंगटन(ईएमएस)। मिनेसोटा के गवर्नर और डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस के साथी टिम वाल्ज़ पर एक विस्फोटक खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, जब वाल्ज़ चीन में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, तब उनका एक सीक्रेट अफेयर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक अधिकारी की बेटी जेना वांग के साथ था, जिसने उन्हें खुदकुशी की कोशिश के कगार पर ला खड़ा किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह खुलासा 5 नवंबर को कमला हैरिस और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाले अंतिम मुकाबले से ठीक एक हफ्ते पहले आया है।चुनावी सर्वेक्षणों के अनुसार, दोनों के बीच व्हाइट हाउस के लिए कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वाल्ज़ पहले से ही आलोचनाओं का सामना कर रहे थे, खासकर जब उन्होंने कहा था कि वह 1989 में तियानमेन स्क्वायर विरोध प्रदर्शन के दौरान हांगकांग में थे, जिसमें 500 लोग मारे गए थे।59 वर्षीय जेना वांग ने बताया कि वह वाल्ज़ से तब मिलीं जब वह ग्वांगडोंग प्रांत के फोशान में अंग्रेजी शिक्षक थे। उन्होंने कहा, टिम बहुत हैंडसम थे। मुझे उनकी आंखें और उनका बड़ा मुंह बहुत पसंद था। वांग के पिता, जो कि सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में एक उच्च रैंक ऑफिसर थे, ने वांग को किसी पश्चिमी व्यक्ति के साथ रिश्ते बनाने से मना किया था, जिससे दोनों को अपने प्यार को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने में कठिनाई हुई। वांग ने आरोप लगाया कि वाल्ज़ ने उन्हें कई उपहार दिए और दोनों ने बंद दरवाजों के पीछे रोमांटिक क्षण साझा किए, जिसमें जॉर्ज माइकल के गाने सुनना भी शामिल था। उन्होंने कहा, हम पार्क में टहलते थे और शाम को डांस करने जाते थे। मैंने शादी और अमेरिका में जीवन का सपना देखना शुरू कर दिया।हालांकि, सामाजिक मान्यताओं के कारण वांग को कभी भी रात भर नहीं रुकने दिया गया। उन्होंने बताया, हम सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे को छू या चूम नहीं सकते थे, और यही बात इसे और रोमांचक बना देती थी जब हम अकेले होते थे। मैं उससे शादी करके परिवार शुरू करना चाहती थी। जब ऐसा नहीं हुआ, तो मुझे बहुत दुख और निराशा हुई। यह खुलासा न केवल वाल्ज़ की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है, बल्कि आगामी चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए भी चुनौती पेश कर सकता है। अब यह देखना होगा कि इस विवाद का राजनीतिक परिदृश्य पर क्या असर पड़ता है।

बांग्लादेश में फिर अराजकता, जातिया पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी

ढाका (ईएमएस)। बांग्लादेश में हाल के दिनों में फिर अराजकता का माहौल बना है। गुरुवार की रात ढाका में जातिया पार्टी के दफ्तर पर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, जिसमें उन्होंने दफ्तर में तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी।प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि जातिया पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 5 अगस्त से पहले प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर अत्याचार किए थे। इसके बाद सैकड़ों लोग रात में जातिया पार्टी के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए और नारेबाजी करने लगे। जब वे दफ्तर के अंदर घुसे, तब उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर आगजनी कर दी। आग इतनी तेजी से फैली कि दमकल विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही दफ्तर जलकर खाक हो गया।जातिया पार्टी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की समर्थक पार्टी है, के संस्थापक हुसैन मोहम्मद इरशाद थे, जो बांग्लादेश के सेना के पूर्व प्रमुख रहे हैं। हमले के दौरान पुलिस की अनुपस्थिति ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया, जब प्रदर्शनकारी खुद को छात्रों के रूप में प्रस्तुत करते हुए दफ्तर में तोड़फोड़ कर रहे थे।जातिया पार्टी के दफ्तर में आगजनी के कृत्य की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है। हालांकि, घटना को हसीना के विरोधियों का समर्थन प्राप्त माना जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने जातिया पार्टी को गद्दार करार दिया है और उनका कहना है कि उन्हें इसके लिए सजा मिलनी चाहिए।इस घटना से पहले, बांग्लादेश के राष्ट्रपति के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें एक संगठन ने उनके इस्तीफे की मांग की थी। यह मांग तब शुरू हुई जब राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने शेख हसीना का इस्तीफा पत्र नहीं देखा है। इस टिप्पणी के बाद से उनके इस्तीफे की मांग उठने लगी।

अमेरीकी राष्ट्रपति चुनावः डोनाल्ड ट्रंप 5 नवंबर को डालेंगे वोट

वाशिंगटन,(ईएमएस)। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए तय मतदान तारीख 5 नवंबर के आस-पास ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने का फैसला लिया है, जबकि पहले उन्होंने कहा था कि वह उससे पहले मतदान करेंगे। मीडिया रिपोर्ट में बताया किया है कि ट्रंप ने कहा था कि उनका इरादा समय से पहले मतदान करने का है। यह उनके समर्थकों के लिए एक प्रेरणा बन सकता है।हालांकि, ट्रंप और उनकी टीम मतदाताओं से जल्दी मतदान करने का आग्रह कर रहे हैं, जबकि ट्रंप खुद इस विकल्प की आलोचना करते रहे हैं और संभावित धोखाधड़ी के प्रति संदेह व्यक्त करते रहे हैं। ट्रंप ने कहा था कि मैं जल्दी मतदान करूंगा, लेकिन उनके अभियान से जुड़े एक व्यक्ति ने पुष्टि की कि वह ऐसा नहीं करेंगे।सूत्रों के मुताबिक ट्रंप मंगलवार सुबह फ्लोरिडा के पाम बीच में अपने एस्टेट के निकट मतदान करेंगे। इस परिवर्तन ने चुनावी रणनीति को लेकर नई चर्चाएं शुरू कर दी हैं, जबकि ट्रंप के समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक उनकी इस योजना पर नजर रखे हुए हैं।

इजराइल पर लेबनान के पास से दागे मिसाइल, सात की मौत, दो घायल

येरुशलम,(ईएमएस)। उत्तरी इजराइल पर लेबनान से किए गए मिसाइल हमले में चार विदेशी सहित सात लोगों की मौत हो गई है। इजराइली अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है कि उत्तरी शहर हाइफा के एक उपनगर में एक पुरुष और एक महिला की मौत हो गई है। इसके अलावा, दो अन्य घायल व्यक्तियों का उपचार किया जा रहा है।सेना ने बताया कि लेबनान से करीब 25 रॉकेट इजराइल पर दागे गए। इससे पहले दिन में, उत्तरी इजराइल के मेतुला प्रांत में हुए एक अन्य हमले में चार विदेशी मजदूरों समेत पांच लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि, मृतकों की नागरिकता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। हिज्बुल्लाह पिछले एक साल से उत्तरी इजराइल में रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन दाग रहा है। इस बीच, इजराइल भी जवाबी हमले कर रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इस हमले ने इजराइल में सुरक्षा चिंताओं को एक बार फिर बढ़ा दिया है और इसके संभावित परिणामों को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही हैं।

भारतीय टीम की तीसरे टेस्ट में खराब शुरुआत, चार विकेट पर 86 रन

न्यूजीलैंड पहली पारी 235

मुम्बई (ईएमएस)। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ यहां वानखेड़े स्टेडियम में आज शुरु तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भी लड़खड़ाती दिख रही है। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के पहली पारी के 235 रनों के जवाब में अपनी पहली पारी में 86 रनों पर ही अपने चार विकेट खो दिये थे। पहले दिन का खेल समाप्त होने के समय पर ऋषभ पंत 1 रन और शुभमन गिल 31 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारतीय टीम इस प्रकार अभी भी पहली पारी के आधार पर 149 रन पीछे है।

कीवी टीम ने पहले ये ही सीरीज में 2-0 से अपने नाम कर ली है। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान रोहित शर्मा केवल 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यशस्वी जयसवाल और शुभमन ने इसके बाद स्कोर 50 से पार करवाया। 18वें ओवर में भारतीय टीम को झटका लगा जब न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने जयसवाल को आऊट कर दिया। जयसवाल मात्र 30 रन ही बना पाए।वहीं इससे पहले आज सुबह न्यूजीलैंड टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। भारतीय टीम ने इस मैच में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज जबकि मेहमान टीम ने सेंटनर की जगह ईश साढ़ी को शामिल किया। भारत की ओर से वाशिंगटन सुंदर ने और रविंद्र जडेजा ने अच्छी गेंदबाजी करते हए 4 और 5 विकेट लिए।

सुबह के सत्र में सुंदर ने दो विकेट लिए। पर लंच के बाद न्यूजीलैंड की ओर से यंग और मिचेल ने अच्छी बल्लेबाजी कर अपनी टीम को संभाला। जडेजा ने इस जोड़ी को तोड़ा। उन्होंने ब्लंडेल को खाता भी नहीं खोलने दिया। इसके बाद फिलिप्स भी नहीं टिक सके।

तीन विकेट लेने के साथ ही जडेजा भारत के लिये सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में 5वें स्थान पर आ गए। उन्होंने तेज गेंदबाज जहीर खान और ईशांत शर्मा को भी पीछे छोड़ा जिनके 312 विकेट हैं। इससे पहले सुंदर ने दो विकेट लेकर न्यूजीलैंड को अच्छी शुरूआत नहीं करने दी। वहीं तेज गेंदबाज आकाश दीप ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। सुंदर ने टॉम लैथम 28 और रचिन रविंद्र 5 के विकेट लिए।

सुंदर ने कीवी बल्लेबाजों को जमने का अवसर नहीं दिया। उन्होंने तीसरे ओवर में कीवी कप्तान को बाहर निकलकर खेलने पर मजबूत किया और इस प्रकार अपना शिकार बनाया। रचिन रविंद्र भी बीसवें ओवर में ठीक इसी तरह से आउट हुए। इससे पहले तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज ने डेवोन कोंवे को पगबाधा आउट कर दिया था।

पंजाब ने केवल दो अनकैप्ड खिलाड़ियों को रिटेन कर हैरान किया

मुम्बई (ईएमएस)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 सत्र के लिए आईपीएल की सभी 10 टीमें ने अपने रिटेन खिलाड़ियों की सूची बीसीसीआई को सौंप दी। इसमें टीमों को ज्यादा से ज्यादा 6 खिलाड़ियों को रीटेन करने की अनुमति मिली थी पर कोलकाता नाइटराइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के अलावा अन्य टीमों ने इतने खिलाड़ियों को रिटेन नहीं किया। कई फ्रेंचाइजी टीमों ने अनुभवी जबकि कुछ ने नये खिलाड़ियों को रिटेन किया। सबसे अधिक हैरान पंजाब किंग्स ने किया। उसने दो नये खिलाड़ियों प्रभसिमरन सिंह और शशांक सिंह को ही रिटेन किया। आईपीएल में 2024 सत्र में इन दोनो ही प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। वीरे कई टीमों ने अपने अनुभवी खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया। ये भी कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा को मुम्बई इंडियंस रीलीज करेगी पर ऐसा नहीं हुआ और टीम ने उन्हें बरकरार रखा। सभी को लग रहा था कि रोहित कप्तानी से हटाने से नाराज है और वह मुंबई का साथ छोड़ देंगे पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रोहित हार्दिक पंड्या की कप्तानी में खेलने तैयार दिखे। वह फ्रेंचाइजी की रीटेंशन सूची में चौथे नंबर पर रहे। उन्हें मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2025 के लिए 16.30 करोड़ में रीटेन किया है।

पंजाब किंग्स की टीम ने केवल दो खिलाड़ियों को रीटेन किया है। और दोनों ही नाम अनकैप्ड हैं। ओपनर प्रभसिमरन को पंजाब किंग्स ने 4 करोड़ में रीटेन किया जबकि पंजाब किंग्स ने युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और ऑलराउंडर सैम करेन को रिलीज किया है। इन बड़े नामों की जगह इस फ्रेंचाइजी ने प्रभसिमरन सिंह और शशांक सिंह को आईपीएल 2025 के लिए टीम में बनाये रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों खिलाड़ियों का आईपीएल 2024 में प्रदर्शन शानदार रहा था। प्रभसिमरन ने पिछले सत्र में 334 रन बनाए थे। वह पंजाब किंग्स के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं। पंजाब किंग्स ने केवल दो ही खिलाड़ियों को रिटेन किया है। ऐसे में वह नीलामी में सबसे अधिक 110.5 करोड़ रुपये के साथ उतरेगी और उसका लक्ष्य बेहतर खिलाड़ियों को जोड़ना रहेगा।

नीलामी में प्लेसिस , राहुल सहित इन पांच क्रिकेटर को मिल सकती है बड़ी रकम

मुम्बई (ईएमएस)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के लिए रिटेनशन प्रक्रिया पूरी हो गयी है। इस दौरान कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) ने सेबसे ज्यादा 6 खिलाड़ियों को अपने पास बनाये रखा हालांकि उसने कप्तान श्रेयस अय्यर को रिलीज कर दिया है। यही नहीं, दिल्ली कैपिटलस ने भी ऋषभ पंत को रिलीज कर दिया। इसके अलावा अर्शदीप को भी पंजाब किंग्स ने रिटेन नहीं किया। इन तीन खिलाड़ियों को रिटेन नहीं करने का इनकी टीमों का फैसला बेहद हैरानी भरा रहा। अब ये तीनों ही नीलामी में आकर्षण का केन्द्र होंगे। **फाफ डु प्लेसिस** : दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस को आरसीबी ने रिलीज कर दिया है। उनपर भी सभी फ्रेंचाइजी कड़ी रकम लगा सकती हैं। **इशान किशन** : युवा ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने रिलीज कर दिया है। ऐसे में अब वह भी नीलामी में उतरेंगे। **के एल राहुल** : लखनऊ सुपर जाइंट्स ने केएल राहुल को रिलीज कर दिया है। पिछले सत्र में टीम मालिक संजीव गोयनका के साथ बहस के बाद से ही माना जा रहा था कि अगले सत्र में उन्हें नहीं रखा जाएगा। अब से अनुमान सही साबित हुआ है। राहुल नीलामी में आएंगे। उनपर आरसीबी बड़ा दांव लगा सकती है। राहुल आरसीबी से पहले भी खेल चुके हैं। **श्रेयस अय्यर** : कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने कप्तान श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं किया गया। उनका रिटेन न होना कई बड़े सवाल खड़े कर गया है। माना यह भी जा रहा है कि श्रेयस फिलहाल फिटनेस और खराब प्रदर्शन की समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि इस सबके बावजूद वह आईपीएल में फेवरेट हो सकते हैं। दिल्ली उन्हें टीम में शामिल कर सकती है। **ऋषभ पंत**: दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत को रिलीज कर दिया है। इससे साफ है तो कि वह नीलामी में उतरेंगे। एक कयास यह भी है कि चेन्नई सुपर किंग्स उनपर दांव खेल सकती है लेकिन यह भी माना जा रहा है कि उन्हें आरसीबी भी खरी सकती है। ।

आईपीएल रिटेंशन से नये क्रिकेटरों को मिली करोड़ों की राशि

मुम्बई (ईएमएस)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के लिए टीमों ने कई खिलाड़ियों को रिटेन किया है। इस दौरान कई नये और युवा खिलाड़ियों को करोड़ों का लाभ हुआ है। इसी कारण कई क्रिकेटर ऐसे हैं जिनके वेतन में 700 गुणा तक की बढ़त आई है। आईपीएल की इस नई रिटेंशन नीति से इइन नये क्रिकेटर को करोड़ों का फायदा हुआ है। इससे युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल , तेज गेंदबाज मयंक यादव के अलावा रजत पाटीदार और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों कर पैसे की बरसात हुई है।

मयंक यादव : लखनऊ सुपर जायंट्स ने तेज गेंदबाज मयंक को 2023 में 20 लाख में खरीदा था। उस साल वह खेल नहीं पाए थे लेकिन 2024 सीजन में उन्होंने ऐसी धूम मचा दी कि लखनऊ प्रबंधन ने उन्हें 11 करोड़ की राशि देकर बरकरार रखा है।

रजत पाटीदार : पाटीदार को शुरु में मात्र 20 लाख रुपए ही मिले। बड़ी टीमों के खिलाफ दबाव में प्रदर्शन का ईनाम उन्हें मिला है कि अब उन्हें आरसीबी जैसी टीम ने रिटेन कर लिया है। पाटीदार को रिटेंशन के कारण 11 करोड़ की राशि अब मिलेगी।

ध्रुव जुरेल : जुरेल को 2022 में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख कीमत पर खरीदा गया था। दो साल ही में वह अपनी टीम के लिए इतने प्रमुख हो गए हैं कि उन्हें भविष्य का सितारा मानकर रिटेन कर लिया गया है। उन्हें अब 14 करोड़ रुपए मिलेंगे जोकि 20 लाख के मुकाबले 700 गुणा ज्यादा है।

रिंकू सिंह : कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए धूम मचाने वाले आक्रामक क्रिकेटर रिंकू सिंह 2022 में 55 लाख की कीमत पर बिके थे। उन्होंने पिछला सीजन इन्हीं पैसों में खेला था। उन्हें कोलकाता रिटेंशन से अब 13 करोड़ रुपए देगी।

ट्रिस्टन स्टब्स : दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर ट्रिस्टन दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हैं। पिछले सीजन में 2024 सीजन 50 लाख में रखा था लेकिन अब उन्हें 10 करोड़ रुपए मिलेंगे।

साईं सुदर्शन : गुजरात टाइटंस के साईं को 2022 में उन्हें 20 लाख का बेस प्राइस मिला था लेकिन इस बार रिटेशन के कारण उन्हें 8.5 करोड़ रुपए मिलेंगे।

नीतीश रेड्डी : 2023 में नीतीश को केवल 20 लाख रुपए का ही दिये गये थे लेकिन अब प्रबंधन ने उन्हें 6 करोड़ रुपए में रिटेन करना पड़ा।

शशांक सिंह : पंजाब किंग्स ने 2024 मिनी नीलामी में शशांक सिंह को गलती से खरीदा था पर अपने खेल से शशांक ने सबको प्रभावित किया। इस बार उन्हें पंजाब ने 5.5 करोड़ में रिटेन किया है।

कप्तान के तौर पर रिटेन किये जाने से उत्साहित हैं हार्दिक

नई दिल्ली (ईएमएस)। ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को मुंबई इंडियंस ने कप्तान के तौर पर एक बार फिर रिटेन किया है। जिसपर पांड्या ने खुशी जतायी है। साथ ही कहा कि उन्हें जो कुछ भी मिला है वह टीम में रहने से ही मिला है। इसलिए टीम का हिस्सा होना उनके लिए सबसे अहम है। साथ ही कहा कि टीम ने अपने पांच मुख्य खिलाड़ियों को जसप्रीत बुमराह (18 करोड़ रुपए), हार्दिक (16.35 करोड़ रुपए), सूर्यकुमार यादव (16.35 करोड़ रुपए), रोहित शर्मा (16.30 करोड़ रुपए) और तिलक वर्मा को 8 करोड़ में बनाये रखा है।

हार्दिक ने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे वापस बहुत सारा प्यार मिला है, जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी यात्रा यहीं से शुरू हुई और मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है वह मुंबई इंडियंस के कारण ही संभव हुआ है। हम पांच उंगलियां हैं लेकिन मुट्ठी एक है। वहीं टीम के पूर्व कप्तान रोहित ने कहा कि मैं फिर से मुंबई इंडियंस का हिस्सा बनकर उत्साहित हूं। मैंने यहां बहुत क्रिकेट खेला है। यही वह जगह है जहां मैंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की है। इसलिए, यह शहर बहुत-बहुत खास है और मैं यहां आकर खुश हूं। रोहित ने पांच भारतीय खिलाड़ियों को बरकरार रखने के मुम्बई के फैसले का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि जो खिलाड़ी उच्चतम स्तर पर राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मैं इसी पर विश्वास करता हूं और इससे उत्साहित हूं।

ऋषभ को इसलिए रिटेन नहीं कर पाये : पार्थ

चयन में कई बातों का रखना होता है ध्यान

नई दिल्ली (ईएमएस)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के लिए दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के अपनी टीम के कप्तान ऋषभ पंत को रिटने नहीं किये जाने पर सभी ने हैरानी जताय है। वहीं इसी को लेकर अब कैपिटल्स के सहमालिक पार्थ जिंदल का बयान आया है। इसमें पार्थ ने ऋषभ को रिटेन नहीं करने के कारण बताये हैं। फ्रेंचाइजी ने चार खिलाड़ियों अक्षर पटेल (16.5 करोड़ रुपये), अभिषेक पोरेल (4 करोड़ रुपये), ट्रिस्टन स्टब्स (10 करोड़ रुपये) और कुलदीप यादव (13.25 करोड़ रुपये) को रिटेन किया है।ऋषभ साल 2016 से ही दिल्ली के साथ थे लेकिन वह 8 सत्र के बाद उनसे अलग हो गए हैं। इसी को लेकर जिंदल ने कहा कि अक्षर, कुलदीप, ट्रिस्टन और अभिषेक को शामिल करने से हमारे पास अनुभव और युवा प्रतिभा का आदर्श मिश्रण हुआ है। मैं टीम के लिए अधिक खिलाड़ियों को बरकरार रखना पसंद करूंगा पर नियमों का के अनुसार हमें चयन में कई बातों का ध्यान रखना होता है। जिंदल ने कहा कि नीलामी में जाने पर हमारे पास दो आरटीएम कार्ड होंगे और इससे उन खिलाड़ियों के साथ बने रहने का रास्ता हमारे पास रहेगा, जो पहले से टीम में रहे हैं। हम जानते हैं कि हम किसे चाहते हैं और यह पक्का करेंगे कि सभी नहीं तो कुछ खिलाड़ी वापस आ जाएं। हम एक मजबूत और संतुलित टीम बनाना चाहते हैं जो आईपीएल ट्रॉफी जीत सके। वहीं ऋषभ के कार्यकाल की बात करें तो वह अभी भी दिल्ली कैपिटल्स की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और अनुभवी स्पिनर अमित मिश्रा के साथ सबसे ज्यादा कैप्ड खिलाड़ी भी हैं। वहीं फ्रेंचाइजी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर हेमांग बदानी और वेणुगोपाल राव को मुख्य कोच (आईपीएल) और क्रिकेट निदेशक (आईपीएल) नियुक्त किया था।राव ने कहा कि मैं नए आईपीएल चक्र से पहले इस नई चुनौती का इंतजार कर रहा हूं। फ्रेंचाइजी के साथ मेरा जुड़ाव लंबे समय से है, और हमारे मालिकों ने मुझे यह भूमिका देकर मुझ पर जो भरोसा जताया है, उसके लिए मैं आभारी हूं। वहीं नये कोच बदानी ने कहा कि दिल्ली कैपिटल्स में शामिल होना मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है, और इस काम के लिए मुझ पर भरोसा करने के लिए मैं अपने मालिकों का बहुत आभारी हूं।

क्लासेन रिटेन किये सबसे महंगे विदेशी बने

भारतीयों में विराट शीर्ष पर रहे

मुम्बई (ईएमएस)। इंडियन प्रमियर लीग (आईपीएल) 2025 के लिए रिटेन किये सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ियों में सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन नंबर एक पर रहे। दक्षिण अफ्रीका के क्लासेन को सनराइजर्स ने 23 करोड़ में अपने साथ बनाये रखा। वहीं सबसे महंगे खिलाड़ियों में वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन भी शामिल हैं। भारतीय क्रिकेटरों की बात करें तो विराट कोहली आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं।

विराट को आरसीबी ने 22 करोड़ में रिटेन किया है। सनराइजर्स एकमात्र टीम है जिसने दो खिलाड़ियों को 20 करोड़ से ज्यादा में रीटेन किया है। इस फ्रेंचाइजी ने आईपीएल 2024 में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को 20.50 करोड़ में रखा था पर इस बार क्लासेन को 23 करोड़ में रीटेन किया है। विकेटकीपर बल्लेबाज क्लासेन ने आईपीएल 2023 में 448 रन बनाए थे जबकि पिछले सीजन 2024 में 479 रन बनाये थे। वहीं मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने आईपीएल 2024 ऑक्शन में 24.75 करोड़ में खरीदा था। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज स्टार्क का ये रिकॉर्ड इस बार भी कायम है। .विराट एक बार फिर आरसीबी के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। कोहली को आरसीबी ने 21 करोड़ में रीटेन किया है। कोहली के नाम आईपीएल में सबसे अधिक रन और शतक का रिकार्ड है। वहीं लखनउ सुपर जॉयंट्स ने विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन को 21 करोड़ में रिटेन किया है।

पूरन लखनउ टीम के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। उन्होंने केएल राहुल के रिकॉर्ड को तोड़ा। जो 2022 मेगा नीलामी से पहले इस फ्रेंचाइजी में 17 करोड़ में शामिल हुए थे। पंजाब किंग्स ने ऑलराउंडर सैम करेन को आईपीएल 2023 ऑक्शन में 18.50 करोड़ में खरीदा था। इसके बाद करेन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। इससे पहले वह 2022 टी20 विश्व कप में भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। यह पंजाब किंग्स के साथ यह उनका दूसरा सीजन होगा।

वहीं स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें फ्रेंचाइजी ने 18 करोड़ में रीटेन किया। मुम्बई ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को पिछली बार 17.50 करोड़ में खरीदा था। फ्रेंचाइजी ने ग्रीन को आईपीएल 2023 में अपने साथ जोड़ा था। गुजरात टाइटंस ने राशिद खान को 18 करोड़ में रीटेन किया। राशिद गुजरात टाइटंस के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। राशिद को इस फ्रेंचाइजी ने आईपीएल 2022 ऑक्शन में 15 करोड़ में खरीदा था। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ को चेन्नई सुपरकिंग्स ने रीटेंशन में 18 करोड़ में रीटेन किया।

संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल को राजस्थान रॉयल्स ने 18-18 करोड़ में रीटेन किया।

साईं सुदर्शन और पड्डिकल ने भारत ए को संभाला

सिडनी (ईएमएस)। साईं सुदर्शन और देवदत्त पड्डिकल के अच्छे प्रदर्शन से इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया ए को करारा जवाब दिया है। भारतीय ए टीम यहां पहले ही दिन 107 रन पर ऑलआऊट हो गई थी जकि ऑस्ट्रेलिया ए ने 195 रन पर बनाये। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ऐ ने 2 विकेट खोकर 208 रन बना लिए हैं। क्रीज पर साईं सुदर्शन 96 तो देवदत्त पड्डिकल 80 रन बनाकर खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ए के तेज गेंदबाज ब्रेंडन डोगेट ने 11 ओवरों में 15 रन देकर छह विकेट लेकर भारत ए 107 रन पर ही रोक दिया। पहली पारी में अभिमन्यु ईश्वरन 07 नीतीश रेड्डी शून्य पर आउट हो गये। साईं सुदर्शन (21) और नवदीप सैनी (23) भारत की तरफ से दोहरे अंक में पहुंचने वाले अन्य बल्लेबाज थे।ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खबर अच्छी नहीं रही क्योंकि सलामी बल्लेबाज के रूप में सैम कोन्स्टास शून्य , कैमरून बैनक्रॉफ्ट शून्य और मार्कस हैरिस 17 अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। कप्तान मैक्स्वीनी 39, वेबस्टर 33 तो मफीर् ने 33 रन बनाए और टीम 195 रन पर ही ऑलआऊट हो गई। भारत की ओर से मुकेश कुमार ने 46 रन देकर 6 तो प्रसिद्ध कृष्णा ने 59 रन देकर 3 विकेट लिए। दूसरी पारी में भारत के दोनों ओपनर्स जल्द आऊट हो गए। अभिमन्यू ने महज 12 तो ऋतुराज ने 5 ही रन बनाए। ऐसे समय में साईं सुदर्शन ने देवदत्त पड्डिकल के साथ मिलकर स्कोर आगे बढ़ाया। भारत ए ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट खोकर 208 रन बना लिए हैं।

केकेआर के साथ अपनी यात्रा जारी रखने को लेकर उत्साहित हूं : वरुण

नई दिल्ली (ईएमएस)। रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के सत्र लिए कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) ने 12 करोड़ रुपय में रिटेन किया है। इससे भावुक होकर वरुण ने कहा कि टीम के साथ अपनी यात्रा को लेकर उत्साहित हूं। केकेआर ने जहां रिंकू सिंह को 13 करोड़ रुपये में रिटेन किया। वहीं वरुण को सुनील नारायण और आंद्रे रसेल के साथ 12-12 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया है। इससे वरुण काफी खुश हैं। इसका कारण है कि वह कोलकाता की टीम का हिस्सा रहे और फ्रेंचाइजी के लिए सबसे अधिक 21 विकेट उनके नाम रहे थे।टीम मैनेजमेंट के रिटेन करने के बाद वरुण ने एक भावुक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया। इस वीडियो में वह केकेआर की जर्सी उठाते हुए टीम के प्रति सम्मान व्यक्त करते दिख रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा एक बार फिर केकेआर का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला। पर्पल और गोल्ड के लिए प्रतिबद्ध। केकेआर के साथ अपनी यात्रा जारी रखने के लिए उत्साहित हूं। इन सभी वर्षों में मिले समर्थन के लिए केकेआर टीम मैनेजमेंट, मालिकों और विशेष रूप से प्यारे प्रशंसकों का आभार व्यक्त करता हूं। हमारी यात्रा जारी है।

पेरिस में फ्रांस के अर्थुर फिल्स एटीपी मास्टर्स टेनिस में रिटर्न शॉट लगाते हुए।

इविन लुईस के शानदार प्रदर्शन से वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया

नॉर्थ साउंड (ईएमएस)। इविन लुईस के शानदार प्रदर्शन से वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को तीन एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में 8 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड की टीम इस मैच में केवल 209 रनों ही सिमट गयी। वेस्टइंडीज के गुडाकेश मोती ने चार जबकि अल्जारी जोसेफ, जायडेन सील्स और मैथ्यू फोर्डे ने 2-2 विकेट लिए। इसके बाद वेस्टइंडीज को डकवर्थ-लुईस-स्टर्न नियम के तहत ही 35 ओवर में जीत के लिए 157 रनों का लक्ष्य मिला जो उसने आसानी से 9 ओवर में ही हासिल कर लिया। लुईस ने इस मैच में अर्धशतक लगाया। बारिश के समय वेस्टइंडीज ने 81 रन बनाये। उस समय लुईस 48 गेंद पर 51 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद जब खेल वापस शुरु हुआ तो लुईस ने जमकर बल्लेबाजी शुर की। वहीं अगली 21 गेंदों पर 43 रन बनाकर उन्होंने वेस्टइंडीज को जीत दिला दी। वह छह रनों से शतक पूरा नहीं कर पाये। लुईस ने 69 गेंदों पर 5 चौके और 8 छक्कों की सहायता से 94 रन बनाये। लुईस के अलावा वेस्टइंडीज की ओर से ब्रैंडन किंग ने 30 रन बनाए। पहले विकेट के लिए किंग और लुईस के बीच 118 रनों की साझेदारी हुई। इंग्लैंड की ओर से आदिल रशीद और कप्तान लियाम लिविंगस्टोन ने एक-एक विकेट लिया।वहीं इससे पहले इंग्लैंड की ओर से सभी बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की पर कोई भी कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाया। शीर्ष-6 में शामिल सभी बल्लेबाज 15 रनों से आगे नहीं बढ़ पाये। केवल कप्तान लियाम लिविंगस्टोन ही 49 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 48 रन बना पाये।

सम्पूर्ण कोयलांचल में दीपावली, काली पूजा हर्षोल्लास के वातावरण में धूमधाम के साथ मनाई गई

धनबाद, संपूर्ण कोयलांचल में दीपावली काली पूजा हर्षोल्लास के वातावरण में धूमधाम के साथ मनाई गई l दीपावली के अवसर पर श्रद्धालु भक्तों ने अपने प्रतिष्ठानों एवं घरों में गणेश लक्ष्मी की पूजा अर्चना की l देर रात तक पूरे शहर में लोगो नें जमकर पटाखे फोड़े l लोगों ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं भी देते हुए नजर आए l हीरापुर स्थित पोस्ट क्वार्टर के समीप माँ काली मंदिर में मां काली की पूजा अर्चना लोगों ने श्रद्धापूर्वक किया l वही दुर्गा मंदिर के प्रांगण में स्थित मां काली की पूजा अर्चना श्रद्धालु भक्तों ने की l जे, सी मलिक रोड स्थित खोखन तलाव के समीप मां काली की भव्य प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धालु भक्तों ने पूजा अर्चना की l पार्क मार्केट स्थित चिल्ड्रन पार्क में मां काली का भव्य पंडाल का निर्माण किया गया l इस पंडाल का प्रारूप प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर के रूप में दर्शाया गया l देर रात तक श्रद्धालु भक्तों ने मां की पूजा अर्चना की l पूजा के तत्पश्चात माता का प्रसाद सभी श्रद्धालु भक्तों ने ग्रहण किया lवही दूसरी ओर झरिया कोयलांचल के जोड़ापोखर क्षेत्र में दिवाली, कालीपूजा महोत्सव उल्लास पूर्ण वातावरण में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के प्रसिद्ध काली पूजा शालीमार टाटा कॉलोनी परिसर में श्री श्री सर्बोजनिन काली पूजा कॉमेटी के द्वारा 47 वां वार्षिक पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया l इस अवसर पर कॉमेटी द्वारा काल्पनिक आकृति के मंदिर का भव्य पंडाल निर्मित कर माँ काली की प्रतिमा स्थापित की गईचार दिनों तक यहां होनेवाली महोत्सव के मौके पर पूजा स्थल को आकर्षक अलौकिक आलोक सज्जा से सुसज्जित किया गया l देवी काली का मूर्ती का विसर्जन सोमवार को किया जायेगा। कमिटि के सचिव,काजोल रॉय ने बताया है की पुजा में भक्तों द्वारा गुरुवार की रात में देवी काली की पूजा अर्चना किया गया l वही शुक्रवार को महाचंडी पाठ का आयोजन किया गया,जिसमें भक्तो का तांता लगा हुआ था l भक्तों में महिला भक्तों की उपस्थिति अधिक देखी गई । इस अवसर पर पूजा परीसर के इर्दगिर्द छोटा मिना बाजार का भी आयोजन किया था l जिसमें भक्तों द्वारा ख़रीदारी करते हुए देखा जा रहा था l भक्तों के अलावे खास कर माँ काली के दर्शन के लिए विधानसभा चुनाव के कई प्रत्याशी देवी के चरणों मे माथा टेक कर सफल होने का आशीर्वाद भी मांगा lआयोजक मंडली में किशोर कुमार,बप्पी घोष, शुभाशीष घोष, शुभाशीष रॉय, विश्वनाथ मोदी,फाल्गुनी मुखर्जी, सुरजीत बनर्जी,हरिराम यादव,रामु साव आदि शामिल थे l

जोड़ापोखर थाना के पीछे सुन्दरनगर बस्ती काली मंदिर में भव्य काली पूजा का आयोजन किया गया l वही बरारी मोड़ काली मंदिर में अग्रणी यूथ क्लब द्वारा काली पूजा का आयोजन किया गया । यहां पर कमिटी के सचिव, रंजीत सिंह ने भक्तों के सहयोग से बेहतर काली पूजा का आयोजन किया l

दीपावली की खुशी के बीच बीजेपी को झटका, ब्रह्म सिंह तंवर ने ली आप की सदस्यता

नई दिल्ली,(ईएमएस)। पूर्व नेता ब्रह्म सिंह तंवर ने दीपावली की खुशी के बीच बीजेपी को झटका दिया और आम आदमी पार्टी (आप) का दामन थाम लिया है। उन्होंने पार्टी की सदस्यता आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में ग्रहण की। तंवर ने कहा कि उन्होंने बीजेपी से संबंध तोड़ने और आप के साथ काम करने का मन बना लिया है। ब्रह्म सिंह तंवर तीन बार विधायक और तीन बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने 1993 और 1998 में महरौली से और 2013 में छतरपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तंवर की पहचान एक गुर्जर नेता के रूप में है और उनकी आप में शामिल होने के बाद, छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से उन्हें पार्टी का टिकट मिलने की संभावना है, खासकर जब छतरपुर से वर्तमान आप विधायक करतार सिंह तंवर ने बीजेपी में शामिल हो गए हैं।

ब्रह्म सिंह तंवर ने कहा कि मैंने पूरा मन बनाकर बीजेपी के साथ संबंध तोड़कर आप के साथ काम करने का फैसला लिया है। अरविंद केजरीवाल के उत्साह और विकास को देखकर मैंने उनके साथ जुड़ने का फैसला किया है। केजरीवाल ने तंवर का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि यह हमारे लिए बेहद खुशी का दिन है। ब्रह्म सिंह जैसे बड़े नेता के आप में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी 12 साल पुरानी है और दिल्ली के बाद पंजाब में भी सरकार बना चुकी है, जिससे और भी नेता पार्टी में शामिल हो रहे हैं।

ब्रह्म सिंह तंवर का आम आदमी पार्टी में शामिल होना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है, जो आप को नई ताकत और पहचान दे सकता है। उनकी अनुभव और प्रतिष्ठा पार्टी के विकास में सहायक सिद्ध हो सकती है, खासकर दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में।

गोवर्धन पूजा पर जरूरी है इस कथा का पाठ, इसके बिना अधूरा है व्रत

नई दिल्ली(ईएमएस)। सनातन धर्म में गोवर्धन पूजा का खास महत्व है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा होती है। इस शुभ दिन को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। हिंदू धर्मग्रंथ, भागवत पुराण के अनुसार, एक समय की बात जब गोकुलवासी इंद्र देव की पूजा करते थे, लेकिन एक दिन भगवान कृष्ण ने उन्हें भगवान इंद्र की पूजा न करने और गोवर्धन पहाड़ी की पूजा करने के लिए कहा। इस पर्व को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। यह शुभ दिन भगवान कृष्ण की पूजा के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, श्री कृष्ण को समर्पित यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस साल गोवर्धन पूजा 2 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 01 नवंबर को शाम 06 बजकर 16 मिनट से होगी। वहीं, इस तिथि का समापन 02 नवंबर को रात 08 बजकर 21 मिनट पर होगा। ऐसे में गोवर्धन पूजा का पर्व 02 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 06 बजकर 34 मिनट से 08 बजकर 46 मिनट तक रहेगा। सभी लोगों ने कृष्ण की बात मानकर अन्नकूट की पूजा प्रारंभ कर दी।

इस बात से भगवान इंद्र अति क्रोधित हो गए और उन्होंने मूसलाधार बारिश करना शुरू कर दिया, जिससे गोकुल में कोहराम मच गया। तब भगवान कृष्ण ने गोकुलवासियों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। श्रीकृष्ण की दिव्य शक्तियों को पहचानकर इंद्र देव शांत हो गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके लिए उन्होंने क्षमा मांगी और बारिश बंद कर। तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा की शुरुआत हुई।

डीएवी बनियाहीर स्कूल की दो छात्राओं ने सीए की परीक्षा में सफलता प्राप्त की

धनबाद, लेखा परीक्षक सितम्बर 2024 सत्र की प्रतिष्ठित परीक्षा में डीएवी बनियाहीर की दो छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन के साथ सफलता प्राप्त कर विद्यालय और अपने अभिभावाकों का नाम ऊँचा किया है। ज्ञात हो की यह प्रतिष्ठित परीक्षा इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया संस्था के मार्गदर्शन में संपन्न होती है। छात्राएँ वैशाली कुमारी और सृष्टि कुमारी सत्र 2019-21में डीएवी बनियाहिर की छात्राएँ रही है।इनकी सफलता पर पूरा विद्यालय परिवार गौरवान्वित हुआ है।

इनके वर्ग शिक्षक रहे शुभंकर सरकार ने अपनी शुभकामनाएँ देते हुए बताया कि उक्त दोनों छात्राएँ प्रारम्भ से हीं परिश्रमी व मेधावी रही हैं। सृष्टि और वैशाली ने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय के शिक्षकों, अपने अभिभावकों तथा विद्यालय प्रबंधन को दिया।प्राचार्य सैयद एज़ाज अहमद ने अपनी शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि सफलता का एक मात्र रहस्य, दृढ़ संकल्प,कठिन परिश्रम, उचित मार्गदर्शन व लक्ष्य के प्रति सम्पूर्ण निष्ठा है। जीवन में कोई भी लक्ष्य असम्भव नहीं हैं।आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि लक्ष्य को निर्धारित कर उचित मार्गदर्शन में कठिन परिश्रम करें।

दिवाली के मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू और उपराष्ट्रपति धनखड़ से मिले पीएम मोदी

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दीं। शिष्टाचार मुलाकात में पीएम मोदी ने दोनों शीर्ष नेताओं के साथ दिवाली की खुशियों को साझा किया, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करना और राष्ट्रीय एकता का संदेश देना था। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू की मुलाकात की तस्वीरें साझा कीं। तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें दिवाली

की शुभकामनाएं देते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में भेंट की। उपराष्ट्रपति सचिवालय और पीएमओ द्वारा साझा की गई तस्वीरों में दोनों नेता आपस में बातचीत करते हुए और त्योहार की खुशियों का आदान-प्रदान करते नजर आए। प्रधानमंत्री की यह मुलाकात सांस्कृतिक जुड़ाव और भारतीय परंपरा का प्रतीक मानी जा रही है, जहां शीर्ष नेताओं ने आपसी सद्भाव को साझा किया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पर देशवासियों ने भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को शुभकामनाएं दीं।

दिल्ली में दीवाली के रात 318 जगह लगी आग, रातभर भगती रहीं फायर ब्रिगेड

नई दिल्ली(ईएमएस)। जब पूरा देश आतिशबाजी के साथ दीपोत्सव मना रहा था तब दिल्ली का फायर ब्रिगेड अमला जगह जगह की आग बुझाता फिर रहा था। करीब 318 जगह आग लगी,जिसे बुझाने के लिए पूरी रात दमकल शहरभर में दौड़ती रहीं। 31 अक्टूबर को दिल्ली के फायर ब्रिगेड दफ्तर में आग लगने की 318 कॉल आईं। ये कॉल 31 अक्टूबर से लेकर अब तक के बताए जा रहे हैं। यानी ये आंकड़ा 24 घंटे का है। दमकल के मुताबिक इन सभी कॉल्स को देखते हुए गाड़ियां भी भेजी गई थीं। बताया जा रहा है कि द्वारका के छावला इलाके में पटाखे के साथ एक यात्री यात्रा कर रहा था, जब पटाखे में आग लग गई। इसके बाद पटाखे फूटने लगे, जिससे बस में आग भड़क गई। इस घटना में दो लोग घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इसके साथ ही दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण के लेवल में खतरनाक इजाफा हुआ है। खराब हवा ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में 24 घंटे का औसत प्रदूषण भी बढ़कर 359 पर पहुंच गया है। आतिशबाजी की वजह से दिल्ली का मौसम धुंधला सा हो गया है। दिल्ली का कई जगहों पर पीएम 215 का स्तर तय सीमा से कई गुना ज्यादा हो गया है। शुक्रवार सुबह 6 बजे दिल्ली के नेहरू

नगर, पटपड़गंज, अशोक विहार और ओखला में एक्यूआई का स्तर 350 से 400 के बीच रहा।

नोएडाः सोसाइटी में मची भगदड़

नोएडा के ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुपरटेक ईकोविलेज एक सोसाइटी की 17वीं मंजिल पर भी आग लग गई। यह घटना बिसरख पुलिस स्टेशन इलाके की है, जिसमें सोसाइटी के लोग फ्लैट छोड़ नीचे आ गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया। समय रहते आग पर काबू पा लिया

गाजियाबाद के इंदिरापुरम में ज्ञान खंड 3 के एक फुटवियर की दुकान में भीषण आग लग गई। इस घटना में एक फ्लैट भी आग की चपेट में आ गया। फायर ब्रिगेड की छह गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की और समय रहते वहां फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शॉर्ट-सर्किट और पटाखों को इस आग का कारण माना जा रहा है।

भारत-अमेरिकी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'वज्र प्रहार' अमरीका में

नई दिल्ली। भारत-अमेरिकी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'वज्र प्रहार' का 15वा संस्करण यूएसए के इडाहो स्थित ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में होगा। 2 नवंबर से 22 नवंबर तक चलने वाले इस अभ्यास में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना की स्पेशल फोर्सेस हिस्सा ले रहीं हैं। ज्ञात रहे कि संयुक्त सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाना, संयुक्त अभियानों में सुधार करना और विशेष अभियानों की रणनीतियों का आदान-प्रदान करना है। यह संयुक्त अभ्यास दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी और साझा सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस दौरान विशेष अभियानों में आतंकवाद विरोधी रणनीतियों और एयरबोर्न मिशन, ऊंचाई से सैनिकों का उतारना, पानी के माध्यम से प्रवेश, दूरस्थ लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगाना और हवाई नियंत्रण जैसे अभ्यास शामिल होंगे।

बटेंगे तो कटेंगे का नारा आया अब चुनावी अखाड़े में, एक हैं तो सेफ हैं की सुनाई दे रही गूंज

नई दिल्ली(ईएमएस)। देश के दो राज्यों में विधानसभा चुनाव का शोर सुनाई दे रहा है जबकि कई राज्यों में उपचुनाव भी हैं। इस संग्राम में चुनावी नारों की धूम भी मची हुई है। पहले बंटेंगे तो कटेंगे सुनाई दिया अब एक हैं तो सेफ हैं गूंज रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के चुनावों में बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे का जिक्र किया था, जिसने पार्टी को बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई। हरियाणा में आक्रामक हिंदुत्व की पिच पर योगी आदित्यनाथ का प्रचार काफी प्रभावी रहा और चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी की जीत में इसका बड़ा योगदान था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने भी मुख्यमंत्री योगी की इस टिप्पणी का समर्थन किया था। संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि देश की एकता के लिए समाज का मिलजुलकर रहना आवश्यक है। अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी इसी रुख पर चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के एक हैं तो सेफ हैं नारे को पार्टी द्वारा समाज में एकता और सुरक्षा का संदेश देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री और पार्टी नेताओं द्वारा दिए गए ये संदेश कोर वोटर्स को आकर्षित करने के उद्देश्य से दिए जा रहे हैं, जिससे इन राज्यों में चुनावी जीत सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत की एकता और अखंडता पर जोर देते हुए कहा कि देश को शहरी नक्सलियों के नए मॉडल से सावधान रहने की जरूरत है, जिनका उद्देश्य केवल अराजकता फैलाना और अस्थिरता पैदा करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा कुछ आंतरिक और बाहरी ताकतों के लिए चिंता का विषय है, जो बदनामी फैलाने का अभियान चला रही हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी चुनावों में जीत के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेता पार्टी के समर्थन को बढ़ाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) का मुद्दा उठाया और एक नया नारा एक हैं तो सेफ हैं दिया, जो राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का संदेश देता है। उनका यह संदेश बीजेपी के कोर वोटर तक पहुंचाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, खासकर इन चुनावी राज्यों में।

जीएसटी राजस्व संग्रह सालाना आधार पर 9 % बढ़कर अक्टूबर में 1.87 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा

नई दिल्ली (ईएमएस)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व संग्रह सालाना आधार पर 9 प्रतिशत बढ़कर अक्टूबर में 1.87 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। पिछले साल समान अवधि में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.72 लाख करोड़ रुपये रहा था। घरेलू लेन-देन से अधिक राजस्व मिलने की वजह से जीएसटी राजस्व संग्रह बढ़ा है। जीएसटी महानिदेशालय ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों में बताया कि अक्टूबर में जीएसटी राजस्व संग्रह 1,87,346 करोड़ रुपये (1.87 लाख करोड़ रुपये) पर पहुंच गया। पिछले साल की समान अवधि में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.72 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह जीएसटी राजस्व संग्रह में 8.9 फीसदी का इजाफा हुआ है। जीएसटी राजस्व संग्रह में ये वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू लेन-देन से होने वाली आय में बढ़ोतरी के कारण हुई है। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर के जीएसटी राजस्व संग्रह 1,87,346 करोड़ रुपये में केंद्रीय जीएसटी का संग्रह 33,821 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 41,864 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी 99,111 करोड़ रुपये और उपकर 12,550 करोड़ रुपये रहा।

भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से आशीर्वाद मांगा

धनबाद, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी राज सिन्हा धनबाद में मनईटॉड, डुमरियाटॉड एवं भूली A ब्लॉक में आयोजित काली पूजा के शुभ अवसर पर सम्मलित होकर मां का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया एवं प्रसाद ग्रहण कर साथ ही लोगो से बातचीत की ।इसी क्रम में मनईटॉड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बड़े भाई डूंगुर सिंह ने मिठाई खिलाकर अपना आशीर्वाद दिया।

भारतीय प्रत्याशी राज सिन्हा ने विभिन्न क्षेत्रों में जन संपर्क कर एवं समाज के लोगों से मिल कर अपने पक्ष में मतदान हेतु आशीर्वाद मांगा l इसी क्रम में अखिल भारतीये तौलिक समाज के महामंत्री, संतोष साहू के आवास पर साहू समाज के केंदुआ के संरक्षक रामबली साहू,महेंद्र साव,सुदाम साव,नागेश्वर यादव सहित समाज के कई गणमान्य लोगों से मिल कर सकारात्मक चुनावी चर्चा की ।इसी क्रम में केंदुआ काठ गोदाम में संघन जन संपर्क कर मोहल्ला वासियों से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी, राज सिन्हा के पक्ष में मतदान की अपील की l मौके पर रंजय सिंह,आनंद खंडेलवाल,गोविंद राउत,राजेश गुप्ता साथ अनेक लोग शामिल थे। जनसंपर्क के दौरान धनबाद के पूर्व सासंद पशुपतिनाथ सिंह, श्याम अग्रवाल एवं पूर्व जिला अध्यक्ष, चंद्रशेखर सिंह से मुलाकात की l पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह से आशिर्वाद प्रदान किया ।धनबाद विधानसभा चुनावी कार्यालय में धनबाद विधानसभा के अंतर्गत सात मंडलों के बूथ सशक्तिकरण हेतु बूथ में लगे कार्यकर्ताओं की बैठक विधानसभा संचालन समिति

के संयोजक, मानस प्रसून के अध्यक्षता में संपन्न हुई l इस बैठक में महानगर के जिला अध्यक्ष, श्रवण राय मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष, श्रवण राय ने कहा की प्रत्याशी, राज सिन्हा को जीतने के लिए बूथ को मजबूत करना है ।हमारे एक एक कार्यकर्ता आपने अपने बूथ पर अधिक से अधिक मतदान करा कर प्रत्याशी राज सिन्हा को अधिक से अधिक मतों से जीतने का काम करे।बैठक में विधानसभा के बूथ संयोजक सह विधानसभा संचालन समिति के सह संयोजक, अरुण राय ने कहा अपना बूथ सबसे मजबूत सभी को करना है। इस बैठक में सुनील कुमार,लाल बाबू प्रसाद,सुनील उरांव,मौसम सिंह आदि अनेकों लोग मौजूद थे।

बीसीसीएल में मनाया गया कोल इण्डिया लिमिटेड का 50वाँ स्थापना दिवस

धनबाद । 01 नवंबर 1975 को स्थापित देश की प्रतिष्ठित कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर कोल इण्डिया मुख्यालय कोलकाता सहित सभी अनुषंगी कंपनियों विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में आयोजित समारोह के क्रम में सर्वप्रथम प्रातःकाल में अम्बेडकर चौक, कोयला नगर से शहीद स्मारक तक एक प्रभात फेरी निकाली गयी। निदेशक कार्मिक श्री मुरलीकृष्ण रमैया, निदेशक वित्त श्री राकेश कुमार सहाय के साथ ही मुख्यालय के सभी महाप्रबंधकों विभागाध्यक्षों, अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के तथा श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद कोयला भवन मुख्य द्वार पर स्थित श्रमिक प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ पुष्पांजलि दी गयी। तत्पश्चात कोयला भवन मुख्यालय में प्रशासनिक भवन के सामने के निदेशक कार्मिक द्वारा कोल इंडिया कॉरपोरेट का साथ ध्वजारोहण किया गया और सभी के बीच मिष्ठान वितरण किया गया।कोल इंडिया स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर प्रबंधन द्वारा केन्द्रीय अस्पताल धनबाद में मरीजों के बीच फलों का भी वितरण किया। इस दौरान निदेशक कार्मिक एवं निदेशक वित्त के साथ दीक्षा महिला मंडल की उपाध्यक्ष श्रीमती नमिता सहाय, श्रीमती रंजना सिंह एवं श्रीमती नेहा दास के साथ ही अन्य सदस्य भी उपस्थित रहीं।

विधानसभा चुनाव 2024 के तहत

सामान्य प्रेक्षक ने किया वासेपुर व पांडरपाला के मतदान केंद्रों का निरीक्षण

धनबाद, विधानसभा चुनाव 2024 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 40 धनबाद विधानसभा के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक, तुकाराम हरिभाऊ मुंढे ने शुक्रवार की सुबह वासेपुर एवं पांडरपाला के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने वासेपुर के बूथ संख्या 87, 88, 72 तथा 73 एवं पांडरपाला के बूथ संख्या 50, 51, 54 व 55 का निरीक्षण किया। साथ ही मतदाताओं से बातचीत भी की।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने बीएलओ को मतदान केंद्रों में पेयजल, शौचालय, रैंप, बिजली सहित अन्य एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी सुनिश्चित करने तथा बेहतर पोल डे मैनेजमेंट की प्लानिंग करने का निर्देश दिया।

साथ ही वासेपुर व पांडरपाला में शत प्रतिशत मतदान करवाने के लिए भी आवश्यक दिशानिर्देश दिए।

धनबाद से तीन प्रत्याशियों ने लिया नामांकन वापस

धनबाद, विधानसभा चुनाव 2024 के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि, 1 नवंबर 2024, को तीन प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस लिया है। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि व समय के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त, माधवी मिश्रा ने मीडिया को बताया कि 42 टुंडी विधानसभा से दिनेश कुमार महतो एवं हिरामन नायक तथा 41 झरिया विधानसभा से मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने अपना नाम वापस लिया है।उन्होंने बताया कि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद 38 सिंदरी विधानसभा से 9, 39 निरसा से 9, 40 धनबाद विधानसभा से 18, 41 झरिया विधानसभा से 11, 42 टुंडी विधानसभा से 20 एवं 43 बाघमारा विधानसभा से 13 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। मतदान के दिन 40 धनबाद एवं 42 टुंडी विधानसभा में 2-2 बैलेट यूनिट का प्रयोग किया जाएगा। जबकि 38 सिंदरी, 39 निरसा, 41 झरिया एवं 43 बाघमारा में एक-एक बैलट यूनिट का प्रयोग किया जाएगा। उपायुक्त ने मीडिया को बताया कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हर विधानसभा के लिए एक-एक सामान्य प्रेक्षक, 2 व्यय प्रेक्षक एवं एक पुलिस प्रेक्षक की नियुक्ति की गई है। जिसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दी गई है। आदर्श आचार संहिता या अन्य किसी भी शिकायत को लेकर कोई भी मतदाता प्रेक्षकों से मिल सकते हैं। मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण पर प्रकाश डालते हुए उपायुक्त ने कहा कि पहले चरण का प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है। 4 नवंबर से दूसरे चरण का प्रशिक्षण श्री श्री लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट महिला महाविद्यालय, पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज एवं गुरु नानक कॉलेज भुदा में शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईवीएम को लेकर जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां तथा चुनाव में उपयोग करने के लिए पर्याप्त वाहन की व्यवस्था कर ली है। पर्व त्यौहार को देखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।

साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे-वैसे सभी टीम ज्यादा सतर्क रहकर अपना कार्य करेगी। पत्रकार वार्ता में वरीय पुलिस अधीक्षक, हृदीप पी जनार्दनन ने मतदाताओं व मतदान केंद्र की सुरक्षा, चेक पोस्ट सहित अन्य बिंदुओं पर पुलिस की तैयारियों से मीडिया को अवगत कराया।

लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर

समाहरणालय परिसर में पदाधिकारी एवं कर्मियों ने राष्ट्र की एकता अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने की ली शपथ

धनबाद, 31 अक्टूबर 2024 को लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर समाहरणालय में पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने की शपथ ली।

अधिकारियों एवं कर्मियों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करने और देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान देने का संकल्प लिया।

शपथ लेने से पूर्व सभी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर एनडीसी, दीपक दुबे, सहायक जनसम्पर्क पदाधिकारी, आलोक कुमार मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे।

काली पूजा पंडाल का उद्घाटन सांसद ढुलू महतो ने किया

धनबाद। हीरापुर, लिंडसे क्लब रोड स्थित श्री श्री श्यामा पूजा पंडाल का उद्घाटन सांसद ढुल्लु महतो ने फीता काटकर एवं प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया।

सांसद ने समिति के सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए कहा की काली माता का आशीर्वाद सभी पर बना रहे l यही मंगल कामना करता हूं। समिति के सदस्य वरीय अधिवक्ता सोमनाथ चौधरी ने कहा कि 2013 में इस पूजा आयोजन का आरम्भ किया गया था और इस वर्ष पूजा के 12 साल पूरे हो गए हैं। हर साल की भांति इस वर्ष भी समिति के सदस्यो के ही चंदा से काली पूजा संपन्न हुआ है।उन्होंने समस्त धनबाद वासियों को काली पूजा, दीपावली भाई फोटा, द्वार पूजा एवं छठ पर्व की हार्दिक बधाई दी l

सामान्य, पुलिस व व्यय प्रेक्षक ने की चुनाव की तैयारियों की समीक्षा

धनबाद, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए 38 सिंदरी, 39 निरसा, 40 धनबाद, 41 झरिया, 42 टुंडी तथा 43 बाघमारा विधानसभा के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक तथा व्यय प्रेक्षकों ने शुक्रवार को समाहरणालय के सभागार में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की।

इस दौरान प्रेक्षकों ने ब्लॉक लेवल ऑफिसर बीएलओ, के प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने, सभी मतदान केंद्रों में पेयजल, शौचालय, रैंप, बिजली, फर्नीचर सहित अन्य एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी सुनिश्चित करने, सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए अलग-अलग प्रवेश एवं निकास द्वार रखने, बूथ अवेयरनेस ग्रुप की गतिविधियां बढ़ाने, त्योहारों के दौरान बाहर गए मतदाताओं को मतदान करने के लिए वापस बुलाने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं व्यय प्रेक्षकों ने एफएसटी एवं एसएसटी द्वारा जब्त की गई राशि की मनी ट्रेल की पहचान करने और सतर्क रहकर जांच करने का निर्देश दिया।बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त, माधवी मिश्रा ने विधानसभा चुनाव के लिए जिला प्रशासन की तैयारी और अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करने के लिए जिले में 16 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इसके अलावा 63 स्टेटिक सर्विलांस टीम एवं 63 फ्लाइंग स्क्वायड टीम पूरे जिले में कार्यरत है। एक्सपेंडिचर सेंसिटिव धनबाद, झरिया एवं बाघमारा विधानसभा में एसएसटी व एफएसटी की 12-12 टीम तथा सिंदरी, निरसा एवं टुंडी में 9-9 टीम कार्यरत है। जबकि सभी विधानसभा में 4-4 अकाउंटिंग टीम एवं 2-2 असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की नियुक्ति गई है।

आगे उपायुक्त ने बताया कि 31 अक्टूबर 2024 तक जिले के विभिन्न चेक पोस्ट पर 2 करोड़ 7 लाख 21 हजार 384 रुपए नगद, 24 लाख 28 हजार 639 रुपए की अवैध शराब, 14 लाख 46 हजार 400 रुपए के मादक पदार्थ एवं गांजा, 13 लाख 47 हजार 500 का जावा तथा 17 लाख 18 हजार 310 रुपए की चांदी बरामद की गई है।

इसके अलावा उन्होंने व्हीकल मैनेजमेंट, मतगणना दिवस की व्यवस्था, मतदान कर्मियों व मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण, स्वीप गतिविधियां, कम्यूनिकेशन प्लान, वल्नरेबिलीटी मैपिंग, पोल डे मैनेजमेंट सिस्टम, सुविधा, सी-विजील, एनकोर, सक्षम ईसीआई, बीएलओ एप, ईआरओ नेट सहित चुनाव में उपयोग किए जाने वाले अन्य आईटी एप्लिकेशन की विस्तृत जानकारी दी।

बैठक के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक, हृदीप पी जनार्दनन ने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।

बैठक में 38 सिंदरी विधानसभा 39 निरसा विधानसभा, 40 धनबाद विधानसभा, 41 झरिया विधानसभा, 42 टुंडी विधानसभा, 43 बाघमारा विधानसभा के सामान्य प्रेक्षक सभी छह विधानसभा के लिए नियुक्त पुलिस प्रेक्षक तथा व्यय प्रेक्षकों के अलावा उप विकास आयुक्त, सादात अनवर, नगर आयुक्त, रविराज शर्मा, डीटीओ, दिवाकर सी द्विवेदी, सिटी एसपी श्री अजीत कुमार, ग्रामीण एसपी श्री कपिल चौधरी, सभी निर्वाची पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

माँ काली की पूजा अर्चना कर राज सिन्हा ने लिया आशीर्वाद

समिति के सदस्यों ने राज सिन्हा का ढोल नगाड़े के साथ किया स्वागत

धनबाद, भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा ने माँ काली के पूजा अर्चना में शामिल होकर माँ काली का आशीर्वाद लिया। वहीं विभिन्न पंडालों के समिति के सदस्यों ने भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा का ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया। पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण किया। भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा ने कहा की आप सबों का यह प्यार मेरे ऊपर ऐसे ही बना रहे। वहीं कहा की कोयलांचल वाशियो पर मां काली की कृपा दृष्टि बनी रहे।

डीएस कॉलोनी, मनईटांड़ स्थित दुमरियाटांड, काली मंदिर मनईटांड़, भूली ए ब्लॉक, सेंट्रल कॉलोनी बी ब्लॉक भूली, दास तोला पांडरपाला, कोर्ट क्वाटर, हीरापुर हटिया इन सभी जगहों पर धनबाद भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। वही समिति के सदस्यों ने कहा कि धनबाद में प्रत्याशी ऐसा ही चाहिए जो एक बुलावे पर किसी भी परिस्थिति में साथ खड़ा हो जाय।

साथ ही उन्होंने कहा जहां तक राज सिन्हा की बात है, वे हर समय जनता के बीच रहने वाले जनप्रतिनिधि है।

मौके पर अमरेंद्र सहाय, अशोक कुमार, संजय कुशवाहा, सिसम राऊत, स्वपन कश्यप, दिनेश दीवान, सुबीर साव, मौसम सिंह, मोंटी सिंह, विजय सिंह, मिंटू सिंह, विजय रजक, संकट मोचन पाण्डेय, ऋषभ राज, अम्बर कलश, सूरज पासवान, मानस रंजन पाल, जीतेन्द्र प्रसाद, रंजन यादव, हुलास दास, सतीश दास, भगीरथ दास, रंजम दास, सावित्री देवी सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे।

कोल इंडिया के स्थापना दिवस पर दी बधाई : ब्रजेंद्र सिंह

धनबाद, झारखंड इंटक के उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष, ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है की आज कोल इंडिया का स्थापना दिवस है l तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में दिवाली के दिन ही कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया था l उस दिन एक से एक बड़े-बड़े कोयला खदानों के मालिक धराशाई हो गए थे और कितनों को तो हार्ट अटैक भी हो गया था, लेकिन उस दिन मजदूरो में सबसे ज्यादा उत्साह देखा गया था l श्रीमती गांधी कोलियारियों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया कि उनको मालूम था कि मजदूरों को मालिकों द्वारा किस तरह शोषण किया जा रहा है और रातों रात मजदूर एक अच्छे पगार पाने के हकदार हो गए l आज उसी मौके पर कोल इंडिया का स्थापना दिवस मनाया जाता है l उन्होंने इस मौके पर अपनी ओर से यूनियन की ओर से सभी मजदूर भाइयों बहनो और उनके परिवार जनों को बधाई दी साथ ही उन्होंने शुभकामना भी दी l आने वाले दिनों में मजदूरों को और भी सुविधा दी जाय तथा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो वेतन और अन्य सुविधाएं मिलती है, उससे ज्यादा कोयला खदानों के मजदूरों को सुविधा मिल सके l क्योंकि वे जान जोखिम में देकर काम करते हैं l

रोहित यादव ने शहीद राजू यादव के आदमकद प्रतिमा पर माला अपर्ण कर नमन किये

लोयाबाद। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव शुक्रवार को लोयाबाद मोड़ पहुंचे । जहां लोयाबाद मोड़ स्थित शहीद राजू यादव के आदमकद प्रतिमा पर माला अपर्ण कर नमन किये। इस दौरान रोहित यादव ने कहा कि कल तक चुनाव चिन्ह नहीं था आज चुनाव आयोग से मुझे मेरा चिन्ह है सिलाई मशीन मिला है और पूरे बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्धन से में कहना चाहता हूं कि सिलाई मशीन पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाने का कस्ट करें।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2024 के दौरान

सीएसआईआर-सिंफर में सतर्कता वॉकथॉन एवं एकता दौड़ कार्यक्रमों का किया गया आयोजन

धनबाद, सीएसआईआर-सिंफर, धनबाद में सतर्कता वॉकथॉन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम मे संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अरविंद कुमार मिश्रा एवं प्रशासन नियंत्रक, आलोक शर्मा सहित बड़ी संख्या मे संस्थान के वैज्ञानिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। साथ ही संस्थान मे एकता दौड़ कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। ज्ञात हो की इस कार्यक्रम को भी बड़ी संख्या मे संस्थान के वैज्ञानिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लेकर सफल बनाया। इन कार्यक्रमों का संचालन संस्थान के सतर्कता अनुभाग के देख- रेख में किया गया l किसमे मुख्य भूमिका, कुमार राहुल, प्रशासनिक अधिकारी, राकेश कुमार, अनुभाग अधिकारी, दुलाल चन्द्र मण्डल, आकाश कुमार कर्ण, राजु कोरंगा एवं राजेंद्र रजवार की रही।

कांग्रेस प्रत्याशी के घर पहुंचे राज सिन्हा, लिया जीत का आशीर्वाद

धनबाद। धनबाद विधासभा प्रत्याशी राज सिन्हा हटिया में चुनावी जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी अजय दुबे के घर पहुंचे l जहा अजय दुबे के बड़े भाई रंग नाथ दुबे से राज सिन्हा ने आशीर्वाद लिया। वही रंग नाथ दुबे ने धनबाद विधानसभा प्रत्याशी राज सिन्हा को जीत का आशीर्वाद दिया।

राष्ट्रीय एकता दिवस पर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय से रेलवे स्टेडियम तक यूनिटी रन का हुआ आयोजन

धनबाद, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर धनबाद मंडल में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया l इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक, कमल किशोर सिन्हा द्वारा मंडल के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों सहित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, धनबाद से रेलवे स्टेडियम,धनबाद तक यूनिटी रन किया गया । इसके साथ ही मंडल रेल प्रबंधक द्वारा यूनिटी रन में विजेता एवं उपविजेता रहे कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया ।

स्वामित्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक किशोर कुमार पाण्डेय द्वारा डी. बी. कॉर्प लिमिटेड, के. जी. आश्रम के नजदीक, भुईफोड़ मंदिर, गोसाईडीह, गोविन्दपुर रोड, धनबाद से मुद्रित एवं विनोद नगर, धनबाद (झारखण्ड)- 826001 से प्रकाशित आर. एन. आई. नं. - 58948/94, पो. रजि. -डी. एन. बी. /54 फोन नं. 0326-2310243, 9431507990 Fax N0. -0326-2310243 Email : koylanchal_dhn@rediffmail.com & koylanchal.hindi@gmail.com ▶ समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार।